



प्रमुखस्वामी महाराज
शताब्दी महोत्सव

मदरलैंड वॉइस

शनिवार, 21 मई 2022

दिल्ली से प्रकाशित एवं जयपुर, लुधियाना, चंडीगढ़, पटना, रायपुर, देहरादून, शिमला में प्रसारित

राष्ट्र प्रेमियों का दैनिक समाचार पत्र

ब्रिक्स ने क्षेत्रीय अखंडता व कानूनों का हमेशा सम्मान किया, हमें इन प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरना होगा: जयशंकर वर्चुअल ब्रिक्स समिट में भारतीय विदेश मंत्री ने चीन को सुनाई खरी-खोटी

नई दिल्ली, एंजेसी। चीन की मेजबानी में ब्रिक्स समूह की डिजिटल बैठक हुई। बैठक में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने संप्रभुता और अखंडता की बात करते हुए चीन को खूब खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यूक्रेन संघर्ष का जिम्मा लेना इच्छा नहीं रखते हैं चीन को आईना भी दिखाया। उन्होंने कहा ब्रिक्स ने बार-बार संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि हमें उन प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरना चाहिए।



विदेश मंत्री जयशंकर की यह टिप्पणी ऐसे समय में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है जब एक तरफ पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लंबा खिंच रहा है उधर, यूक्रेन के खिलाफ रूस का आक्रामक जारी है। जयशंकर ने कहा ब्रिक्स को आतंकवाद, विशेषकर सीमापार आतंकवाद को लेकर बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने वाला रुख दिखाना चाहिए। खास बात यह है कि इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हुए। उन्होंने

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। जिनपिंग ने जोर देकर कहा कि इतिहास और वास्तविकता दोनों हमें बताते हैं कि दूसरों की कीमत पर अपनी सुरक्षा की तलाश करना केवल नए तनाव और जोखिम पैदा करेगा।

अगले महीने होने वाले ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में विदेश

मंत्रियों की बैठक वीडियो लिंक के माध्यम से आयोजित की गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव के कारण ऊर्जा, खाद्य एवं अन्य उत्पादों की लागत में तीव्र वृद्धि हुई और विकासशील देशों को ध्यान में रखते हुए इसे कम किया जाना चाहिए। चीन, रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में जयशंकर ने यह भी कहा कि

ब्रिक्स ने बार-बार संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता की बात की।

ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) पांच बड़े विकासशील देशों का समूह है, जो 41 प्रतिशत वैश्विक आबादी, 24 प्रतिशत वैश्विक जीडीपी और 16 प्रतिशत वैश्विक कारोबार का प्रतिनिधित्व करता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स को एक सकारात्मक, प्रेरक और रचनात्मक पावर करार दिया। उन्होंने कहा कि इस समूह को ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को स्थिर बनाने में मदद करनी चाहिए जब दुनिया अशांति से जूझ रही है। उन्होंने सभी देशों में साझा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी वैश्विक सुरक्षा पहल (जीएसआई) को भी आगे बढ़ाया। शी जिनपिंग ने कहा कि आज प्रमुख बलवाओं और महामारी के प्रभाव को जोड़ा जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्थिति में अस्थिरता, अनिश्चितता और असुरक्षा के कारक बढ़ रहे हैं। शी ने कहा इसके बावजूद, शांति और विकास महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।

चीनी पुल पर भारत का जवाब डरपोक जैसा: कांग्रेस

नई दिल्ली, एंजेसी। कांग्रेस ने पैगोंग झील के निकट चीन द्वारा दूसरा पुल बनाए जाने संबंधी खबरों पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया को विरोधाभासी करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि इस तरह के बयान से कुछ नहीं होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। पार्टी ने सरकार से यह सवाल भी किया कि क्या चीन द्वारा पैगोंग झील के निकट अवैध निर्माण किया जाना भारत में भौगोलिक अखंडता पर हमला नहीं है? पूर्वी लद्दाख में पैगोंग सो के पास चीन के दूसरा पुल बनाने की खबरें आने के एक दिन बाद विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा था कि खबरों के अनुसार जिस स्थान पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, वह क्षेत्र दशकों से उस देश के कब्जे में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सप्ताहिक प्रेस वार्ता में यह भी कहा था कि भारत की ऐसे घटनाक्रम पर नजर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'चीन पैगोंग पर पहला पुल बनाता है। भारत सरकार कहती है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। चीन पैगोंग पर दूसरा पुल बनाता है। भारत सरकार कहती है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं।' उन्होंने कहा, 'भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं हो सकता। डरे हुए अंदाज में प्रतिक्रिया करने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री को राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए।' कांग्रेस



प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, 'पैगोंग झील पर चीन द्वारा दूसरे पुल के निर्माण पर विदेश मंत्रालय का बयान विरोधाभासी है। विदेश मंत्रालय को सही जानकारी नहीं है तो रक्षा मंत्रालय स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं करता, आखिर देश को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है उन्होंने सवाल किया, 'क्या यह सही नहीं है कि चीन पूर्वी लद्दाख के पैगोंग झील वाले जिस इलाके में पुल का निर्माण कर रहा है उसे भारत दशकों से चीन द्वारा अनधिकृत 'कब्जे वाला क्षेत्र मानता है? ऐसे में विदेश मंत्रालय की ताजा टिप्पणी से असमंजस की स्थिति पैदा होती है।' खेड़ा ने दावा किया, 'कुटनीति में भाषा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जहां हमारी वीर सेना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती है, वहीं सरकार की ऐसी ढुलमुल टिप्पणी देश के हौसले का मजाक उड़ाती है।

संक्षिप्त समाचार

राज्य सभा चुनाव में निर्दलीय विधायकों का बढ़ा वजन

मुंबई, एंजेसी। महाराष्ट्र में राज्यसभा की छह सीटें खाली हैं। राज्यसभा की छह सीटों के लिए जल्द ही चुनाव होने हैं। मगर छठी राज्यसभा सीट के लिए रस्साकशी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इन छह सीटों में से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के पास एक-एक और बीजेपी के पास दो सीटें हैं। उधर संभाजी राजे ने घोषणा की थी कि वह छठे स्थान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जिसके बाद शिवसेना ने अब राज्यसभा की छठी सीट के लिए अपनी स्थिति का ऐलान कर दिया है। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने जानकारी दी है कि शिवसेना राज्यसभा की छठी सीट से चुनाव लड़ेगी। इसी को देखते हुए शिवसेना ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय विधायकों का वजन बढ़ गया है। क्योंकि छठी सीट के लिए निर्दलीय विधायकों के वोट निर्णायक हो सकते हैं। एक तरफ जहां छठी सीट पर संभाजी राजे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने अपना दूसरा उम्मीदवार चुनने के लिए मोर्चा बंदी शुरू कर दिया है।

आज से बदलेगा दिल्ली का मौसम, तापमान में कमी के साथ बारिश के असर

नई दिल्ली, एंजेसी। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से दिल्लीवासियों को राहत मिलने वाली है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक आंभी-तूफान और फिर लगातार तीन दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान में भी आठ डिग्री सेल्सियस तक कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। आसमान में हल्के बादल छाए रहने और आंभी-तूफान भी आ सकता है। इसके बाद, रविवार को भी धूल भरी आंभी-तूफान के आने की आशंका है। राजधानी में 22 मई से बारिश का अनुमान है। रविवार को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इस दिन बारिश होगी। इसके बाद 23 मई को अधिकतम तापमान में एक डिग्री की कमी आएगी और यह 38 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाएगा। फिर 24 मई को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। 22 मई से लेकर 24 मई तक बारिश होने की संभावना है। इसके बाद, 25 और 26 मई को भी दिल्ली में बारिश छाए रहने वाले हैं।

भारत ने मिस्त्र को मेजी 61,500 टन गेहूं की खेप, 12 देश अभी गेहूं निर्यात के लिए कतार में भारत इन देशों के अनुरोध पर विचार करेगा

नई दिल्ली, एंजेसी। भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद गेहूं की एक बड़ी खेप मिस्त्र को भेजी है। दरअसल मिस्त्र के अनुरोध के बाद भारत की तरफ से 61,500 टन गेहूं मिस्त्र को भेजा गया है। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भारत की तरफ से ये किसी देश को दी गई सबसे बड़ी खेप है। इतना ही नहीं मिस्त्र की तरह ही करीब 12 देशों ने भारत से अनुरोध किया है कि वह उन्हें गेहूं का निर्यात करे। रिपोर्ट के मुताबिक, गेहूं मामले से अवगत अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कम से कम एक दर्जन देश हैं, जो भारत से गेहूं के लिए राजनयिक स्तर पर अनुरोध कर रहे हैं। मिस्त्र को जितना गेहूं निर्यात किया जाना

था, कस्टम ने उसमें से 17,160 टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी। अधिकारी ने बताया कि भारत की तरफ से निर्यात पर प्रतिबंध प्रभाव होने से पहले ही मिस्त्र को भेजे जा रहे टन गेहूं मिस्त्र को भेजा गया है। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के लिए क्रेडिट गारंटी सहित अनिवार्य औपचारिकता पूरी कर ली गई थी। मिस्त्र को भारत की तरफ से गेहूं की शिपमेंट मेरा इंटरनेशनल प्रॉवेट लिमिटेड कर रहा है। प्रतिबंध के प्रभाव होने के बाद गेहूं की इस खेप के लिए शिप को कस्टम क्लियरेंस दिया गया। ये खेप 17 मई को गुजरात के कांडला बंदरगाह से निकल गई थी। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत ने 13 मई को कहा कि वहां अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के

निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि, भारत ने ये जरूर कहा था कि वहां खाद्य संकट झेल रहे उन देशों की मदद करेगा जो उनसे मदद की मांग कर रहे हैं। भारत ने कहा कि प्रतिबंध से पहले जिन देशों के साथ गेहूं निर्यात को लेकर सौदा किया गया है, उन देशों को भी भारत गेहूं निर्यात करेगा। वहीं, मिस्त्र को गेहूं भेजने की जानकारी देने वाले अधिकारी ने कहा कि भारत विदेशों से प्राप्त हो रहे गेहूं के अनुरोध पर विचार करेगा। ये देश गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी जल्द ही अनुरोधों की समीक्षा करने के लिए चर्चा करने वाले हैं। हालांकि, अधिकारी ने ये नहीं बताया कि विदेश मंत्रालय को किन देशों से

वित्तमंत्री निर्मला ने कहा, कार्टेलाइजेशन की चुनौती से निपटना होगा

नई दिल्ली, एंजेसी। देश में बढ़ती महंगाई के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाजार में संभावित कार्टेलाइजेशन पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कर्मांडेटिज की आपूर्ति में कमी के कारणों का पता लगाने की जरूरत है। कंपनियों की आपसी सांठगांठ को कार्टेल कहते हैं। इसके तहत वे सामान के प्रॉडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल या कीमत को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। सीतारमण ने कहा कि रेगुलेटर को मजबूत और एंक्टिविजेशन के बारे में गहरी समझ होना जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा कि कार्टेलाइजेशन की चुनौती से निपटना होगा। जिसमें को बढ़ती कीमतों के पीछे विभिन्न कारणों का जिक्र कर उन्होंने कहा कि आपूर्ति में कमी के हालात के पीछे कारणों को भी देखने की जरूरत है। उन्होंने ये टिप्पणियां

उस समय पर की हैं, जब देश में महंगाई आसमान छू रही है। सीतारमण के पास कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का प्रभार भी है। उन्होंने कहा कि सीसीआई के साथ-साथ कंपनियों को भी संवेदनशील बनने की जरूरत है। सीसीआई के मुताबिक कंपनियों की आपसी सांठगांठ को कार्टेल कहते हैं। इसके तहत वे सामान के प्रॉडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल या कीमत को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में कार्टेल की बात कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय बीयर कंपनियों और भारतीय कंपनी के बीच भी गोलबंदी की बात सामने आई थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इन कंपनियों ने देश में 11 साल तक बीयर की कीमत को फिक्स किया।

6 करोड़ आबादी वाला फ्रांस राफेल बना रहा 130 करोड़ का देश मंदिर-मस्जिद खोद रहा: शिवसेना

नई दिल्ली, एंजेसी। शिवसेना ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित संपादकीय के जरिए शिवसेना ने कहा है कि इन मुद्दों के जरिए ही भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव इन मुद्दों पर लडेगी। साथ ही पार्टी ने भारत की तुलना फ्रांस से की है और काशी-मथुरा मामले को लेकर कश्मीर घाटी में हिंदू पंडितों के 'दमन' का मुद्दा उठाया है। साढ़े 6 करोड़ जनसंख्या वाला देश फ्रांस 'राफेल' बनाकर हमें बेच रहा है और 130 करोड़ लोगों का देश मंदिर-मस्जिद और अवशेषों का उत्खनन कर रहा है। इसी को कुछ लोग विकास समझते हैंगे तो उन्हें साष्टांग दंडवत। इस दौरान पार्टी ने काशी-मथुरा, ताजमहल, जामा मस्जिद को लेकर जारी खबरों का भी जिक्र किया। पार्टी ने कहा, 'भाजपा के विकास का मांडल इस तरह से चल रहा है। हनुमान चालीसा, भोगा प्रकरण बहुत ज्यादा नहीं चल। हर बार कोई नई राम कहानी अथवा कृष्ण कथा रची जाती है। इसका मूल रामायण-महाभारत से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन लोगों को उकसाते रहना है, ऐसा धंधा चल रहा है।' शिवसेना ने सरकार पर कश्मीर



घाटी की स्थिति की अन्देखी करने के भी आरोप लगाए हैं। पार्टी ने लिखा, 'अयोध्या तो झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है' यह घोषणा हिंदुत्ववादियों को सुख पहुंचानेवाली है ही, परंतु कश्मीर घाटी में हिंदू पंडितों का जो दमन फिर से शुरू हुआ है, वह मुद्दा भी काशी-मथुरा जितना ही गंभीर है। उस ओर सुविधानुसार अन्देखी चल रही है।' बीते सप्ताह राउत ने कहा था कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद और ऐसे में जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो देश को स्थिरता की जरूरत है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राउत ने कहा, 'मुझे लगता है कि 2024 की तैयारियां इस तरह से की जा रही हैं कि देश में तनाव पैदा करने के लिए सभी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को खुदाई की जा रही है।

मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुंचना है : नड्डा

जयपुर, एंजेसी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी, संगठन को मजबूत करने और केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। नड्डा ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने अपने कुशासन से वीरों की इस भूमि को बर्बाद किया है। नड्डा ने कहा, आज चार सत्रों में हम पार्टी की आगामी योजना की चर्चा करने वाले हैं। इस दौरान संगठनात्मक, कार्यक्रमत्मक विषयों पर, पार्टी के आंतरिक संगठन को मजबूत करने पर हम चर्चा करेंगे। जिसमें को बढ़ती कीमतों के पीछे विभिन्न कारणों का जिक्र कर उन्होंने कहा कि आपूर्ति में कमी के हालात के पीछे कारणों को भी देखने की जरूरत है। उन्होंने ये टिप्पणियां



को आगे बढ़ाते हुए बूथ सशक्तिकरण की बारीकियों पर चर्चा होगी। नड्डा ने कहा कि बैठक के दौरान पार्टी तीन वक्तव्य जारी करेगी। इनमें एक वक्तव्य प्रधानमंत्री मोदी की अग्रुवाई में बीते आठ सालों में देश को मजबूत करने के लिए चलाए गए कार्यक्रमों पर होगा।

विभिन्न चुनावों में भाजपा की जीत का जिक्र कर नड्डा ने कहा कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर अटूट विश्वास जताते हुए बार-बार उनके कार्यक्रमों पर मोहर लगाई है, जिसके लिए भी जनता का आभार जताया जाएगा। राज्य की कांग्रेस सरकार

ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वाराणसी को सुरक्षित रखा जाए और नमाज पढ़ने से नहीं रोके

नई दिल्ली, एंजेसी। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान तीन बड़े सुझाव सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिवलिंग मिलने के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से न रोका जाए। पुलिस प्रशासन को देखना होगा कि कितनी संख्या में वहां पर जा सकते हैं। तीसरी बड़ी बात कोर्ट की ओर से कही गई है, कि मामला कॉम्प्लैक्स है, वाराणसी में ही कोर्ट में ही मामला सुना जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ की ओर से कहा गया है कि जो जिला जज न्यायिक अधिकारी होते हैं। जिला जज को हम निर्देश नहीं दे सकते हैं। कमीशन की रिपोर्ट को कैसे डील करना है। अदालतों को उसी मामले की सुनवाई करनी

चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला जज अपने हिसाब से सुनवाई करें। वहीं शुक्रवार को सुनवाई से पहले हिंदू पक्षकारों की तरफ से 278 पन्नों का विस्तृत हलफनामा दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी का मामला उपसना स्थल कानून 1991 के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि ये 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को लेकर है। जबकि ज्ञानवापी परिसर में स्थित देवी श्रृंगार गौरी की उपासना, पूजा और दर्शन पिछली सदी के आखिरी दशक तक हो रही थी। अदालत पहले धार्मिक स्थलों की स्थिति के सवाल पर पहले सुनवाई करे। फिर उसके कैरेक्टर और स्थिति की समीक्षा हो। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई छह जुलाई तक के लिए टाल दी।



जम्मू-कश्मीर के बच्चों से बातचीत की दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने

» विजय गौड़, मदरलैण्ड संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने आज पुलिस मुख्यालय के आदर्श सभागार में जम्मू-कश्मीर के बच्चों से बातचीत की। जम्मू-कश्मीर के रियासी और बादीपोरा जिलों के 11-21 वर्ष के 172 बच्चे गृह मंत्रालय (भारत सरकार) के सद्भावना उपग्रहों के तहत जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित हृदय दान कार्यक्रम यात्रा कार्यक्रम में शामिल हैं। इस अवसर पर बोलते हुए, पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने जेके पुलिस के इस प्रयास की सराहना की और बच्चों को राष्ट्र की खोज में दिल्ली पुलिस के आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया।



ये आपके प्रारंभिक वर्ष हैं और इस अवधि के दौरान आप जो कुछ भी देखते और सीखते हैं, वह आपको बेहतर इंसान बनाएगा, उन्होंने खेल और संगीत के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि इस तरह के शौक न केवल आपको तनाव मुक्त करते हैं, बल्कि वे आपको अपने प्राकृतिक स्व को बाहर लाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। आप दुनिया भर में कहीं भी रहें या यात्रा करें, व्यक्तियों की

जरूरतें, इच्छाएँ और उत्साह समान रहता है; और जब हम अपने सपनों के लिए हाथ मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा देश के लिए अच्छे होते हैं। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने फिर से पुष्टि की कि यह झड़टकरनेकशन राज्य में कठिन दौर के दौरान उनके द्वारा अनुभव की गई अलगाव के कारण पैदा हुए अंतराल को भर दिया। उन्होंने बच्चों को दिल्ली पुलिस युवा योजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और आश्वासन दिया कि दिल्ली पुलिस स्थानीय युवाओं को पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करने और अच्छी नौकरी पाने में मदद करने के लिए ऐसी सामुदायिक आउटरीच पहल को लागू



करने में जेकेपी को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने उनके प्रवास में सफलता की कामना की और देश के सफल नागरिकों के रूप में भविष्य में उनसे मिलने की उम्मीद की। प्रतिभागी तीन दिनों तक दिल्ली में रहेंगे और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक चाणक्य पुरी, संसद भवन, इंडिया गेट और मेट्रो ट्रेनों जैसे स्थानों का दौरा करेंगे और शहर के अधिकारियों/प्रसिद्ध हस्तियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके बाद वे बाकी के दौरे के लिए चेन्नई और बैंगलोर जाएंगे। संवाद सत्र के दौरान, बच्चों को दिल्ली पुलिस इतिहास, युवा पहल और दिल्ली पुलिस अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर लघु सूचनात्मक फिल्में दिखाई गईं। दिल्ली के पुलिस स्टेशनों में पेशेवर

प्रशिक्षण के बाद अच्छी नौकरी पाने वाले कुछ सफल युवा उम्मीदवारों ने भी अपने अनुभव साझा किए कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए और उनके उदास जीवन को खुशहाल समय में बदल दिया। पीएचएच के लॉन में डॉंग स्वभाव टिम द्वारा आयोजित डॉंग शो ने भी बच्चों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर विशेष आयुक्त पुलिस सुंदरी नंदा, विशेष आयुक्त पुलिस एस.बी.के. सिंह और विशेष आयुक्त पुलिस संजय बिनावाल, विशेष आयुक्त पुलिस एम के मीणा, विशेष आयुक्त पुलिस डॉ॰ सागर प्रीत हुड्डा, विशेष आयुक्त पुलिस संजय सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

राजस्थानी संस्कृति परिषद के सौजन्य से दिल्ली में आयोजित हुआ राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम



» स्वतंत्र सिंह भुल्लर, मदरलैण्ड संवाददाता

नई दिल्ली। राजपुताना समाज दिल्ली का रजत जयंती समारोह 18 मई 2022 को तमिल संगम सभागार में आयोजित हुआ जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में अभिमान्य सिंह राजवी, युवा नेता व स्वर्गीय श्री भैरों सिंह शेखावत साब मुप उप राष्ट्रपति भारत सरकार के देहिने, श्रीमती सुरभि तिवारी धर्मपति श्री मनोज तिवारी सांघद, अनिल शर्मा पूर्व विधायक आर के पुरम, जितेन्द्र सिंह कारणा पूर्व पापंद फतेह पुर शेखावाटी और विकास तंवर महामंत्री मेहरोली दक्षिणी दिल्ली, इनके अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं अन्य क्षेत्रों से बहुत भारी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस आयोजन में समाज के अलावा भी सभी वर्गों के लोगों ने उपस्थित

होकर आयोजन को सफल बनाया, कार्यक्रम के दौरान समाज की संस्कृतिक इकाई "राजस्थानी संस्कृति परिषद के सौजन्य से राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकारों ने बहुत ही मनमोहक और सुंदर संस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की, जिसे देख कर सारे लोगों ने मंत्र मुग्ध होकर कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया और प्रशंसा की, आयोजन में सम्मिलित सभी अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष श्री सवाई सिंह निर्वाण महासचिव श्री ओनाड सिंह शेखावत ने बहुत ही सौम्य और शालिनता के साथ किया।

मंच पर संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री भारत सिंह राठौर, श्री देवी सिंह नरुका एवं अन्य सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित रहे और बहुत ही सांस्कृतिक एवं पारम्परिक तरीके से मेहमानों का स्वागत किया।

राजपुताना समाज दिल्ली की औपचारिक स्थापना 1997 में हुई इसके सदस्य राजस्थान से जो नौकरी या व्यवसाय के चलते दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, राजस्थान की संस्कृतिक विरासत और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए, आपसी भाईचारा और रीति रिवाजों को संजोए रखने के लिए एसी संस्था की आवश्यकता पडी, आज संस्था ने अपने सभी उद्देश्यों का पालन करते हुए अपने सफलतम के 25 साल पूरे किये हैं।

चीन पैगोंग लेक पर दूसरा पुल उस क्षेत्र में बना रहा है जो 1960 से उसके अवैध कब्जे में है - भारत

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारत ने कहा है कि चीन द्वारा पैगोंग लेक पर बनाया जा रहा दूसरा पुल उस क्षेत्र में है जो 1960 से उस देश के अवैध कब्जे में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने कभी भी हथियारों के क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। बागची ने कहा, हथियारों चीन की ओर से पैगोंग लेक पर अपने पूर्व के पुल के साथ एक पुल बनाए जाने की खबरें देखी हैं। ये दोनों पुल उन क्षेत्रों में हैं जो 1960 के दशक से चीन के अवैध कब्जे में हैं। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बागची ने यह बात कही।

प्रवक्ता ने कहा, हथियारों अपने क्षेत्र में इस तरह के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है और न ही हमने अनुचित चीनी दावे या ऐसी निर्माण गतिविधियों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, हथियारों पर इस बात को स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र, भारत का अभिन्न अंग

है और अहम उम्मीद करते हैं कि अन्य देश, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे।

बागची ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को पूरी तरह सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014 से ही सरकार ने सड़कों और पुलों सहित सीमा आधारित दांचे के विकास को गति प्रदान की है। उन्होंने कहा, हथियारों सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत दांचे के सुजन के उद्देश्य को लेकर प्रतिबद्ध है ताकि न केवल भारत की सामरिक सुरक्षा जरूरतों को पूरा किया जा सके बल्कि इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को सुगम बनाया जा सके। हथियारों ने कहा कि सरकार उन सभी घटनाक्रम पर सतत नजर रखती है जो भारत की सुरक्षा से जुड़े होते हैं और देश की सम्प्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षा के लिये जरूरी कदम उठाती है। जानकार गतिविधियों को बुधवार को बताया था कि चीनी पक्ष द्वारा पूर्वी लद्दाख में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पैगोंग लेक के पास दूसरा पुल बनाया जा रहा है।



संक्षिप्त समाचार

फिर से उड़ान भरेगी जेट एयरवेज, कमर्शियल उड़ानें शुरू करने का लाइसेंस मिला

नई दिल्ली, एजेंसी। विमानन नियामक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने जेट एयरवेज को फिर से कमर्शियल उड़ानें शुरू करने का लाइसेंस दे दिया है। एयरलाइन को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया गया है। ज्ञात रहे कि जेट एयरवेज ने इसके तत्कालीन प्रमोटर्स के तरलता प्रदान करने में विफलता के चलते वर्ष 2019 में उड़ानों का संचालन बंद कर दिया था। इस एयरलाइन को जालान कलरॉक गठजोड़ के स्वामित्व के तहत फिर खड़ा किया गया है। एयरलाइन पहले नरेश गोयल के स्वामित्व में थी, इस एयरलाइन ने अपनी अंतिम उड़ान 17 अप्रैल, 2019 को भरी थी। जालान-कलरॉक कंसोर्टियम वर्तमान में जेट एयरवेज का प्रमोटर है। वित्तीय संकट ने दो दशकों से अधिक समय तक उड़ानें संचालित करने वाली जेट एयरवेज को 17 अप्रैल, 2019 को परिचालन निलंबित करने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में ऋणदाताओं के एक संघ ने 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया वसूली के लिए जून 2019 में एक दिवाला याचिका दायर की थी। अक्टूबर 2020 में, एयरलाइन की लेनदारों की समिति (सीओसी) ने ब्रिटेन की कलरॉक कैपिटल और संयुक्त अरब अमीरात स्थित उद्यमी मुरारी लाल जालान के संघ (कंसोर्टियम) द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दी थी। जून 2021 में इस समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) ने भी मंजूरी दे दी थी।

देशभर में 191.96 करोड़ टीके लगाए जा चुके, 24 घंटों में 2,259 नए केस सामने आए

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 191.96 करोड़ (1,91,96,32,518) से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,41,17,166 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया है। 12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.24 करोड़ (3,24,75,018) से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रूप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकोवॉन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी। भारत में सक्रिय मामलों आज 15,044 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं। नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,614 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों (महामारी की शुरुआत के बाद से) की कुल संख्या बढ़कर 4,25,92,455 हो गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,259 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में कुल 4,51,179 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 84.58 करोड़ से अधिक (84,58,55,351) जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.53 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.50 प्रतिशत है।

शहीदी माह में छबील सेवा ने भीषण गर्मी में राहगीरों की प्यास बुझाई

» मदरलैण्ड संवाददाता

नई दिल्ली। वर्ल्ड सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स (हरउउ) ने खालसा हेल्थ फाउंडेशन (केएचएफ) के साथ मिलकर इस छबील सेवा को एक दिन के लिए नहीं बल्कि लगातार एक महीने तक चलाया ताकि दिल्ली एनसीआर के आसपास के गरीब लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके। दिल्ली एनसीआर का तापमान कुछ जगहों पर 50 डिग्री को पार कर गया है।



डब्ल्यूएससीसी के अध्यक्ष परमीत सिंह चड्ढा और केएचएफ के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह रम्पी ने संयुक्त रूप से अन्य सिख संगठनों से अनुरोध किया है कि इस शहादत महीने के आसपास मानवता की सेवा के रूप में अधिक स्थानों पर समान रूप से ऐसी सेवा

करें। लाजपत नगर 3 रिंग रोड पर छबील का आयोजन किया गया और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने इस सेवा में भाग लिया। डॉ. चड्ढा ने आने और आशीर्वाद लेने के लिए गौरव गुप्ता, श्री खंडेलवाल, रवींद्र सिंह, पंकज महलोत्रा और अन्य को धन्यवाद दिया।

'चबील', मीठा ठंडा गुलाब का दूध सड़क पर लोगों को बड़ी राहत देता है, यह

उनकी प्यास बुझाता है और उनकी ऊर्जा को बढ़ाता है। मजदूर वर्ग, रिक्शा चालक, कैब और टूक चालक, अन्य सड़क पर लोगों को इस छबील से गर्म मौसम से राहत मिली और उनके चेहरे पर मुस्कान थी।

पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव जी को मुगल राजा जहांगीर ने गर्म लोहे के कड़ाहे पर बैठकर 5 दिनों तक प्रताड़ित किया और

सिखों ने शोक करने के बजाय अपने गुरु की शिक्षा के अनुसार संगत को ठंडा मीठा गुलाब का दूध परिस कर इस दिन को सकारात्मक रूप से याद करना शुरू कर दिया। सरबत भल्ला को बढावा देने के लिए सिख दुनिया भर में इस सेवा को करते हैं और सर्वशक्तिमान को उनके सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देते हैं।

गुरुग्राम के हिंदुस्तान स्काउट व गाइड को हरियाणा में किया गया सम्मानित



» मदरलैण्ड संवाददाता

गुरुग्राम। गुरुग्राम के हिंदुस्तान स्काउट व गाइड से जुड़े हुए स्काउट गाइड को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शशि बाला अहलावत, जिला सचिव राज भारत, जिला प्रेस प्रवक्ता ओमबीर ठाकुरन, जिला प्रशिक्षक आशीष, रोहित, सविता व संगीता को हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा विधानसभा

स्योकर ज्ञान चंद गुप्ता व पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा व नवीन जयहिंद के हाथों सम्मानित किया गया। यह सम्मान 2019-20 व 2021-22 के लिए किए गए कार्यों के दिया गया। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड नर सेवा नारायण सेवा की भावना से कार्य करती है। यह सम्मान कोरोना काल भारत, जिला प्रेस प्रवक्ता ओमबीर ठाकुरन, जिला प्रशिक्षक आशीष, रोहित, सविता व संगीता को हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा विधानसभा

मामूली और काल्पनिक आधार पर इश्योरेंस क्लेम खारिज न करें बीमा कंपनियां - सुको

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रिम कोर्ट ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वे मामूली और काल्पनिक आधार पर इश्योरेंस क्लेम खारिज न करें। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि बीमा कंपनियां कई मामलों में दावों को मामूली आधार पर मना कर रही हैं। उन्हें दावों का निपटारा करते समय बहुत तकनीकी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनियों को ऐसे दस्तावेज नहीं मांगने चाहिए, जिन्हें बीमाधारक हालातों के कारण पेश कर पाने की स्थिति में न हों। शीर्ष अदालत ने 2013 में चोरी हुए ट्रक के लिए बीमा पॉलिसी के तहत दावे के संबंध में यह दिष्पणी की। न्यायालय ने इस मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के पिछले साल अग्रस्त में आप आदेश को खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा कि ट्रक के मालिक अपीलकर्ता को गलत तरीके से बीमा दावे से वंचित कर दिया गया और बीमा कंपनी दावे का निपटारा करते समय बहुत तकनीकी हो गई



और उसने मनमाने ढंग से काम किया। पीठ ने अपने आदेश में कहा, इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, जब अपीलकर्ता ने पंजीकरण के प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी और आरटीओ द्वारा दिए गए पंजीकरण विवरण पेश किए, तो केवल इस आधार पर कि पंजीकरण का मूल प्रमाण पत्र (जो चोरी हो गया है) पेश नहीं किया गया, दावे का निपटारा नहीं करने को सेवा में कमी कहा जा सकता है।

इस बीमा दावे का निपटारा मुख्य रूप से इस आधार पर नकार दिया गया था कि अपीलकर्ता ने पंजीकरण का मूल प्रमाण पत्र

या आरटीओ द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित नकल भी प्रस्तुत नहीं की थी। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता को ऐसे दस्तावेज देने के लिए कहा गया, जिन्हें प्रस्तुत करना उसके नियंत्रण के बाहर था। अदालत ने कहा कि वैध बीमा होने और ट्रक चोरी हो जाने के बाद, बीमा कंपनी को बहुत अधिक तकनीकी नहीं बनना चाहिए। कई मामलों में यह

पाया गया है कि बीमा कंपनियां मामूली आधार और तकनीकी आधार पर दावे को खारिज कर रही हैं। बीमा कंपनी को बहुत अधिक तकनीकी दावों के सहारे बीमाधारक को ब्लेम से वंचित नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने उत्तीरगढ़ के दुर्ग में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा अपीलकर्ता की शिकायत को खारिज के आदेश को रद्द कर दिया। राज्य आयोग और एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश को भी खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता को दावा करने की तारीख से 7 प्रतिशत ब्याज के साथ 12 लाख रुपये की बीमा राशि मिलनी चाहिए।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया



नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) में स्वदेशी वंदे भारत रेलगाड़ियों के विनिर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान रेल मंत्री ने फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ बातचीत की तथा उन्हें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

चेन्नई में वंदे भारत विनिर्माण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। भारतीय रेलवे ने हम्मक इन इंडियाहक की सफलता की कहानी के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया था। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 15 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली कानपुर-इलाहाबाद-रेल मंत्री ने ट्वीट कर कहा: ह्आईसीएफ

से लिके हॉफमैन बुश (एलएचबी) किस्म के 12 हजारों ड्रिड को इंडी दिखाकर रवाना किया। एलएचबी कोच एंटी-टेलीस्कोपिक, सुरक्षित, हल्के तथा अधिक आरामदायक हैं और इनमें झटके नहीं लगते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अधिक उपयोगी आईसीएफ पारंपरिक कोचों को चरणवार तरीके से एलएचबी कोचों से बदलने का कार्य किया जा रहा है।

अयोध्या में राम मंदिर व रोहतक में परशुराम मंदिर बनेगा - नवीन जयहिन्द

» सतबीर शर्मा, मदरलैण्ड संवाददाता

गुरुग्राम। रोहतक के गांव पहरावर में ब्राह्मणों की जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे पंडित नवीन जयहिंद ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, उपमुख्यमंत्री परशुराम जयंती में ब्राह्मणों की जमीन वापसी का लैटर लेकर आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करते हैं तो उनका जयंती में आने का कोई औचित्य नहीं है। जयहिंद ने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से अपील करते हुए कहा कि अगर उपमुख्यमंत्री जी भी जयंती में पहुंच कर ब्राह्मणों की जमीन ब्राह्मणों को वापिस दिलाने की बात पर जमीन

पर स्कूल, हॉस्पिटल, स्टेडियम बनने वाली बात से सहमत होते हैं तो उनका भी स्वागत है अन्यथा उनका भी जयंती में पहुंचने का कोई मतलब नहीं।

जयहिंद ने बताया ब्राह्मण एक मर्द कौम है मुर्दा नहीं। यह धर्मयुद्ध की शुरुआत है जिस प्रकार अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है उसी प्रकार रोहतक में भी भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनेगा और रविवार 22 मई को रोहतक में उसी जमीन पर परशुराम जयंती मनाई जाएगी। उस जमीन पर स्कूल, कॉलेज व हॉस्पिटल बनाये जाएंगे जिसमें सभी बिरादरी के बच्चे पढ़ेंगे व सबका इलाज होगा। साथ ही जयहिंद ने कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर परशुराम जयंती में पहुंचकर ब्राह्मणों की जमीन पूरे समाज के साथ ब्राह्मणों के हवाले करें अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करते हैं तो ब्राह्मण समाज अपने आप उस जमीन पर कब्जा लेगा। अब सरकार के साथ महाभारत होगी। जयहिंद ने बेरोजगारी को 37 वीं बिरादरी बताते हुए कहा कि इसमें



सभी 37 बिरादरियों को न्योता होगा। पूरे हरियाणा से एक हजार एक ब्राह्मण प्रतिनिधि वहां फरसा लेकर पहुंचेंगे व परशुराम जयंती रविवार 22 मई को हर बिरादरी से अपनी के 1 ईट व 1 फरसा अपने साथ लेकर आएंगे।

जयहिंद ने कहा वह जमीन पहरावर (ब्राह्मणों का गांव) की जमीन थी। जो कि गौड़ फौस की स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए दी गयी थी। लेकिन सरकार द्वारा उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया। 13 साल हो चुके हैं जो कि ब्राह्मण समाज के लोग धक्के कड़ा रहे हैं लेकिन जमीन नहीं दे रही सरकार। इस मामले को लेकर कुछ फौस भी ब्राह्मण समाज सरकार को जमा करवा चुका है। और अब वह ब्राह्मणों की जमीन वापिस ब्राह्मणों के देने के लिए ब्राह्मणों से ही आठ करोड़ रुपये मांग रहे हैं। जयहिंद ने कहा कि ब्राह्मणों को कमजोर समझने की गलती न करे सरकार, हम आठ करोड़ पचा आठ आने व 1 ईट भी जमीन सरकार को नहीं देगे। अगर सरकार ने जमीन की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो उसी जमीन में उल्टा लटकाकर गाड़ देंगे सरकार को।

संक्षिप्त समाचार

22 मई को उत्सव गार्डन में होगी भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक

मदरलैण्ड संवाददाता, नारनौल। आगामी 22 मई रविवार को प्रातः 10 बजे कुलाताजपुर रोड स्थित उत्सव गार्डन में भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री रविंद्र राजू जिला कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। इस विषय में जानकारी देते हुए जिला महामंत्री दयाराम यादव ने बताया कि उनके साथ जिला प्रभारी विजयपाल आहलूवालिया, ओम प्रकाश यादव सामाजिक न्याय मंत्री, प्रो रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री, डॉ अमय सिंह यादव विधायक नांगल चौधरी, सीताराम यादव विधायक अटोली एवं प्रदेश पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एडवोकेट राकेश शर्मा करेंगे। इसके अलावा इस बैठक में सभी जिला कोर ग्रुप के सदस्य, जिला पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य, प्रकोष्ठ एवं विभाग जिला संयोजक, सभी मोर्चों के जिलाध्यक्ष एवं मोर्चा के जिला प्रभारी, मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, मंडल अध्यक्ष एवं प्रभारी उपस्थित रहेंगे।

राखीगढ़ी को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित : उपायुक्त



मनमोहन शर्मा, मदरलैण्ड संवाददाता, हांसी/ नारनौद। उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने राखी गढ़ी को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने राखीगढ़ी में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में नारनौद के एसडीएम विकास यादव, पंचायती राज विभाग के अधीक्षक अभियंता यशवीर पंवार, कार्यकारी अभियंता पेशल शर्मा, बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता एसएस राय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग शाखा) के कार्यकारी अभियंता अनिल नरवाल को विभिन्न सड़क मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत करवाने, राखीगढ़ी में प्रवेश द्वार पर साईन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसी प्रकार से जींद, बरवाला रोड से राखीगढ़ी के मार्ग को चौड़ा करने के साथ-साथ अन्य कार्य जल्द पूरे करने, गांव के तालाबों का सौंर्यकरण करने, स्ट्रीट लाइट लगाने, गलियों का निर्माण करवाने, वाटर स्टोरेज टैंक तथा पुनर्वास मकानों के लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीओ मोहित, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ सुमेर सिंह, पंचायती राज के एसडीओ अनिल कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सम्पूर्ण समाधान दिवस 21 मई को जनपद की समस्त तहसीलों में होगा आयोजित

मदरलैण्ड संवाददाता, मैनपुरी। जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु शासन के निर्देशों के क्रम में आयोजित होने वाला सम्पूर्ण समाधान दिवस 21 मई को जनपद की समस्त तहसीलों में आयोजित होगा। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह तहसील भोगांव में उपस्थित रहकर सम्पूर्ण समाधान दिवस पर जनता की शिकायतों को सुनेंगे। उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों से समय से तहसील भोगांव में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित होने को कहा है। मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार तहसील करहल में एवं अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र तहसील किशानी में उपस्थित रहकर जन-समस्याएं सुनेंगे।

लोक अदालत में कर्मचारियों के नियुक्त की अंतिम तिथि बड़ी

मदरलैण्ड संवाददाता, मैनपुरी। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्येन्द्र कुमार चैधरी ने बताया कि द्वितीय चरण में गठित स्थायी लोक अदालत में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रस्तावित की गयी है, जिसमें जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट के सेवा नियुक्त कर्मचारी अपना पूर्ण विवरण देते हुये लिखित रूप से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आशुलिपिक, पेशकार, चपरासी के 1-1 पद रिक्त है, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 मई सुनिश्चित की गयी थी, परन्तु उक्त पत्रों हेतु कोई आवेदन प्राप्त न होने के कारण अब आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून कर दी गयी है, उक्त के सम्बन्ध में आवेदन पत्र कार्यालय में दिये जायेंगे, अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

हवा सिंह को मनोनीत किया सब यूनिट प्रधान



मदरलैण्ड संवाददाता, कनीना। एचएसडीबी वर्कर्स यूनिट के त्रिवार्षिक चुनाव संपन्न हुये। जिसकी अध्यक्षता मनोज कुमार एएफएम ने की चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में सत्यवान यादव यूनिट प्रधान, शिवकुमार यादव, हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला प्रधान अमरजीत, यूनिट सचिव सतीश लांबा ने चुनाव प्रक्रिया का संचालन किया। हवा सिंह को सब यूनिट प्रधान, देवानंद को उप प्रधान, सुनील वर्मा को सभी यूनिट सचिव, जसवंत सिंह को सह सचिव, राकेश कुमार को कैशियर तथा सत्यपाल यादव को संगठन करता चुना गया। इस अवसर पर रामरतन शर्मा कल सचिव, सत्यवीर सिंह, रमेश शर्मा, मुकेश कुमार, देशराज राजवीर, धर्म वीर, सुशील, सुरेश कुमार, अजीत सिंह, धर्मद, राकेश, ब्रह्मचारी, महेंद्र सिंह, पवन नवल, अशोक, अरविंद तथा सबडिवीजन कनीना कार्यरत सभी बिजली कर्मी उपस्थित थे।

जिलावासी अमी भी मौतजदा डग्गामार वाहन ही एक मात्र यात्रा का सहारा, परिवहन मंत्री के शहर तक जाने के लिए सीधी सेवा नहीं

» मयंद मोहन, मदरलैण्ड संवाददाता

नूंह/मेवात। करीब 15 लाख आबादी समेटे जिला नूंह (मेवात) निवासियों को परिवहन डिपो बनने के बाद भी सरकारी परिवहन व्यवस्था मुश्किल नहीं हो पा रहा है और जिलावासी अभी भी मौतजदा डग्गामार वाहन ही एक मात्र यात्रा का सहारा हैं।

हरैत की बात देखने को यह मिल रही है कि नूंह से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा व नूंह से कांग्रेस विधायक व सीएलपी के उप नेता व पूर्व परिवहन मंत्री आफताब अहमद के फरीदाबाद रिहायशी क्षेत्र तक के लिए आज तक कोई सीधी बस सेवा तक नहीं है। जबकि परिवहन महाप्रबंधक के अलावा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के विगत माह आगमन के दौरान डिपो में 20 नई बसें भेजने का दावा पेश किया गया था लेकिन शासन-प्रशासन के दावे हवाई साबित हुए हैं।

वहीं, दूसरी तरफ जिला परिवहन महाप्रबंधक पर डिपो व्यवस्था के कथिततौर



से नजर अंदाज करने के आरोप लग रहे हैं। जिला के तावडू उप मण्डल की लचर परिवहन व्यवस्था का मामला सोहना से भाजपा विधायक के दरबार तक गूंज हो गई है। डिपो महाप्रबंधक के कार्यालय पर मौजूद ना रहने व कम बस होने का टीकड़ा सीएलपी के उप नेता आफताब अहमद द्वारा विगत दिनों

बस स्टैंड के औचक निरीक्षण के दौरान भी फोड़ा जा चुका है। इस बारे में कार्यवाहक यातायात प्रबंधक नवनीत सिंह ने माना कि डिपो में नई बसें आने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि अभी तक वह नई पहुंची न हैं और डिपो के पास 70 बसों में से कुछ बसें बालवाहिनी के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं।

टिंडोली गांव में पानी की टंकी के लिए न्यायालय में किया केस

» मदरलैण्ड संवाददाता

मैनपुरी। केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में घर घर पीने का पानी पहुंचाने के लिए पानी की टंकी का निर्माण प्रशासन की देखरेख में जल निगम द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है इस योजना में पानी की टंकी की लागत लगभग 3.60 करोड़ का बजट है इसी योजना में ग्राम पंचायत टिंडोली में टंकी प्रस्तावित है टिंडोली गांव की आबादी लगभग 5000 के करीब है जब उसके अन्य मजरा नगला अमर सिंह में मात्र 10 घर हैं वहां ग्राम प्रधान ने राजस्व विभाग को ग्राम पंचायत की जमीन लेखपाल के माध्यम से बताई गई जब कि टिंडोली में कई जगह पर ग्राम पंचायत की जमीन पड़ी हुई है नगला अमर सिंह से टिंडोली गांव की दूरी 3 किलोमीटर के करीब है वहां टंकी के निर्माण से पानी का प्रेशर नहीं रहेगा और जब पानी की पाइप लाइन दलेगी तो गांव की सीसी सड़क व इंटरलॉकिंग सड़क भी खुदेगी इन सब के कार्यों के बाद भी घरों तक पानी इतनी दूरी तक नहीं पहुंच सकेगा और नगला अमर सिंह के लिए कोई सड़क नहीं है यह सब सर्वे बिना गांव वालों की सहमति व बैठक के ग्राम प्रधान ने

उच्च अधिकारियों को गलत जगह पर पंचायत की जमीन आवंटित कराई गई है इसकी जल टिंडोली निवासी अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया को जानकारी हुई तो उन्होंने जल निगम के एक्सन से बात की उन्होंने बताया कि प्रधान व लेखपाल ने नो जगह दी गई है वही पर कार्य कराया जायेगा जिस पर अधिवक्ता ने जिलाधिकारी, सी डी ओ व प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी को पॉर्टल पर शिकायत भेजी किंतु जल निगम के अधिकारी कार्य करने पर अमादा हैं जिस पर अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया ने सिविल जज मैनपुरी के यहां जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी सटर, एक्सन जल निगम, लेखपाल टिंडोली, ग्राम प्रधान टिंडोली को पार्टी बनाये हुये न्यायालय में गलत जगह पर पानी की टंकी के निर्माण को अविश्वस्य रोकने व ग्राम टिंडोली में ग्राम पंचायत की खाली पड़ी जमीन पर जल देकर सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी की टंकी का सही और उचित जगह पर निर्माण कराया जाये जिससे सभी 5000 ग्राम नगला अमर सिंह के लिए कोई सड़क होसके और सरकार का 3.60 करोड़ रुपये सही जगह पर खर्च हो।

सात दिनों बाद कब्र से निकाला गया युवती का शव

» अजय सक्सेना, मदरलैण्ड संवाददाता

मैनपुरी। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से प्यार में मिली मौत का सनसनीखेज माला निकल कर सामने आया है जहां युवती के परिजनों ने 7 दिन बाद मौत का कारण पता लगाने की के लिए युवती का शव कब्र से बाहर निकल आया हालांकि युवती के परिजनों प्रेमी पक्ष के लोगों पर अपनी बेटी की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाया मुक्तिका की मां की शिकायत पर पुलिस ने शव कब्र से निकल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिजनों की मौत की गुत्थी सुलझ पाएगी। मामला थाना बेवर क्षेत्र नवीगंज चौकी मामला है जहां की निवासी सिम्मी पत्नी कुतुबुद्दीन ने तहरीर देते हुए बताया उनकी बेटी तबस्सुम उर्फ निशा के प्रेम संबंध मोहल्ले के निवासी इमरान पुत्र मुस्तकीम के साथ 4 वर्षों से चले आ रहे थे इमरान उसे 4 वर्षों से शादी का झांसा देते चला रहा था इसी बीच उनकी बेटी गर्भवती हो गई थी तबस्सुम ने यह बात परिजनों को और प्रेमी के घर वालों को बात बताई थी तबस्सुम के घर वाले शादी के लिए राजी भी हो गए थे लेकिन प्रेमी इमरान के घर वाले शादी से इनकार करते रहे इस प्रेमी संबंधों में टूटने में कहीं ना कहीं गरीबी और अमीरी की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है

12 मई को तबस्सुम उर्फ निशा की मौत परिजनों ने के अनुसार 12 मई को तबस्सुम अपने प्रेमी इमरान के घर गई थी वहां फिर ना जाने क्या हुआ वहां से लौट के आने के बाद तबस्सुम ने घर आकर रात्रि 8:00 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी परिजन ने फांसी से उतारकर



डॉक्टर के पास भी ले गए लेकिन डॉक्टरों ने तबस्सुम उर्फ निशा को मृत घोषित कर दिया परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए सबको कब्रिस्तान में दफना दिया

प्रेमी के परिजनों ने सब दफनाने का आरोप

तबस्सुम की मां के अनुसार उनकी बेटी की मौत के महज 2 घंटों के अंदर ही प्रेमी इमरान के परिजनों और प्रधान के ने आकर घड़यंत्र के तहत मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करा दिया था उनके रिश्तेदारों और उनकी बेटियों तक आने का इंजाम भी नहीं किया गया नवीगंज स्थित कब्रिस्तान में उनकी बेटी को दफना दिया गया /

मौत पर सौदेबाजी के लगे आरोप

तबस्सुम की मौत के बाद परिजनों के अनुसार जब उन्हें पता चला की प्रेमी पचने लोगों को बताया उसने दो लाख रुपए तबस्सुम के घरवालों तथा अन्य लोगों को देकर मामले को निपटा लिया है उन्हें लगा उनकी बेटी को प्यार में जिंदगी नसीब नहीं हुई लेकिन मौत पर सौदेबाजी के आरोप लग रहे हैं इसी चलते परिजनों ने अपनी बेटी की मौत के कारणों



उन्होंने बताया कि किस प्रकार छात्र जीवन में भी बच्चे जल संरक्षण में भूमिका निभा सकते है।

विभाग द्वारा लोगों को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों को जल बचाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य हिमंत सिंह, पीटीआई विक्रम सिंह, सक्षम युवा विद्वान, अमित, सीमा, गीता, बाबूलाल आदि उपस्थित रहे।



» प्यार में जान गया बैटी तबस्सुम उर्फ निशा

» मैनपुरी में 7 दिनों बाद कब्र से निकाला गया सब प्रेमी से मिले धोके के बाद कर ली थी आत्महत्या

का पता जानने के लिए सात दिनों बाद शव कब्र से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम कर मौत के कारणों का पता लगाने की मांग की है।

वहीं पर सोनू बघेल नायब तहसीलदार क्या कहते हैं यह भी जान ले

कब्र से शव निकाले जाने के मामले में नायब तहसीलदार सोनू बघेल ने बताया है कि परिजनों ने युवती की मौत के कारणों की वजह जानने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था उसी आधार पर शव कब्रिस्तान से निकलवाया जा रहा है सब पोस्टमार्टम के लिए प्रार्थना पत्र दिया था उसी आधार पर शव कब्रिस्तान से निकलवाया जा रहा है सब पोस्टमार्टम के लिए प्रार्थना पत्र दिया था उसी आधार पर शव का रिकॉर्ड भी जापगी।

विकास खंड सुल्तानगंज के खंड शिक्षा अधिकारी अनुपम शुक्ला ने गूगल मीट के माध्यम से यातायात नियमों की दी जानकारी

» मदरलैण्ड संवाददाता

मैनपुरी/भोगांव। जिलाधिकारी मैनपुरी की बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में विकास खंड सुल्तानगंज के खंड शिक्षा अधिकारी अनुपम शुक्ला ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, जिम्मेदार बने, सुरक्षित रहें विषय पर अपने कार्यालय पर गूगल मीट के माध्यम से विकास खंड सुल्तानगंज के समस्त परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त विद्यालय में जागरूकता अभियान के तहत गूगल मीट की। जिसमें उन्होंने बताया कि पैदल चलते समय सड़क पर हमेशा बायीं ओर चलें, स्टॉप लाइन पर रुके, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करें। स्कूली बच्चों निर्धारित बस स्टॉप से ही चढ़े व उतरे। उतरने के बाद दोनों तरफ देखकर सावधानी से आगे बढ़ें।



वाहन चालक इस बात का ध्यान रखें कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें कार वाहन चालक और सवारी सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। सभी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाएं और बच्चों को आदेशित करें कि वह अपने माता-पिता, भाई-बहन से सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में चर्चा करें।

केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा के नये भवन का हुआ उद्घाटन

» मदरलैण्ड संवाददाता

कनीना। महेंद्रगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित शाखा कनीना के नए भवन का शुभारंभ दीपा ब्री गुहा महाप्रबंधक, नाबाई (हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़) के द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर उनके साथ पुनीत नागर एजीएम नाबाई व विजय राणा एजीएम नाबाई ने भी शिरकत की। इस मौके पर दीपा भी गुहा ने बताया कि महेंद्रगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित शाखा कनीना हरियाणा में पहली वातानुकूलित शाखा है। इस शाखा में ग्राहक की सुविधा के लिए लॉकर सुविधा शुरू की गई है। जबकि माइक्रो एटीएम सुविधा पहले से चल रही है, उन्होंने बताया जिला महेंद्रगढ़ बैंक इस क्षेत्र में काफी उन्नति कर रहा है। उन्होंने इसका श्रेय जिला बैंक महाप्रबंधक प्रशांत यादव को दिया और बताया कि प्रशांत यादव के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक बहुत आगे बढ़ने की उम्मीद उनकी तरफ से है। कनीना शाखा प्रबंधक महेश यादव का भी काफी योगदान रहा है। बैंक महाप्रबंधक प्रशांत यादव ने बताया कि उनकी प्रयास है कि महिला सशक्तिकरण व आत्मनिर्भर क्षेत्र में उनके प्रयास लगातार जारी है। बैंक के जो ग्राहक अतिदेय हो चुके हैं वो 30 नवंबर 2022 तक एक मुफ्त राशि भरकर ब्याज में छूट पा सकते हैं। इस मौके पर बैंक की तरफ से विकास अधिकारी अशोक यादव, लेखा शाखा प्रबंधक गजराजसिंह यादव, आई टी सेल से पंकज यादव, राजेश शर्मा स्थापना शाखा खंड अधिकारी भी मौजूद रहे।

गांव रघुनाथपुरा में मुख्य रास्ते को जेसीबी मशीन से उखाड़कर किया अवैध कब्जा, ग्रामीण परेशान

» संतोष यादव, मदरलैण्ड संवाददाता

नारनौल। गांव रघुनाथपुरा में खेतों में जाने वाले मुख्य रास्ते पर एक व्यक्ति ने जेसीबी मशीन से उखाड़कर अवैध कब्जा कर लिया। जिससे खेतों में जाने वाला रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। अवैध कब्जे की शिकायत निवर्तमान सरपंच ने ग्राम सचिव को दी। ग्राम सचिव ने मौका मुआयना करने पर रास्ते में गांव के व्यक्ति सुरेंद्र कुमार ने अवैध कब्जा किया हुआ पाया। ग्राम सचिव ने इसकी सूचना बीडीपीओ को दी। बीडीपीओ ने रास्ते की पैमाइश करवाकर कब्जाधारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर कब्जाधारी ने उखाड़कर उभरे पेड़ उखाड़ने पर वन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

निवर्तमान सरपंच कर्मवीर ने बताया कि गांव रघुनाथपुरा में रास्ता नंबर 57 खेतों में जाने का मुख्य रास्ता है। यह कच्चा रास्ता लगभग 28 फुट चौड़ा जो दूसरे गांव थाना को भी जाता है। जिस पर मनरंगा के तहत रास्ते को ठीक करने का काम चल रहा है। वीरवार को सुरेंद्र कुमार ने जेसीबी मशीन से रास्ते को उखाड़कर उभरे अवैध कब्जा कर लिया। जिसकी सूचना ग्राम सचिव कृष्ण कुमार को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ग्राम सचिव कृष्ण कुमार ने मुआयना करने पर अवैध कब्जा पाया गया। ग्राम



सचिव ने इसकी सूचना बीडीपीओ को दी। बीडीपीओ प्रमोद कुमार ने ग्राम सचिव को रास्ते की पक्की पैमाइश करवाकर कब्जाधारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। कब्जाधारी ने रास्ते में खड़े हरे पेड़ों को जेसीबी मशीन की सहायता से उखाड़ दिया। जिस पर वन विभाग के रंजर रजनीश कुमार ने मौका मुआयना कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि कब्जाधारी ने रास्ते में खड़े कई पेड़ों को जेसीबी मशीन से उखाड़ दिया है। पेड़ों की पैमाइश करवाकर कब्जाधारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। वहीं रास्ते पर अवैध कब्जा होने से रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़

रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से रास्ते की पक्की पैमाइश करवाकर अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है।

वर्जन

गांव रघुनाथपुरा में रास्ता नंबर 57 पर सुरेंद्र कुमार ने जेसीबी मशीन से उखाड़कर अवैध कब्जा किया हुआ है। रास्ते की पैमाइश के लिए प्रस्ताव पास पर पक्की पैमाइश करवाई जायेगी। अवैध कब्जा होने से खेतों में जाने का रास्ता बंद हो गया है। जिसकी जल्द ही ?

सचिव कृष्ण कुमार

गांव रघुनाथपुरा में मुख्य रास्ते पर अवैध कब्जा होने की शिकायत ग्राम सचिव कृष्ण कुमार ने उन्हें दी है। जिस पर ग्राम सचिव कृष्ण कुमार ने उखाड़कर उभरे पेड़ों को जेसीबी मशीन से उखाड़कर अवैध कब्जा किया हुआ है। इसकी सूचना ग्राम सचिव व बीडीपीओ को दे दी गई है।

बीडीपीओ प्रमोद कुमार

गांव के सुरेंद्र कुमार ने मुख्य रास्ते को उखाड़कर उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इसकी सूचना ग्राम सचिव व बीडीपीओ को दे दी गई है।

निवर्तमान सरपंच कर्मवीर

संक्षिप्त समाचार

डॉ विनोद शर्मा हिमाचल रत्न से होंगे सम्मानित

मदरलैण्ड संवाददाता, चंडीगढ़। सामाजिक एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए डॉ विनोद कुमार शर्मा को पिरियोडिकली प्रेस ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचल संयुक्त मोर्चा द्वारा 22 मई को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिमाचल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा करने पर उन्होंने पिरियोडिकली प्रेस ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचल संयुक्त मोर्चा का आभार व्यक्त किया है। काबिले जिक्र है कि डॉ शर्मा पत्रकारिता, सामाजिक, शैक्षणिक एवं साहित्यिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जा चुका है।



तीन दिवसीय श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रवचन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम

मदरलैण्ड संवाददाता, चंडीगढ़। - पिरियोडिकली प्रेस ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचल संयुक्त मोर्चा के संयुक्त कार्यक्रम तीन दिवसीय श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रवचन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम कलश शोभायात्रा के बाद कलश स्थापना के साथ ही शुरू, पिरियोडिकली प्रेस ऑफ इंडिया (पीपीआई) दिल्ली अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचल संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और वरिष्ठ सयोजक सहयोगी श्री जगदेव पटियाल ने अपने साझा ब्यान में कहा कि देश भर के सभी पत्रकार साथियों और ब्रह्मांड की समस्त मानव जाति की रक्षा एवं उनके स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए आयोजित रिन कार्यक्रम आज सुबह 9 बजे कलश शोभायात्रा के बाद कलश स्थापना के साथ ही शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 20 से 22 मई तक चलेगा जिसमें प्रसाद स्वरूप प्रत्येक दिवस दोपहर भोजन के लिए हिमाचली धाम की व्यवस्था की गई है, और 22 मई को दोपहर। बजे के बाद "हिमाचल रत्न" सम्मान से शिक्षा, पत्रकारिता, स्वस्थ, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र की महकन विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा, उन्होंने कहा कि यह सारा उस दिन हिमाचली कल्चर की शानदार प्रस्तुति होगी जिसमें हिमाचली प्रसिद्ध लोक गायिका ऋचा शर्मा और अन्य कलाकार अपनी बेहतरीन प्रस्तुति करेंगे। और 22 मई को शानदार हिमाचल कल्चर कार्यक्रम के साथ -साथ हिमाचली धाम का भी आयोजन किया गया है।



ट्रेफिक डी एस पी ने मुलाजिमों को बाटी प्राथमिक चिकित्सा किट



हरप्रीत सिंह, मदरलैण्ड संवाददाता, लुधियाना। पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देश पर ट्रेफिक मुलाजिम और पी सी आर मुलाजिमों के साथ शहर में बट रही दुर्घटना को लेकर एक सेमिनार कराया गया डी एस पी ट्रेफिक सोमिया मिश्रा की अध्यक्षता में सेमिनार कराया गया जिसमें उन्होंने सभी मुलाजिमों को बताया कि अपने साथ हमेशा प्राथमिक चिकित्सा किट रखनी चाहिए जब भी सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो उसी समय घायलों का उपचार कर सके और उनकी जान बचा सके उन्होंने सभी जनता से अपील की कि वह भी अपने साथ प्राथमिक चिकित्सा किट रखे इस अवसर पर सभी मुलाजिमों को ट्रेनिंग भी दी गई कि किस प्रकार वो एक्सिडेंट में घायल हुए लोगों की मदद कर सकें हैं डी सी पी सोमिया मिश्रा ने सभी मुलाजिमों को प्राथमिक चिकित्सा किट बाटी

एचडीएफसी बैंक ने भारत में गहराई तक उतरने के लिए ग्रामीण बैंकिंग व्यवसाय की रूपरेखा बनाई

करनाल/ हिसार: आज एचडीएफसी बैंक ने घोषणा करके बताया कि इसने भारत में गहराई तक उतरने के लिए ग्रामीण बैंकिंग क्रियाकलाप की रूपरेखा तैयार की है। बैंकिंग उत्पादों को भीतर इलाकों में और ज्यादा आगे तक ले जाने के लिए, ग्रामीण बैंकिंग इस दिशा में बैंक के मौजूदा अभियानों को संगठित करेगी और उसे अंतिम छोर तक लेकर जाएगी। एचडीएफसी बैंक में सीनियर एग्जिक्यूटिव वाईस प्रेसिडेंट एवं नेशनल ग्रामीण बैंकिंग हेड, श्री अनिल भवनानी ने कहा, ह्यहम बैंक के विश्वस्तरीय उत्पाद व सेवाएं भारत के सबसे दूरदराज के हिस्सों तक ले जाने के लिए उत्साहित हैं। ह्यहम उन्हेने कहा, ह्यहम एक चुनौती एवं एक अवसर, दोनों हैं, और मैं इस दिशा में काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। बैंक की 50 प्रतिशत शाखाएं कई सालों से अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में हैं। इस बड़े हुए फोकस के साथ, हम इस वित्तवर्ष अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में और ज्यादा शाखाएं खोलेंगे। ये शाखाएं हमारे टचवाइंट्स



हैं, जिनके माध्यम से हम इन बाजारों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पादों का निर्माण करके ग्रामीण इलाकों की जरूरतों को समग्र रूप से पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम इन बाजारों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पादों का निर्माण करके ग्रामीण इलाकों की जरूरतों को समग्र रूप से पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।


हैं। बैंक के 'प्यूर - रेडी; प्रोजेक्ट के तहत रिटेल ब्रांच बैंकिंग द्वारा तैयार, ग्रामीण बैंकिंग व्यवसाय अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिनका एक बड़ा हिस्सा अभी भी इसके दायरे से बाहर है। बैंक के साथ 19 सालों से ज्यादा समय से काम कर रहे, श्री अनिल भवनानी को राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकिंग हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। मौजूदा समय में बैंक की 6,342 शाखाओं में से 50 प्रतिशत शाखाएं अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में हैं, और शेष 50 प्रतिशत शाखाएं मेट्रो और शहरी इलाकों में हैं। दूरदराज के इलाकों में बैंक शाखाओं की सेवाओं का विस्तार करने के लिए बैंक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योस (वीएलई) के साथ भी काम करता है। ग्रामीण बैंकिंग व्यवसाय अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में उत्पाद व सेवाओं का संपूर्ण संग्रह प्रदान करेगा। इसके लिए बैंक निम्नलिखित दृष्टिकोण के साथ काम करेगा: 1. वितरण नेटवर्क - ग्रामीण

इलाकों में अपने वितरण का विस्तार करने के लिए बैंक इस वित्तवर्ष अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में 1,064 से ज्यादा शाखाएं खोलेंगा। 2. सामरिक साझेदारी - उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता संतुष्टि, सेवा के डिजाइन व सेवा की आपूर्ति के मामले में विकसित होते परिदृश्य को समझकर ह्यग्रामीण प्रथमह की रणनीति का निर्माण करने के लिए बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद के साथ गठबंधन किया है। 3. नए उत्पाद व सेवाएं - ग्रामीण परिवहन अर्थव्यवस्था, वन अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, एवं अन्य सहयोगी गतिविधियों के मामले में नए उत्पाद व सेवाओं का गठन। 4. वन स्टॉप शॉप समाधान - छोटे किसानों, कर्मचारियों व व्यापारियों को वन स्टॉप शॉप समाधान प्रदान करने पर केंद्रण। 5. वित्तीय साक्षरता जागरूकता - बचत की अच्छी आदतों और वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

एमसीएम ने सिक्वोरिटीज मार्केट्स में करियर पर वेबिनार का आयोजन किया

» विनोद कुमार, मदरलैण्ड संवाददाता

चंडीगढ़। सेक्वोरिटीज मार्केट्स में विभिन्न कैरियर अवसरों के बारे में जागरूकता फैलाने और छात्राओं को शिक्षित करने की एक पहल के तहत, मेहर चंद महाजन डीएवी कॉलेज फॉर विमेन, चंडीगढ़ में स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और राष्ट्रीय संस्थान सिक्वोरिटीज मार्केट्स (एनआईएसएम) के सहयोग से सिक्वोरिटीज मार्केट्स में करियर पर एक वेबिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एनआईएसएम द्वारा संचालित प्रासंगिक, सुश्री हर्षिता पंत, ने प्रतिभूति बाजार से संबंधित विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया और सत्र के दौरान करियर के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। सुश्री हर्षिता ने उद्योग के उदाहरणों द्वारा



वित्तीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को समझाया और छात्राओं को एनआईएसएम द्वारा संचालित प्रासंगिक पाठ्यक्रमों से अवगत कराया। छात्रों ने सत्र का भरपूर आनंद लिया और वेबिनार के अंत में प्रश्न-उत्तर सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया। वेबिनार में 61 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। एक अन्य पहल

में, भारत सरकार की आजादी का अमृत महोत्सव की पहल के हिस्से के रूप में, सेबी और एनआईएसएम ने एक राष्ट्रीय वित्तीय बाजार प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। इसमें कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए विभिन्न धाराओं के कॉलेज के कुल 236 छात्राओं ने पंजीकरण कराया। प्रिंसिपल डॉ. निशा भार्गव ने छात्राओं को सिक्वोरिटीज मार्केट में करियर के अवसरों के बारे में बताने के लिए पोस्टग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कॉलेज नियमित रूप से छात्राओं को विभिन्न कैरियर के अवसरों के बारे में अवगत कराने के लिए ऐसे उपयोगी सत्र आयोजित करता है ताकि छात्राओं को करियर विकल्प का चयन करने में मदद मिल सके।

आतंकवादी विरोधी दिवस की दिलाई शपथ

आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का मुख्य मकसद लोगों को समाज विरोधी कृत्यों से अवगत करवाना है : डीसी



» संतोष यादव, मदरलैण्ड संवाददाता

नारनौल। देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें तय रहना चाहिए ताकि आतंकवादी ताकतों के नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का मुख्य मकसद लोगों को समाज विरोधी कृत्यों से अवगत करवाना है। यह बात उपायुक्त डा. जेके आर्षी ने आज लघु सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी दिवस पर एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाते हुए कही। डीसी ने कहा कि युवा देश का भविष्य है। समाज व राष्ट्र की जिम्मेदारी विशेषकर युवा वर्ग पर है। यह दिवस उन ज्ञात व अज्ञात सैनिकों के बलिदान का सम्मान भी

करता है जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हमें मानवजाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और सुझबुझ कायम रखने, मानव जीवन मुल्यों को खतरा पहुंचाने वाली विघटनकारी शक्तियों से लड़ना होगा। उन्होंने युवा वर्ग से अपील की कि वे अपनी जिम्मेदारियों से परिचित रहते हुए नशे से दूर रहकर अपनी उर्जा देश हित के कार्यों में लगाएं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के कारण दुनिया में हर रोज हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। आतंकवाद में किसी सदस्य के जान गवाने का खामियाजा उसके परिवार के अन्य सदस्यों को सहना पड़ता है। इस अवसर पर नगराधीश डा. मंगलसेन के अलावा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तथा गणमान्य लोग मौजूद थे।

बलबीर सिल्क साड़ी ने पार्टी वेयर जम सूट की नई कलेक्शन पेश की



» मदरलैण्ड संवाददाता

लुधियाना। पंजाब में बढ़ती गर्मी और शादी के सीजन को देखते हुए डिजाइनर डॉली बत्रा ने सिल्क में जम सूट की कलेक्शन तैयार की डॉली बत्रा ने बताया कि यंग लड़कियों में जम सूट का बहुत क्रेज है बॉलीवुड अभिनेत्री भी इस मौसम



मॉडल सोनिया भट्ट ने जम सूट पहन कर फोटो शूट किया और उन्होंने बताया कि बहुत ही लाईट वेट पार्टी वेयर ड्रेस है बलबीर सिल्क साड़ी के डायरेक्टर अमोलक सिंह ने बताया कि मॉडल टाउन और घुमार मंडी दोनों स्टोर पर जम सूट की काफी वैरायटी आई हुई है सिल्क के साथ कॉटन फैब्रिक में भी जम सूट उपलब्ध है।

परिवार को बंधक बनाकर लूटा अब घरों के अंदर और बाहर नहीं सुरक्षित जनता लुधियाना पुलिस प्रशासन पर खड़े सवाल



» मदरलैण्ड संवाददाता

लुधियाना। शहर के डाबा एरिया में लुटेरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पिस्तौल और तेजधार हथियारों के साथ आए लुटेरों ने एक परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर वहां से नगदी, सोना, गाड़ी और घर के कागजात तक लूट लिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खेती का काम करने वाली हरजिंद कौर के पति की कुछ समय पहले ही मौत हो चुकी है और उसके दो बच्चे विदेश में रहते हैं। बीती रात हरजिंद के माता-पिता उसे मिलने घर पर आए हुए थे और वह सभी अलग-अलग कमरों में सोए हुए थे। लुटेरे घर की दीवार फांदकर

अंदर दाखिल हुए थे और पहली मंजिल पर जाकर दरवाजे को लगी कुंडिया तोड़ी। हरजिंद कौर और उसके माता-पिता को बंधक बनाकर वहां से रु500000, 12 तोले सोने के गहने और घर के कागजात व प्रांगण में खड़ी सिक्पट कार तक लूटकर ले गए। सीसीटीवी के मरे खंगाल रही पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची थाना डाबा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी इस्पेक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक कर मामले की जांच की जा रही है और लुटेरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि शहर में चोरी और लूटपाट की बढ़ती वारदातें पुलिस की चौकस व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगातार बंद रहते हैं।

एचडीएफसी बैंक ने भारत में गहराई तक उतरने के लिए ग्रामीण बैंकिंग व्यवसाय की रूपरेखा बनाई

भटिंडा /पटियाला: आज एचडीएफसी बैंक ने घोषणा करके बताया कि इसने भारत में गहराई तक उतरने के लिए ग्रामीण बैंकिंग क्रियाकलाप की रूपरेखा तैयार की है। बैंकिंग उत्पादों को भीतर इलाकों में और ज्यादा आगे तक ले जाने के लिए, ग्रामीण बैंकिंग इस दिशा में बैंक के मौजूदा अभियानों को संगठित करेगी और उसे अंतिम छोर तक लेकर जाएगी। एचडीएफसी बैंक में सीनियर एग्जिक्यूटिव वाईस प्रेसिडेंट एवं नेशनल ग्रामीण बैंकिंग हेड, श्री अनिल भवनानी ने कहा, ह्यहम बैंक के विश्वस्तरीय उत्पाद व सेवाएं भारत के सबसे दूरदराज के हिस्सों तक ले जाने के लिए उत्साहित हैं। ह्यहम उन्हेने कहा, ह्यहम एक चुनौती एवं एक अवसर, दोनों हैं, और मैं इस दिशा में काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। बैंक की 50 प्रतिशत शाखाएं कई सालों से अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में हैं। इस बड़े हुए फोकस के साथ, हम इस वित्तवर्ष अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में और ज्यादा शाखाएं खोलेंगे। ये शाखाएं हमारे टचवाइंट्स हैं, जिनके माध्यम से हम इन बाजारों के लिए

निर्माण करके ग्रामीण इलाकों की जरूरतों को समग्र रूप से पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ह्यहम बैंक के ह्यप्यूरचर - रेडीह प्रोजेक्ट के तहत रिटेल ब्रांच बैंकिंग द्वारा तैयार, ग्रामीण बैंकिंग व्यवसाय अर्द्धशहरी और ग्रामीण बैंकिंग के मामले में विकसित होते परिदृश्य को समझकर ह्यग्रामीण प्रथमह की रणनीति का निर्माण करने के लिए बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद के साथ गठबंधन किया है। 3. नए उत्पाद व सेवाएं - ग्रामीण परिवहन अर्थव्यवस्था, वन अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, एवं अन्य सहयोगी गतिविधियों के मामले में नए उत्पाद व सेवाओं का गठन। 4. वन स्टॉप शॉप समाधान - छोटे किसानों, कर्मचारियों व व्यापारियों को वन स्टॉप शॉप समाधान प्रदान करने पर केंद्रण। 5. वित्तीय साक्षरता जागरूकता - बचत की अच्छी आदतों और वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

संग्रह प्रदान करेगा। इसके लिए बैंक निम्नलिखित दृष्टिकोण के साथ काम करेगा: 1. वितरण नेटवर्क - ग्रामीण इलाकों में अपने वितरण का विस्तार करने के लिए बैंक इस वित्तवर्ष अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में 1,064 से ज्यादा शाखाएं खोलेंगा। 2. सामरिक साझेदारी - उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता संतुष्टि, सेवा के डिजाइन व सेवा की आपूर्ति के मामले में विकसित होते परिदृश्य को समझकर ह्यग्रामीण प्रथमह की रणनीति का निर्माण करने के लिए बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद के साथ गठबंधन किया है। 3. नए उत्पाद व सेवाएं - ग्रामीण परिवहन अर्थव्यवस्था, वन अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, एवं अन्य सहयोगी गतिविधियों के मामले में नए उत्पाद व सेवाओं का गठन। 4. वन स्टॉप शॉप समाधान - छोटे किसानों, कर्मचारियों व व्यापारियों को वन स्टॉप शॉप समाधान प्रदान करने पर केंद्रण। 5. वित्तीय साक्षरता जागरूकता - बचत की अच्छी आदतों और वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

सीवरेज एम्पलाइज यूनियन की जनरल बॉडी मीटिंग हुई

» मदरलैण्ड संवाददाता

चंडीगढ़। सीवरेज एम्प्लॉयीज यूनियन की जनरल बॉडी मीटिंग यूनियन के प्रधान सुरेश कुमार की अध्यक्षता में वाटर वर्क्स सेंक्टर 32 पर हुई। मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि कॉर्डिनेशन कमेटी की तरफ से 25 मई को किए जा रहे रोप प्रदर्शन में सीवरेज विभाग के वर्कर्स भी शामिल होंगे। यूनियन के प्रधान सुरेश कुमार महासचिव नरेश कुमार ने मांग की कि आउट सेंसर्ड वर्कर्स के डीसी रेट्स में 20 % की बढ़ोतरी पुराने फामूल्ल अनुसार ही की जाए, आउट सेंसर्ड वर्कर्स के लिए सेक्योरिटी पॉलिसी बनवाई जाए तथा समान काम के लिए समान वेतन का फामूल्ल लागू किया जाए, हैड सीवरेज की खाली पोस्ट तुरत भरी जाए। तेल साबुन का भुगतान जल्द किया जाए। आउटसोर्सड वर्कर्स की सैलरी समय पर दी जाए। मीटिंग को कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी एम्पलाइज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ के, महासचिव राकेश कुमार, यूनियन के प्रधान सुरेश कुमार, महासचिव नरेश कुमार, राहुल वैद्य, दिवेंद्र कुमार ने भी संबोधित किया।

25 मई को किए जा रहे रोप प्रदर्शन में सीवरेज विभाग के वर्कर्स भी होंगे शामिल



जवाहर नगर किरयाना मार्केट के लिए खुलवाया कट

» मदरलैण्ड संवाददाता

लुधियाना। लुधियाना बस स्टैंड के पास जवाहर नगर किराना मार्केट को पिछले लंबे समय से दुकानदारों को आ रही परेशानियों के बाद आज बाहर वाला कट विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी कि अगुवाई में खुलवाया गया ग्रहको को पूरा घूम कर आना पड़ता था पुल का काम जारी है और ट्रेफिक भी जाम लगा रहता है इस लिए सभी दुकानदारों ने विधायक गुरप्रीत गोगी से अपील की थी कि इस कट को खुलवा के दुकानदारों की समस्या का हल हो जाएगा वो आज खुद मौके पर पहुंच कर विधायक ने कट को खुलवा दिया इस अवसर पर गोगी ने कहा कि वो हमेशा आम आदमी के साथ है जो भी किसी को दिक्कत कोई आती है तो वो उनके साथ है इस अवसर पर वार्ड नंबर 65 के प्रदान त्रिशूल ऑल, राजीव गांगट नरू चंडालिया, रिकी संपर, आशीष पासी, सागर कुमार, रिंकू आदि मौजूद रहे इस अवसर पर दुकानदारों ने प्रधान त्रिशूल का धन्यवाद किया।



संक्षिप्त समाचार

तेज आंधी में एक महिला की मौत, दर्जनों लोग हुए घायल

मदरलैण्ड संवाददाता, छपरा। तैरैया थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में तेज आंधी-पानी ने तबाही मचा दिया। फेनहारा गद्दी में करकट गिरने से एक महिला मानती देवी की मौत हो गई। जबकि विभिन्न गांवों में तेज आंधी में दर्जनों लोग घायल हो गये। घायलों में पोखरेड़ा गांव निवासी रामप्रवेश साह, आनंद कुमार गुसा, चान्दी कुमारी, संध्या कुमारी, शिल्पी कुमारी का उपचार तैरैया रेफरल अस्पताल में चल रहा है। रामप्रवेश साह के सिर पर करकट गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गये हैं। उसके सिर में 17 टांके लगे गये हैं। वहीं दर्जनों घायलों का उपचार निजी चिकित्सकों के यहां चल रहा है।

आंधी-पानी में सैकड़ों करकट नुमा घर हो गये ध्वस्त

मदरलैण्ड संवाददाता, छपरा। तैरैया प्रखंड के विभिन्न गांवों में तेज आंधी-पानी के कारण सैकड़ों करकट नुमा व फुसनुमा मकान व दलान गिर कर ध्वस्त हो गये हैं। अबतक तैरैया अंचल कार्यालय में दर्जनों पीड़ितों ने शिकायत प्रतिकेदन दिया है। अंचल कार्यालय में प्राप्त प्रतिकेदनों में सिरमी के सलाउद्दीन मियां, भागवतपुर के उमरावती देवी, रामपुर महेश के पवन कुमार तिवारी, नारायणपुर के राजेश प्रसाद, पचौड़र के श्याम नारायण सिंह, नंदनपुर के सुनीता देवी व भटौरा के कोल्ड स्टोर के मालिक अश्वनी कुमार सिंह का नाम शामिल है। अश्वनी सिंह का कोल्ड स्टोर करकट क्षतिग्रस्त हो गया है तथा शेष पीड़ितों का करकट नुमा व फुसनुमा घर ध्वस्त होकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। क्षतिग्रस्त मकानों के लिए तैरैया प्रखंड प्रमुख प्रीति कुमारी और मुखिया संघ के अध्यक्ष मुकेश कुमार यादव, मुखिया प्रतिनिधि धनवीर कुमार सिंह विक्रम ने स्थानीय प्रशासन से अबिलम्ब इन सभी पीड़ितों परिवारों को जांच कर मुआवजे की मांग की है।

आंधी-पानी में सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटवाने में जुटा वन विभाग की टीम

मदरलैण्ड संवाददाता, छपरा। तैरैया प्रखंड के विभिन्न गांवों व मुख्य सड़कों पर गुरुवार को तेज आंधी-पानी में सड़कों पर गिरे पेड़ों को शुकुवार को हटवाने में वन विभाग की टीम जुट गई है। तैरैया प्रखंड मुख्यालय के मुख्य गेट के सामने एक बड़ा सेमर का पेड़ गिरा हुआ है। पट्टी पचौड़र नहर रोड, तैरैया-मसरख एसएच-73 मुख्य सड़क में तीन जगहों पर तथा तैरैया-मटौरा रोड, तैरैया-उसरी रोड, वाईडीबीएस कॉलेज के समीप समेत अन्य गांवों व मुख्य सड़कों पर गिरे पेड़ों व उनके डालियों को काट छांट कर वन विभाग सड़कों को चालू कराने की प्रयास में जुटा हुआ है। तैरैया के प्रभारी वनपाल राजेश्वर प्रसाद ने बताया कि वन विभाग की टीम व अन्य मजदूरों के सहारे सड़कों पर गिरे पेड़ों व डालियों को काट कर हटाने का कार्य जारी है। वहीं अरदेवा और शीतलपुर बांध पर विशाल पीपल का पेड़ गिरने से आवागमन बाधित था। जिसे मुखिया सुशील कुमार सिंह ने अपने स्तर से पेड़ की कटाई कर आवागमन बहाल कराया। वहीं मटौरा बाजार पर चन्द्रिका राय के दुकान का दीवाल गिरने से काफी सामान नुकसान हुआ है। मुखिया सुशील सिंह ने तैरैया सीओ से माधोपुर पंचायत में हुए क्षति का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की है।

दर्जनों नल जल की टंकी आंधी में उड़ गये

मदरलैण्ड संवाददाता, छपरा। तैरैया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सरकारी की नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल के लिए लगाये गये जल मीनार की पानी की टंकी आंधी-पानी में उड़ गये हैं। जिस कारण लोगों के घरों में नल का जल का पानी 24 घंटे से नहीं मिल रहा है। पानी व बिजली के लिए लोग झंझर-उधर भटक रहे हैं। माधोपुर पंचायत के वार्ड संख्या 11 व 12 में लगे नल जल की टंकी उड़ गई हैं। टंकी का कहीं भी अता पता नहीं है। पंचभिण्डा पंचायत के वार्ड संख्या-12 का भी टंकी उड़ गया है। तैरैया पंचायत के वार्ड संख्या एक के नल जल की समरसेबुल पाइप पर पीपल का डाल गिरने से ध्वस्त हो गया है। वार्ड सदस्य राजू कुमार समेत अन्य वार्ड सदस्यों ने प्रखंड कार्यालय में इसकी लिखित शिकायत प्रतिकेदन दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपित पहुंचा हाजिरी लगाने सिधौल ओपी

मदरलैण्ड संवाददाता, बेगूसराय। अवैध शराब बरामदगी मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सराई अग्रिम जमानत के आलोक में आरोपित मुफरिसल थाना के अमरौर निवासी बुल्लू सिंह अनुसंधानकर्ता के पास हाजिरी लगाने सिधौल थाना शुकुवार को पहुंचे। विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मुफरिसल थाना कांड संख्या- 408/2021 के आरोपित बुल्लू सिंह को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को मदद करे और 20 मई को अनुसंधानकर्ता के पास उपस्थित होगा। इसी शर्त के तहत आरोपित बुल्लू सिंह अनुसंधानकर्ता के पास सिधौल ओपी थाना पहुंचे। आरोपित का थाना है कि अनुसंधानकर्ता थाना पर नहीं मिले, वहां उपस्थित पुलिसकर्मी ने बताया कि वो छुट्टी पर हैं।

मासिक बैठक में सेविकाओं को बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर दिया गया प्रशिक्षण प्रखंड मुख्यालय स्थित आइसीडीएस कार्यालय पर हुआ कार्यक्रम

» मदरलैण्ड संवाददाता

बेगूसराय। बाढ़ के समय जागरूकता के अभाव में लोगों की जानमाल की क्षति हो जाती है। संबंधित खतरे को देखते हुए यदि बाढ़ से पूर्व ही लोग तैयार रहें तो काफी हद तक जानमाल को बचाया जा सकता है। उपर्युक्त बातें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रतना कुमारी ने शुकुवार को, कहीं। वे प्रखंड मुख्यालय स्थित आइसीडीएस कार्यालय परिसर में आयोजित सेविकाओं की मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। सीडीपीओ ने सेविकाओं से कहा कि अपने पोषक क्षेत्र की बनावट और वहां के लोगों के बारे में आपसे से बेहतर कोई नहीं जानता है। कौन गंभीर रूप से बीमार है, गर्भवती महिला, शिशुवती महिला, छह माह से तीन साल के छोटे बच्चों के बारे में जानकारी है, इसलिए आप सभी को अपने अपने पोषक क्षेत्र के गर्भवती महिला, धात्री महिला, जन्म से तीन साल के छोटे छोटे बच्चों की सूची कार्यालय को अविलंब उपलब्ध करावा दें, ताकि आगव के समय बाढ़ में फंसे लोगों तक उनके जरूरत के हिसाब से चिकित्सा व्यवस्था पहुंचाया जा सके। उन लोगों की मोनटरिंग



उसे पोषण ट्रेकर पर जरूर लोड करें। उन्होंने सेविकाओं को एलर्ट करते हुए कहा कि आप जान लें, आपलोग जो भी गतिविधि करती हैं, उस पर विभाग ही नहीं आये लोगों की नजर है। उन्होंने सेविकाओं से नल जल योजना के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और सेविकाओं से कहा कि जिनके आंगनबाड़ी केंद्र पर नल जल की सुविधा है या नहीं, उसकी भी लिखित सूचना कार्यालय को दें। ताकि वहां पर बच्चों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए संयंत्र लगाए जा सकें। मौके पर महिला पर्यवेक्षिका उषा कुमारी, रामा कुमारी, कार्यपालक सहायक सुरेंद्र कुमार, बीसी अलका कुमारी, लेखापाल मारुतनाथ ठाकुर सहित अन्य मौजूद थे।

CBI छापेमारी के खिलाफ सड़क पर उतरा राजद राबड़ी आवास के सामने धरना, प्रदर्शन

» मदरलैण्ड संवाददाता

पटना। राजद सुप्रियो लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों के 17 ठिकानों पर शुकुवार सुबह से ही सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। रेलवे भर्ती में गड़बड़ी को लेकर पटना, दिल्ली, गोपागंज, भोपाल के कई ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी चल रही है। लालू यादव, राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती से सीबीआई पूछताछ कर रही है।

सीबीआई वापस जाओ का लगा रहे नारा

इधर, सीबीआई की इस कार्रवाई के विरोध में पटना में राजद कार्यकर्ता सड़क पर उतर गये हैं। राजद कार्यकर्ता 10 सकुलर रोड, राबड़ी आवास के पास धरने पर बैठ गये हैं। वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। सभी सीबीआई वापस जाओ का नारा लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लालू परिवार को परेशान करने के लिए राजनीति से प्रेरित होकर सीबीआई द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है।

लालू परिवार को डराने के लिए छापेमारी

कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर लालू



परिवार को फंसाने की कोशिश कर रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ आने से भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है। इस लिए लालू परिवार को डराने के लिए भाजपा के इशारे पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है।

सीबीआई रेलवे भर्ती मामले में कर रही है छापेमारी

इधर, इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी है। लालू प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी का मामला बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का मामले पर बयान 'सीबीआई रेलवे भर्ती मामले में कर रही है छापेमारी' कुछ सबूत मिलने पर सीबीआई

जांच कर रही होगी। वहीं खरब प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि छापेमारी पर टिप्पणी करना अभी जल्दीबाजी होगी।

सुशील मोदी ने बताया लालू के काम करने का तरीका

भाजपा सांसद व बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब उन्होंने दर्जनों लोगों को गुप-डी की नौकरियों के बदले में किसी और को जमीन दान करने के लिए बनाया और फिर 5-6 साल बाद उनसे खुद को वो जमीन लालू प्रसाद को उपहार में दिया। ये था काम करने का तरीका।

पूर्व सांसद विजय कृष्ण व बेटा चाणक्य जेल से होंगे रिहा

पटना हाईकोर्ट ने निरस्त की उम्रकैद की सजा

» मदरलैण्ड संवाददाता

पटना। हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा को निरस्त करते हुए दोनों को तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने नौ मई को पूरी कर ली थी सुनवाई

न्यायाधीश एएम बदर और न्यायाधीश सुनील कुमार पवार की खंडपीठ ने पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य की ओर से दायर आपराधिक अपील पर अपना फैसला सुनाते हुए यह निर्देश दिया। खंडपीठ ने मामले में 9 मई, 2022 को ही सुनवाई पूरी कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिस पर शुकुवार को अपना आदेश सुनाया।

ट्रांसपोर्टर हत्या मामले में निचली अदालत ने सुनायी थी सजा

साल 2009 में श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट सत्येंद्र सिंह की हत्या मामले में पूर्व



सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य के साथ दो अन्य लोगों को भी आरोपित किया गया था। ट्रांसपोर्टर हत्या मामले में पटना सिविल कोर्ट ने भादवि की धारा, 302, 120बी, 34 और 25 आर्म्स एक्ट में सजा सुनायी थी।

अंगरक्षक उमेश सिंह और नौकर गगन को भी साथ में मिली है सजा

पटना सिविल कोर्ट ने ट्रांसपोर्टर हत्या मामले में दर्ज विभिन्न धाराओं में पूर्व सांसद विजय कृष्ण, उनके बेटे चाणक्य, अंगरक्षक उमेश सिंह और नौकर गगन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पटना सिविल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कहा गया था कि घटना का ना तो कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह है और ना ही कोई प्रयोजन।

डीएम इनायत खान ने उच्च विद्यालय अररिया का किया औचक निरीक्षण

» मदरलैण्ड संवाददाता

अररिया। डीएम इनायत खान द्वारा शुकुवार को जिला मुख्यालय स्थित प्लस टू बालिका उच्च विद्यालय, अररिया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय के वर्ग कक्ष में जाकर शैक्षणिक कार्यों का निरीक्षण एवं कक्षा की गतिविधियों का बारीकी से जायजा लिया गया। साथ ही साथ शिक्षक एवं बच्चों के साथ संवाद भी किए। जिलाधिकारी ने छात्राओं को नल लगाकर पढ़ने एवं नियमित रूप से क्लास आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति, पठन-पाठन, विद्यालय का रख-रखाव के संबंध में प्रधानाध्यापक से गहन जानकारी भी प्राप्त किए। मौके पर उपस्थित प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया गया है कि विद्यालय में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति तथा पठन-पाठन का कार्य गुणवत्ता पूर्ण करने एवं साफ सफाई को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।



लालू परिवार के ठिकानों पर उड़क का छापा

» मदरलैण्ड संवाददाता

पटना। लालू परिवार के 17 ठिकानों पर चल रही सीबीआई की छापेमारी पर राजद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजद के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से कहा गया है कि तोते हैं। तोतों का क्या। राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि लालू प्रसाद पर लगातार कुछ ताकतें हमला करती रही हैं। हमें अदालत और न्याय पर भरोसा है। इधर कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव में हो रही कार्रवाई बताया है।

कानून के तहत हो रही कार्रवाई : भाजपा

दूसरी ओर अब भाजपा की तरफ लालू परिवार पर हमला शुरू हो गया है। पार्टी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने सीबीआई की कार्रवाई को लालू प्रसाद ने अपने शासन काल में जो भी घोटाले किए हैं। आज सीबीआई की कार्रवाई उसी का परिणाम है। यह छापेमारी पूरी तरह से कानून के अनुसार की जा रही है। अरविंद सिंह ने इस कार्रवाई को लेकर भाजपा पर लगा रहे आरोपों का बचाव करते हुए कहा कि इससे किसी भी दल का कोई मतलब नहीं है। यह सब कानून के अनुसार हो रहा है। लालू परिवार पर पहले भी कई तरह के घोटाले के आरोप लगते रहे हैं।

17 ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी

इससे पूर्व शुकुवार की सुबह जब सीबीआई की टीम लालू प्रसाद के पटना स्थित आवास पर पहुंची,



तो वकीलों के इंतजार में छापेमारी एक घंटे देर से शुरू हुआ। इस दौरान राजद के कार्यकर्ता राबड़ी आवास से कुछ दूर लालू प्रसाद के समर्थन पर नारे लगाते दिखे। लालू पर रेल मंत्री रहते रेलवे भर्ती में घोटाले का आरोप है। 2009 में जदयू सांसदों के आरोप पर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच की मांग की थी। अब 13 साल बाद लालू यादव पर केस दर्ज करने के 17 ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी कर रही।

राबड़ी आवास पहुंची सीबीआई की टीम

आज सुबह करीब छह बजे सीबीआई की एक टीम पटना के 10 सकुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के सरकारी आवास पहुंची। राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि राबड़ी आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम में महिला और पुरुष दोनों ही अधिकारी शामिल हैं। सीबीआई की इस टीम में कुल 10 लोग हैं। जांच के दौरान राबड़ी आवास में किसी को भी आने-जाने से रोक दिया गया है। सीबीआई के अधिकारी राबड़ी आवास में ही जमे हैं।

अवैध रूप से चल रहे दो ईट भट्टों के विरुद्ध कार्रवाई, संचालकों के विरुद्ध मामला दर्ज

भंडारण एवं परिवहन किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा

» मदरलैण्ड संवाददाता

लातेहार। लातेहार सदर प्रखंड के मंगरा में अवैध रूप से संचालित दो ईट भट्टों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। लातेहार एसडीओ के नेतृत्व में पहुंची विशेष टीम में जांच के बाद दोनों भट्टों के संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसे लें अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन की रोकथाम को लेकर उपायुक्त अबु इमरान निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी शेखर कुमार ने नेतृत्व में जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बौते शुकुवार को सदर थाना क्षेत्र के मंगरा गांव में संचालित ईट भट्टों की स्थलीय जांच की जता बिक्स एवं एम्पीएस बिक्स का संचालन नियमानुसार नहीं किये जाने पर जनता बिक्स मंगरा के संचालक डब्लू सिंह एवं एम्पीएस बिक्स के संचालक हर्ष सिंह, पार्टनर मोहन सिंह एवं छोटू सिंह के खिलाफ लातेहार थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि मंगरा में



अवैध ईट भट्टा संचालन की सूचना मिली थी। जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए। अनुमंडल पदाधिकारी शेखर कुमार के नेतृत्व में टीए गणित कर थाना प्रभारी अमित गुला एवं पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पाया गया कि चिमनी ईट भट्टा का संचालन का नियमानुसार किसी प्रकार की कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। और न ही संचालक द्वारा भूमि एवं माइनिंग प्लान संबंधित कोई भी कागजात और शिल्क जिला खनन कार्यालय में जमा करवाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इस सम्बन्ध में

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण

ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण

» मदरलैण्ड संवाददाता

देवघर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा देवघर कॉलेज स्थित मतगणना केन्द्र का निरीक्षण कर चल रहे मतगणना कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने विधिव्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था के अलावा देवघर, देवीपुर एवं मोहनपुर प्रखंड के चल रहे मतगणना कार्यों की वस्तुस्थिति का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आखिरी दिन के चल रहे मतगणना को लेकर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भौषण गमी में टीम भावना के

साथ सभी ने बेहतर कार्य किया है। साथ ही तीसरे चरण के मतदान की तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उपरोक्त के अलावे उप विकास आयुक्त डॉ कुमार ताराचंद, अपर समाहता चंद्र भूषण प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव, जिला पंचायती राज पदाधिकारी रणवीर सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, गोपनीय प्रभारी विवेक कुमार मेहता, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी एवं संबंधित विभाग व कोषांग के अधिकारी व कर्मचारी आदि उपस्थित थे।



अतिक्रमण हटाने पर पक्षपात रवैया अपना रहे नप अधिकारी

» मदरलैण्ड संवाददाता

अररिया। नगर परिषद जोगबनी अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल नगर परिषद की ओर से गरीबों को तंग किया जाता है। शुकुवार को जोगबनी बाजार से नेपाल सीमा तक कुछ इसी तरह का नजारा देखा गया। अधिकारियों ने दुकानदारों के सामान को तो जब्त किया नहीं बल्कि फुटकर लगाने वाले विक्रेताओं के सामान को उठा लिया। अधिकारियों द्वारा की गई इस तरह की कार्रवाई पर रेहड़ी और स्ट्रीट विक्रेताओं ने भेदभाव के आरोप भी लगाए। नगर परिषद के अधिकारी शुकुवार को करीब 10 बजे सुबह से ही मेन रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। सबसे ज्यादा अतिक्रमण नेपाल सीमा के मुहाने पर ही रहता है। यहां पर टीम की ओर से किसी तरह का सख्त कदम नहीं उठाया गया।

फुटकर दुकानदारों ने लगाए भेदभाव के आरोप

जोगबनी शहर के फुटकर, रेहड़ी विक्रेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर नगर परिषद जोगबनी के अमले पर भेदभाव के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की टीम जब भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती है। इसमें भेदभाव बरता जाता है। बड़े दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि छोटे-छोटे स्ट्रीट विक्रेताओं

पर नप सख्त रवैया अपनाती है। नप परिषद जोगबनी के द्वारा फुटकर विक्रेताओं को दिया गया है वेंडर आईडी कार्ड व फुटकर विक्रेता प्रमाण पत्र फुटकर विक्रेताओं के बताया कि नप जोगबनी ने हमलों से 1000 रु से 2000 रु लेकर स्ट्रीट भेंडर का पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र दिया गया है। लेकिन आज हमलों का रेहड़ी, ठेला आदि को क्षतिग्रस्त कर नप कर्मियों के द्वारा ले जाया गया है। नगर परिषद जोगबनी द्वारा बीना स्ट्रीट भेंडर जोगबनी ही निर्गत कर दिया स्ट्रीट भेंडर आईडी कार्ड व प्रमाण पत्र, सवालों से बचते और अन्य जगह अतिक्रमण करने का नाशीहत देते दिखे नप अधिकारी स्ट्रीट भेंडरों से शहर का अतिक्रमण खाली करने में नप कर्मियों में मो० परवेज की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। जब परवेज से स्ट्रीट भेंडर आईडी कार्ड के बारे में पूछा गया तो परवेज ने बताया कि स्ट्रीट भेंडर सिर्फ पहचान की आप लोग स्ट्रीट भेंडर हैं इसका मतलब ये नहीं स्ट्रीट भेंडर मुख्य सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान चलाए, किसी अन्य सड़क पर दुकान लगाए। वहीं स्ट्रीट भेंडर जोन के बारे में पूछे जाने पर मो० परवेज ने विषय को बदलते हुवे कहा कि हम फुटकर



विक्रेताओं से बोले हैं कि सुशील बाबू वाला रोड़ में भयंकर जगह खाली हैं। नाली पर रातो रात चर्चरी डाल कर दुकान लगा कर मार्केट बना ले।

संक्षिप्त समाचार

मध्य विद्यालय कोशकीपुर में सर्व सम्मति से सचिव का चयन संपन्न



मद्रलैण्ड संवाददाता, कटिहार। मध्य विद्यालय कोशकीपुर में पर्यवेक्षक के देख-रेख में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया। इसमें मुख्य रूप से विद्यालय के सचिव पद चयन चुनाव के माध्यम से वोटिंग कराकर किया गया। सचिव पद के लिए सर्व सम्मति रीमा देवी का चयन हुआ। शिक्षा समिति के गठन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से विद्यालय की अध्यक्ष उषा देवी प्रधानाध्यापक रणधीर कुमार मंडल मुखिया प्रतिनिधि दिवाकर सिंह पंचायत समिति प्रतिनिधि विनोद सिंह उप मुखिया राज देव गुप्ता सरपंच प्रतिनिधि अमित सिंह राठौर सहित पंचायत के कई वार्ड सदस्य सहित ग्रामीण व विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक उपस्थित थे।

बाबू वीर कुंवर सिंह सेवा परिषद ने डीएम को सौपा माँग पत्र



मद्रलैण्ड संवाददाता, कटिहार। जिला इंटरक. बाबू वीर कुंवर सिंह सेवा परिषद, महाराणा प्रताप सेवा परिषद, करणी सेना, अखिल भारतीय क्षत्रिय एकता मंच, संयुक्त रूप में कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा से मिलकर आयशा मोटर्स के कैसियर स्वर्गीय रजत कुमार सिंह के हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी करने, स्वर्गीय रजत के परिजनों को सम्मानजनक मुआवजा देने, परिवार सिंह सेवा परिषद के अध्यक्ष विकास सिंह, परिषद के बालिग होने तक पढ़ाई की व्यवस्था करने, कर्मचारी राजी बीमा निगम, भविष्य निधि इंश्योरेंस, ग्रेजुएट, पैशन का आजीवन लाभ दिलवाने, आयशा मोटर्स में पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था, कम से कम 6 नगमैन सुरक्षा गार्ड का व्यवस्था एवं प्रशासन की ओर से पेट्रोलिंग की व्यवस्था करवाने को लेकर जिला पदाधिकारी को मांग पत्र सौपा। जिला पदाधिकारी ने स्वर्गीय रजत को न्याय दिलाने का भरपूर शिष्टमंडल को दिया। जिला पदाधिकारी से मिलने वालों में कटिहार जिला इंटरक. बाबू वीर कुंवर सिंह सेवा परिषद के अध्यक्ष विकास सिंह, परिषद के संरक्षक अरविंद सिंह अधिवक्ता, सचिव राममूर्ति सिंह, प्रवक्ता अजय सिंह, महाराणा प्रताप सेवा परिषद के अध्यक्ष कुमार गौरव, करणी सेना के अध्यक्ष सत्यम समदशी, अखिल भारतीय क्षत्रिय एकता मंच के अध्यक्ष अजय सिंह, परिषद के मनोज सिंह, हरेंद्र मिश्रा, नीलांबर सिंह, उपेंद्र सिंह मुख्य रूप से शामिल थे।

चक्रवाती तूफान ने मचाया कोहराम

मद्रलैण्ड संवाददाता, कटिहार। आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में चक्रवाती तूफान का असर इस तरह से रहा कि प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों सहित निमौल पंचायत के वार्ड संख्या 6 रंगापोखर गांव में 90 प्रतिशत लोगों के घरों का का छप्पर उड़ जाने के कारण खुले आसमान के नीचे जीवन गुजर-बसर करने के लिए विवश हो चुके हैं 10% वैसे लोगों का घर बचा है। पक्का मकान छतदार रहने की वजह से घर सुरक्षित रह पाया है। ग्रामीणों के अनुसार टिन से बना घर का छप्पर उड़ गया और अब तक मिला भी नहीं है। कहां गया कोई पता नहीं चल सका है। गांव के भीतर पेड़ पौधे धराशायी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा क्षति केला का बगीचा की खेती करने वाले किसानों को हुई है। इवही इस चक्रवाती तूफान का असर महेशपुर पंचायत के कालीगंज गांव में भी देखने को मिला। इस गांव में 40 से ज्यादा परिवार बेघर हो चुके हैं। सभी का आशियाना उजर गया लोग खुले आसमान में जीवन गुजारने को विवश है। पंचायत के मुखिया इशरत ने बताया महेशपुर पंचायत में करीब एक सौ परिवार से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। पूर्व मुखिया अब्दुल गफ्फार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों के लिए आवास मुहैया कराए जाने की जिला पदाधिकारी कटिहार से मांग की है। इवही निमौल पंचायत के मुखिया कुलसुम बेगम वार्ड सदस्य हिदायत आलम आदि जनप्रतिनिधियों ने भी बेघर हुए लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराए जाने की जिला पदाधिकारी कटिहार से मांग की है।

छटघाट निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही है अनियमितता, नहीं है प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसकी जानकारी



मद्रलैण्ड संवाददाता, कटिहार। कदवा प्रखंड क्षेत्र के भरी पंचायत के देवगांव घाट में करवाया जा रहा है छटघाट निर्माण कार्य छटघाट निर्माण कार्य के दौरान भड़ी अनियमितता के साथ-साथ कार्य में गुणवत्ता विहीन सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। इवही कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई शिफ्टिंग भी नहीं लगा गया है जिस कारण योजना का कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। साथ ही कार्य स्थल पर कोई भी कार्य से संबंधित कनीय अभियंता भी मौजूद नहीं थे। इस बाबत जब प्रखंड विकास पदाधिकारी मुर्शिद अंसारी से जानकारी लेने के लिए सम्पर्क साधा गया तो उन्होंने कहा कि योजना की जानकारी हमें नहीं है शायद पंचायत का योजना होगा। पंचायत सचिव से इसकी जानकारी लेते हैं। बहरहाल जो भी हो प्रखंड क्षेत्र में चल रहे योजना में अनियमितता के साथ-साथ गुणवत्ता विहीन सामग्री का प्रयोग करवाया जाना कार्य स्थल पर कनीय अभियंता का उपस्थित नहीं होना साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी को चल रहे योजना की जानकारी नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।

कंही पुलिस की मिली भगत से तो धड़ल्ले से चल रहा है ओवरलोडिंग वाहन

मद्रलैण्ड संवाददाता

कटिहार। कदवा पुलिस प्रशासन के लापरवाही के चलते क्षेत्र में ट्रैक्टरों, ट्रकों एवं अन्य वाहनों में ओवरलोडिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। ट्रक, ट्रैक्टर एवं अन्य वाहन चालक अपने निर्धारित क्षमता से दो गुना अधिक माल लादकर सड़कों की दशा बिगाड़ रहे हैं। सूत्रों की माने तो कदवा पुलिस के लोग पैसा पाने के बाद चुपकी साध लेते हैं। हालात यह है कि ओवरलोड ट्रक, ट्रैक्टर रात ही नहीं दिन में भी क्षेत्र की सड़कों से गुजर रहे हैं और इन्हें टोकने वाला कोई नहीं है। ट्रैक्टरों, ट्रकों में माल के पासिंग के विपरीत क्षेत्र में देखा जाए तो सभी ट्रकों, ट्रैक्टरों पर निर्धारित क्षमता से दो गुना माल ढोया जा रहा है। कदवा थाना मुख्यालय के गेट के सामने से रोजाना ट्रैक्टर और ट्रक दिनदहाड़े पार होते हैं और उन्हें टोकने वाला कोई नहीं होता। जबकि वरीय अधिकारी द्वारा ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के आदेश का कड़ाई से पालन करने का बार-बार आदेश दिया जाता है। ट्रैक्टर व ट्रक संचालक के



कारोबार से जुड़े लोगों की मानें तो हर थाना क्षेत्र में दो तीन हजार इंटीफिस तय है। हर ट्रैक्टर व ट्रक चालक से इसकी वसूली पुलिस प्रशासन करती है। करते हैं। जो ट्रैक्टर, ट्रक मालिक इंटीफिस देने से इनकार करते हैं उसका चालान कर दिया जाता है। ओवरलोडिंग से न केवल सरकारी राजस्व को चुना लग रहा है बल्कि क्षेत्र की सड़कें भी कबाड़ में परिवर्तित होती जा रही हैं। इस बाबत कोई टोकने वाला नहीं है। इससे ओवरलोडिंग के खेल दिनोंदिन फलफूल रहा है। इवही क्षेत्र में अधिक माल रहने की वजह से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। साथ ही किसी

बड़े हादसे के शिकार होने से लोग बाल-बाल बच रहे हैं। ऐसे में एक आज एक ओवरलोड मक्का लदा ट्रैक्टर कुम्हड़ी से चांदपुर की ओर जा रहा था कि इसी क्रम में आनंद भगत के दुकान के सामने अचानक एक चक्का खुल गया तभी एक साइकिल सवार व्यक्ति बगल से गुजर रहा था जो एक बड़ा हादसा का शिकार होते बाल-बाल बच गया। इवही मौजूदा समय में भारी वाहनों के आवागमन ने सोनेली से लेकर पहलागढ़ मोड़ तक सड़क को बदहाल कर दिया है। यहां से गुजरने को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षमता से अधिक अनाज, मिट्टी और दूसरा कोई अन्य सामान ट्रैक्टरों व ट्रकों पर लड़ने के बाद मालिक के इशारे पर चालक होशियारी करते हैं। वे तिरपाल से पूरी वाहन को ढक देते हैं। इससे ट्रैक्टर व ट्रक पर लदा सामान दिखाई न पड़े और वे आसानी के साथ अपनी मजिल पर पहुंच जाए। इस खेल से विभाग के सभी जिम्मेदार पश्चित हैं। लेकिन कोई कदम उठाने से गुरेज करते हैं। साथ ही कदवा पुलिस जान बूझ कर अनजान बने बैठे हैं।

चक्रवाती तूफान ने मचाया कोहराम

मद्रलैण्ड संवाददाता

कटिहार। आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में चक्रवाती तूफान का असर इस तरह से रहा कि प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों सहित निमौल पंचायत के वार्ड संख्या 6 रंगापोखर गांव में 90 प्रतिशत लोगों के घरों का का छप्पर उड़ जाने के कारण खुले आसमान के नीचे जीवन गुजर-बसर करने के लिए विवश हो चुके हैं 10% वैसे लोगों का घर बचा है। पक्का मकान छतदार रहने की वजह से घर सुरक्षित रह पाया है। ग्रामीणों के अनुसार टिन से बना घर का छप्पर उड़ गया और अब तक मिला भी नहीं है। कहां गया कोई पता नहीं चल सका है। गांव के भीतर पेड़ पौधे धराशायी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा क्षति केला का बगीचा की खेती करने वाले किसानों को हुई है। इवही इस चक्रवाती तूफान का असर महेशपुर पंचायत के कालीगंज गांव में भी देखने को मिला। इस गांव में 40 से ज्यादा परिवार बेघर



हो चुके हैं। सभी का आशियाना उजर गया लोग खुले आसमान में जीवन गुजारने को विवश है। पंचायत के मुखिया इशरत जहां ने बताया महेशपुर पंचायत में करीब एक सौ परिवार से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। पूर्व मुखिया अब्दुल गफ्फार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों के लिए आवास मुहैया कराए जाने की जिला पदाधिकारी कटिहार से मांग की है। इवही निमौल पंचायत के मुखिया कुलसुम बेगम वार्ड सदस्य हिदायत आलम आदि जनप्रतिनिधियों ने भी बेघर हुए लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराए जाने की जिला पदाधिकारी कटिहार से मांग की है।

29 साल पुराने केश के आरोपी को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर ले गयी

मद्रलैण्ड संवाददाता

कटिहार। यूपी के मिजापुर जिले की थाना कोतवाली कटरा पुलिस 19 मई बीते गुरुवार को एक 29 साल पुराने केश के फरार चल रहे नामजद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर थाना कोतवाली कटरा पुलिस सालमारी पहुंची जहां सालमारी पुलिस के पीएसआई बैजू कुमार और सशस्त्र बलों के सहयोग से ओपी क्षेत्र के दमदमा स्थित नामजद आरोपी के घर पुलिस ने दबिश बढ़ाई छापेमारी की तो अभियुक्त अमीन उर्फ अमीर पुत्र बहाउद्दीन की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। जिससे सालमारी ओपी लाया गया ओपी इंचार्ज विजय कुमार के समक्ष कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यूपी पुलिस अपने साथ ले गयी यूपी के तहत बेघर लोगों को कटरा पुलिस से सालमारी पहुंचे एसआई रामाश्रय राव एएसआई नवीन कुमार ने मीडिया को बताया 29 साल पुराने केश में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर थाना कोतवाली कटरा ओपी कई बार आ चुके हैं। लेकिन गिरफ्तारी संभव नहीं हो पा रही थी। लेकिन बीते गुरुवार 19 मई को सालमारी ओपी के पीएसआई बैजू कुमार और पुलिस बल के नेतृत्व में



दमदमा स्थित छापेमारी की गई तो सफलता हाथ लगी 1993 के नामजद फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी हो पाई। इतक अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय अग्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मिजापुर कोर्ट ने अभियुक्त अमीन उर्फ अमीर पुत्र बहाउद्दीन के विरुद्ध वारंट निर्गत करते हुए थाना कोतवाली कटरा यूपी अपराध संख्या 377/1992 धारा 363/366/376 आईपीसी के फरार

चल रहे अभियुक्त अमीन उर्फ अमीर पुत्र बहाउद्दीन बिहार के कटिहार जिले के सालमारी ओपी आजमनगर थाना क्षेत्र दमदमा निवासी के विरुद्ध वारंट निर्गत करते हुए यूपी पुलिस को गिरफ्तार कर 26 मई 2022 को न्यायालय अग्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट जनपद जिला मिजापुर उत्तर प्रदेश में पेशी करने का निर्देश दिया है। इसी के आलोक में यूपी पुलिस ने सालमारी पुलिस के सहयोग से 29 साल पुराने केश के फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर ले गयी।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभुकों का किया गया चयन

मद्रलैण्ड संवाददाता

कटिहार। पश्चिमी चांदपुर पंचायत सरकार भवन नरैहिया में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी लाभुकों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया रंजन देवी ने की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पात्र एवं अपात्र लाभुकों का चयन किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत लाभुक किसानों को प्रत्येक वर्ष 3 किस्तों में ₹6000 दिए जाते हैं। ग्राम सभा में पंचायत प्रतिनिधि समेत कृषि विभाग के कर्मी भी मौजूद थे। आयोजित कार्यक्रम में पंचायत से संबंधित पीएम किसान निधि योजना से लाभान्वित किसानों की सूची सार्वजनिक की गई। सभा के माध्यम से लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी दी गई ताकि उचित लाभुक जो अब तक इस योजना का लाभ नहीं लिए या ले सकते हैं। कार्यक्रम में उप मुखिया मोहम्मद सलीम, सरपंच ममता देवी, कृषि समन्वयक रंजन पंडित, शिवेश कुमार सिंह, किसान सलाहकार गणेश प्रसाद साह, मुखिया प्रतिनिधि जयकुमार उफ होनोबाद, सरपंच प्रतिनिधि दिलीप चांदव, सहित पंचायत के सभी 13 वार्डों के वार्ड सदस्य तथा पंच मौजूद रहे।



मद्रलैण्ड संवाददाता

कटिहार। बरारी प्रखंड के सभाकक्ष में आयोजित प्रखंड स्तरीय बैंकर्स की बैठक बीडीओ पूरण साह की अध्यक्षता में शुरू की गई। बीएलबीसी की बैठक में क्षेत्र में मक्का, मखाना की पैदावार पर अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया गया, साथ ही प्रोसेसिंग युनिट लगाने, किसानों को कृषि आधारित ऋण देने, किसानों की समस्या आदि पर बैंकर्स की बैठक में किसानों को शामिल करने पर जोर दिया गया, बैठक में एलडीएम ने बैंकर्स को सीडी सुधार के सख्त निर्देश दिये, बैठक में मतस्य एवं पशुपालकों को केसीसी निर्गत करने का निर्देश दिया, अगली बैठक में किसानों शामिल करने का प्रस्ताव लिया गया,



प्रखंड क्षेत्र की एक बड़ी आबादी जलजमाव की समस्या से दो-चार हो रहे हैं। जल-जमाव से आजिज होकर स्थानीय बाजार वासियों और व्यवसाई वर्गों ने गांधी चौक पर स्थानीय विधायक सांसद यहां तक कि डिप्टी सीएम और राज्य सरकार के विरोधी नारे लगाते हुए जल-जमाव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। जल जमाव की समस्या से और कितनी बार कराए अवगत:-* विरोध जताते हुए व्यवसाई वर्गों और स्थानीय लोगों ने कहा जल-जमाव की

रेफरल अस्पताल में आशा दिवस पर कार्य कर्तव्यबोध कराया गया



कटिहार। बरारी प्रखंड के जनता की धड़कन जर्जर रेफरल अस्पताल बरारी में आशा दिवस का आयोजन किया गया, क्षेत्र की सभी आशा को प्रशिक्षण दिया गया, बैठक में हेल्थ एडुकेटर पारस नाथ कुमार मौजूद थे। इसके साथ ही उपस्थित सभी आशा को प्रत्येक कार्यक्रम में लक्ष्य के ज्ञा, यूनिसेफ के बीएमसी संतोष कुमार जायसवाल, केयर इंडिया की अर्चना सिन्हा ने उपस्थित आशा को प्रशिक्षण में बताया कि पोषक क्षेत्र में टारगेट पर नजर बनी

रहे, साथ ही अश्विन पोर्टल, कांविड वैक्सिनेशन, आर सी एच रजिस्टर, टेली मेडिसिन, आरोग्य दिवस एवं सर्व रजिस्टर और ड्यू लिस्ट अद्यतन करने

जल-जमाव की समस्या से परेशान जनता ने किया विरोध प्रदर्शन



प्रखंड क्षेत्र की एक बड़ी आबादी जलजमाव की समस्या से दो-चार हो रहे हैं। जल-जमाव से आजिज होकर स्थानीय बाजार वासियों और व्यवसाई वर्गों ने गांधी चौक पर स्थानीय विधायक सांसद यहां तक कि डिप्टी सीएम और राज्य सरकार के विरोधी नारे लगाते हुए जल-जमाव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। जल जमाव की समस्या से और कितनी बार कराए अवगत:-* विरोध जताते हुए व्यवसाई वर्गों और स्थानीय लोगों ने कहा जल-जमाव की

बात पहुंचा दीजिये कहीं आप का फोन काम कर जाए तो इस बाबत उनके जल जमाव स्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम के रिश्तेदार गुड्डू भगत उर्फ बाबा ने विरोध जता रहे लोगों से कहा जल जमाव की समस्या से डिप्टी सीएम को अवगत करा चुके हैं। इन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया है कि समस्या से बाजार वासियों की जल्द ही निजात मिलेगी। बाजार वासियों की उक्त मांग पर क्षेत्र की जनता का विस लोस और शीर्ष सदन तक रहनुमाई करने वाले कब तक ध्यान देते हैं। देखने वाली बात होगी बहरहाल जलजमाव की समस्या बाजार वासियों के लिए कोढ़ के काढ़ के समान बनकर रह गई है।

विरोध जताने वालों में ये रहे सामिल:- हलाकि जल जमाव की समस्या से दो चार हो रहे लोगों ने स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के विरोध में भी आवाज बुलंद की है। विरोध जताने वालों में सनातन पोद्दार, जयदेव प्रसाद लाल, प्रभास प्रसाद भगत, अशोक भगत, मंशुर आलम, अशोक राय, राघु विश्वास, सोनू भगत, धीरज पोद्दार, सुमन भगत आना जाना होता है। तो उनके रिश्तेदार को अवगत करा जा रहे थे कि बाजार के लोगों सहित आप भी इस जल-जमाव से अछूता नहीं है तो थोड़ा डिप्टी सीएम तक

संक्षिप्त समाचार

आंधी-पानी से दर्जनों बिजली के पोल हुए क्षतिग्रस्त, बिजली के लिए लोगों में त्राहिमा की स्थिति, इन्वर्टर व बैट्री भी दिया धोखा

मदरलैण्ड संवाददाता, छपरा। तैरैया में बिजली के लिए 24 घंटे से आम से लेकर खास तक परेशान है। गुरुवार को दोपहर में आधी जबरदस्त आंधी-पानी ने बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर डाला है। प्रखंड के लगभग कई गांवों में सैकड़ों बिजली के पोल तथा उसके तार टूट कर गिर चुके हैं। बिजली विभाग की टीम शुक्रवार की सुबह से ही ध्वस्त पोल और तार को सुदृढ़ करने में पूरी टीम के साथ जुटी हुई है। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी तैरैया विद्युत पावर सबस्टेशन में बिजली नहीं पहुंच पाई है। पहले पावर सबस्टेशन तक बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो जायेगी उसके बाद सप्लाई की व्यवस्था दुरुस्त किये जायेंगे। आंधी-पानी से बिजली व्यवस्था को ध्वस्त होने से सबसे अधिक मोबाइल धारक परेशान है। गुरुवार को देर संध्या तक लोगों ने इन्वर्टर व बैट्री भी जबाव दे दिया। जिसके बाद शुक्रवार की सुबह से लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए इन्वर्टर व बैट्री वाले दुकानदारों से मोबाइल चार्ज करने की आरजू करते देखे गये। वहीं 24 घंटे से बिजली नहीं मिलने के कारण लोगों को घरों की टंकी व नलों की पानी भी खत्म हो चुके हैं। बिजली नहीं रहने से नल जल से भी पानी की सप्लाई बंद है। बिजली नहीं रहने के कारण क्षेत्र के लोग त्राहिमा मकर रहे हैं। तैरैया परिक्षेत्र के कनीय विद्युत अभियंता पंकज कुमार ने बताया कि शाम तक पावर सबस्टेशन में बिजली बहाल कर लिया जायेगा और धीरे-धीरे अगल-अलग फीडर में जांच कर आगे सप्लाई बढ़ाया जायेगा। वहीं क्षतिग्रस्त पोल और तार को दुरुस्त करने के लिए टीम लगी हुई है। जल्द ही सभी गांवों में बिजली सेवा बहाल कर लिया जायेगा।

मृतक के परिजन को दिया गया चार लाख का चेक



मदरलैण्ड संवाददाता, कटिहार। कुरसेला प्रखंड के उत्तरी पंचायत के बलथी महेशपुर के गांव में शुक्रवार को मृतक के परिजन को अंचलाधिकारी दिवाकर कुमार, बीडीओ अजय कुमार, थानाध्यक्ष रजय कुमार सिंह, अंचल निरीक्षक दिलीप कुमार ने चार-चार लाख रुपये का चेक सौंपा। पंचायत के मुखिया अविनाश सिंह ने कहा कि मृतक के परिजन को आपदा कोष से यह राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने पीड़ित परिवार को इस राशि का सदुपयोग करने का अपील किया। इस दौरान परिजन तथा गांववासी आदि उपस्थित थे। ज्ञात हो कि थाना क्षेत्र के बलथी महेशपुर चौक के समीप गुरुवार की देर शाम पंचायत के बलथी महेशपुर गांव के एक वृद्ध महिला राधा देवी की मौत वृद्ध के चपेट में आने से हो गई थी।

नाबालिग किराएदार से बलात्कार का मामला

फुलवारी शरीफ, एजेंसी। नाबालिग किराएदार से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 50 वर्षीय मकान मालिक नाबालिग युवती के साथ पिछले ढाई महीने से बलात्कार कर रहा था। पुलिस ने मामले में मकान मालिक के परिजन को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। मामला दानापुर के फुलवारी शरीफ का है। यहां के मुहल्ले रहनेवाले परिजनों ने पुलिस में मकान मालिक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि फुलवारी शरीफ के एक मोहल्ले से बलात्कार का आरोप लगाते हुए एक लिखित आवेदन मिला है। आवेदन के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पीड़िता के मुताबिक, जिस मकान मालिक के घर में वह अपने परिवार के साथ रहती है, उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। जब घर में कोई नहीं रहता था, तब वह वारदात को अंजाम दिया करता था। पिछले ढाई महीने से वह उसके साथ बलात्कार कर रहा था। वह डर के मारे किसी को अपने साथ हो रहे अपराध की जानकारी किसी को नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब उसने हिम्मत कर अपने घरवालों को सारी जानकारी दे दी है। उसके परिजनों ने इस बारे में गुरुवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

पटना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के अंतर्गत अत्याधुनिक कैमरे लगाने का काम शुरू

पटना, एजेंसी। पटना स्मार्ट शहर परियोजना अब मूर्त रूप लेने लगी है। सबसे महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना का काम कई महीने पहले शिलान्यास के बावजूद शुरू नहीं हो सका था, पर अब शहर भर में अत्याधुनिक कैमरे लगाने का काम शुरू हो गया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के अंतर्गत शहरभर में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक कैमरे लगाने और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम किया जा रहा है। पहले चरण में चिड़ियाघर गेट नंबर-1, गांधी मैदान गेट-5 और 10, अंटा घाट, डाकबंगला चौराहा, हाईकोर्ट मोड़, हड़ताली मोड़ सहित कुल 42 स्थान पर 500 कैमरे लगाए जाएंगे। परियोजना के अंतर्गत 220 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। सभी कैमरों से प्राप्त फीड को करीब 11 पीबी क्षमता की स्टोरेज में सुरक्षित रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपदा, आपात, एक्सिडेंट की स्थिति में इमरजेंसी कॉल बॉक्स के माध्यम से सीधे कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकेगा, जहां लोगों को तत्काल मदद उपलब्ध होगी। परियोजना के अंतर्गत शहर में गांधी मैदान, गोलघर, जीपीओ, कारगिल चौक, चिड़ियाघर सहित 50 स्थानों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था होगी। परियोजना के अंतर्गत बिहार पुलिस की डायल-100 सेवा को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ इंटीग्रेट कर पहले से लगे कैमरों की फीड की मॉनिटरिंग का काम शुरू हो गया है। साथ ही शहरभर में कचरा उठाव और पटना नगर निगम की सभी ई-गवर्नेंस सेवाओं की भी डाटा सेंटर के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। जैसे-जैसे कैमरों और ऑप्टिकल फाइबर लगाने का काम पूरा होता जाएगा, वैसे-वैसे उनके फीड की मॉनिटरिंग भी शुरू होगी। परियोजना के अंतर्गत सीसीटीवी, रेडलाइट वायलेशन सिस्टम, एडप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रेडलाइट वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम, सीपीयू वॉयलेशन डिटेक्शन के लिए कैमरे लगाए जाएंगे।

मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से स्टार्टअप जोन को मिला करोड़ों का ऑर्डर



मदरलैण्ड संवाददाता

बेतिया। यूट्यूब पर स्टार्टअप जोन, चनपटिया के प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलने के बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई के टेक्सटाईल क्षेत्र के बड़े व्यापारियों ने स्टार्टअप जोन के उद्यमियों से संपर्क साधा और करोड़ों रुपये के साड़ी, लहंगा, शर्ट, टी-शर्ट, जैकेट, ट्रैक सूट आदि का ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि स्टार्टअप जोन में जितना भी प्रोडक्शन होगा, हम सभी ले लेंगे।

ऑर्डर मिलने के बाद स्टार्टअप जोन के उद्यमी खासे उत्साहित हैं और उक्त बातों की जानकारी देने के लिए आज जिलाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण से मिलने पहुँचे। उद्यमियों ने जिलाधिकारी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके ही प्रयास से चनपटिया स्टार्टअप जोन की ख्याति विदेशों तक में पहुँच गयी है। उद्यमियों ने बताया कि विदेशों से जितना ऑर्डर मिला है उतना प्रोडक्शन करने में और मशीनों लगानी होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि यह स्टार्टअप जोन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि

विदेशों के व्यापारियों ने कहा, स्टार्टअप जोन में जितना प्रोडक्शन होगा, सभी ले लेंगे

है। मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से इतने बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिलना प्रशंसनीय है। सभी उद्यमी खूब मेहनत करें, भरपूर प्रयास करें और डिमांड को पूरा करें। इसी दरम्यान वाइस प्रेसिडेंट, दिल्ली टेक्सटाईल एशोसिएशन, श्री टंडन से भी दूरभाष पर जिलाधिकारी एवं उद्यमियों से वार्ता हुई। श्री टंडन ने चनपटिया स्टार्टअप जोन के प्रोडक्शन की मार्केटिंग के लिए रुचि दिखाई है। उन्होंने चनपटिया स्टार्टअप जोन के उद्यमी, श्री ओमप्रकाश पटेल से विभिन्न प्रोडक्ट की रॉ-मेटेरियल, प्रोडक्शन, रेट, क्वालिटी, ट्रांसपोर्टिंग आदि की विस्तृत जानकारी ली। उनके द्वारा प्रोडक्शन से संबंधित डिजिटल कैंटलाॅग की मांग भी की गई है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने वरीय उप समाहर्ता, रवि प्रकाश को निदेश दिया कि एक्सपोर्ट की बेहतर व्यवस्था एवं निगरानी के लिए अविलंब एक एक्सपोर्ट सेल का गठन कराना सुनिश्चित किया जाय। इस सेल में ऊजावान अधिकारियों एवं कर्मियों को शामिल किया जाय जो बेहतर तरीके से स्टार्टअप जोन चनपटिया से एक्सपोर्ट आदि का क्रियान्वयन करा सकें।

एनएमएस के तहत ही मनरेगा के मजदूरों की बनेगी हाजिरी



मदरलैण्ड संवाददाता

बेतिया। ठकराहा मनरेगा कार्यालय में मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद ने शुक्रवार को मनरेगा कमीटी के साथ बैठक किया। बैठक में प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा योजना से चल रहे कार्यों के प्रगति, मजदूरों की भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी श्री प्रसाद ने बैठक में उपस्थित पंचायत रोजगार सेवक को हितदायक देते हुए कहा कि वे मजदूरों की हाजिरी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से ही बनाएँ। बैठक के सम्बन्ध में पदाधिकारी ने बताया कि मनरेगा योजना में फर्जी मजदूरों के नाम पर पैसे भेजने के शिकायत पर सरकार द्वारा एनएमएस ऐप जारी किया गया। इस ऐप के महत्ता की जानकारी देते हुए इसे शत प्रतिशत लागू करने की हीदयत दी गयी। वहीं उन्होंने उपस्थित पीआरएस को मनरेगा कार्य में पुरुषों के अपेक्षा महिला मजदूर को काम देने की दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में लेखापाल पवन कुमार मिश्र, जेई ज्ञानेंद्र पाण्डेय, पीटीए पंकज कुमार, पीआरएस जिनेंद्र कुमार इकरामुल हक बीएफटी विनय मिश्र, शत्रुमर्दन सिंह कार्यपालक सहायक रतन प्रताप सिंह उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अंतर्गत कागजीकरण/दस्तावेजीकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन 23-25 मई को निर्धारित

मदरलैण्ड संवाददाता

बेतिया। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत पारदर्शिता लाने एवं सामूहिक रूप से ऋण प्रदान के उद्देश्य से योजना वर्ष 2019-20 एवं पूर्व के वर्षों के लिए जिला चयन समिति द्वारा चयनित आवेदकों का विशेष शिविर लगाकर कागजीकरण/दस्तावेजीकरण करने के लिए जिला मुख्यालय, बेतिया अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के समीप विशेष शिविर का आयोजन दिनांक-23.05.2022 से दिनांक-25.05.2022 तक निर्धारित है।

सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, पश्चिम चम्पारण, श्री बैद्यनाथ प्रसाद द्वारा बताया गया कि 23-25 मई तक लगने वाले कागजीकरण/दस्तावेजीकरण हेतु विशेष शिविर की तैयारी अंतिम चरण में है। शिविर को हर हाल में सफल बनाने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण के कर्मी तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि चयनित आवेदकों को एएसएम के माध्यम से निर्धारित अवधि में विशेष शिविर कार्यक्रम में भाग लेते हुए कागजीकरण एवं दस्तावेजीकरण कार्य को जानकारी दी जा रही है।

समाजसेवी तुफैल अहमद ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस



मदरलैण्ड संवाददाता

बेतिया। बेतिया पश्चिम चम्पारण के छावनी में आपसी भाईचारे को बनाये रहने एवं शांति व्यवस्था कायम हेतु समाजसेवी तुफैल अहमद ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। समाजसेवी तुफैल अहमद ने कहा कि अगर सही समय पर जिला प्रशासन घटना स्थल पर नहीं पहुँचती तो सायद कोई बड़ा अनहोनी हो जाती। बेतिया पश्चिम चम्पारण के एसपी उपेन्द्रनाथ वर्मा एवं जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार तथा बेतिया रऊट, ऊरुड, अरऊट का हम सभी छावनी के लोग बहुत ही शुक्र गुजार है कि मामले को तुरंत शांत कराने और लोगों से शांति व्यवस्था हेतु अपील किया। तुफैल अहमद ने

बताया कि बेतिया जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार तथा एसपी उपेन्द्रनाथ वर्मा को देखा गया कि घर घर जाकर लोगों को समझाने का जो कार्य किया उससे लोगों पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। इस घटना की सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को मिला तुरंत जिला प्रशासन घटना स्थल पर पहुँच कर मामला को शांत कराया। इसके लिए हम सभी छावनी के लोग जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी छावनी में भाईचारा कायम है। और यह भाईचारा जिन्दगी भर कायम रहेगा। वहीं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अपील किया कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाये ताकी आपसी भाईचारा बरकरार रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपस्थित कई समाजसेवी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद रही।

तेज आंधी व बारिश के कारण कई घर हुए धाराशायी पीड़ित परिवार खुले आसमान में रहने को हैं विवश

मदरलैण्ड संवाददाता

बेगूसराय। छोड़ाही प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार की शाम अचानक आधी तेज आंधी व बारिश के कारण कई आशियाना धाराशायी हो गया। कुछ घर के धाराशायी होने से कई लोगों के चोटिल होने की भी सूचना मिली है। सहरी पंचायत के बिदेश्वरी पासवान, अनिल महतो, अमरेश चौधरी, प्रवीण कुमार, सावत पंचायत के पताही गांव निवासी फूलों यादव, बखड्डा गांव निवासी मोहम्मद नजरुल, मोहम्मद नजीर, परीरा पंचायत के डुमरी गांव



निवासी आरती देवी, पति विक्की पासवान, प्रियंका देवी, पति गोविंद पासवान के अलावे गौरीडीह, शाहपुर अन्धकार के लोगों का घर उजड़ गया और सभी लोग बेघर हैं। सहरी पंचायत के मुखिया राम सेवक पासवान ने बताया कि इसकी जानकारी जनप्रतिनिधि के द्वारा अंचलाधिकारी को सूचना दिया गया है। वहीं अंचलाधिकारी विजय प्रकाश ने बताया कि जानकारी मिली है। राजस्व कर्मचारी की जांच में भेजा गया है, जांच के बाद विधि सम्मत सहयोग किया जाएगा।



टैंकर से पानी का आपूर्ति शुरू, ग्रामीणों की समस्या में हुई कमी

मदरलैण्ड संवाददाता

बेतिया। गौनाहा प्रखण्ड अन्तर्गत धमौरा पंचायत के वार्ड संख्या एक बिखनाथोरी गांव में तपि गर्मी में पीने के लिए पानी का एक अकाल सा पड़ गया था। ज्ञात हो कि इंडो नेपाल बॉर्डर यानी कि भारत वर्ष का अंतिम गांव बिखनाथोरी में प्राकृतिक पीने योग्य पानी नहीं होने या बहुत कम मात्रा में होने से ग्रामीणों को पड़ोसी देश नेपाल के झरनों से पानी लाकर पीना पड़ता था। ग्रामीण मोतीलाल पासवान, मदन साह, प्रभु साह, हंरद गुप्ता, कृष्ण मोहन ठाकुर, सदानन्द साह, युद्ध कुमार साह, सुना आलम कृष्णा साह चंदन कुमार राजेन्द्र सिंह आदि ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव के लोगों को पीने के लिए पानी का बहुत बड़ा समस्या था। लेकिन मई के दिने से पी एच ई डी विभाग बेतिया ने प्रत्येक दिन सा टैंकर पीने योग्य पानी का आपूर्ति करना शुरू कर दिया है। जिससे इस कड़के की तपि गर्मी में लोगों को शुद्ध जल पीने के लिए मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस गांव में एक सरकारी विद्यालय भी है।



टैंकर से पानी आपूर्ति के पहले इस विद्यालय के बच्चे पास में बह रही पंडई नदी का पानी पीने के लिए मजबूर थे। और विद्यालय का मध्यम भोजन भी पंडई नदी के पानी से बनता

था जिसको पीकर बच्चे बीमार पड़ते रहते थे। लेकिन अब वह सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई है। ग्रामीण सह पानी के आपूर्ति कर्ता संवेदक पूना सिंह ने बताया कि प्रत्येक दिन दो टैंकर पानी सुबह और दो टैंकर पानी शाम को जमुनिया पंचायत के प्रेम नगर के सरकारी पानी टंकी से लाकर बिखना थोरी के ग्रामीणों के बीच वितरण किया जाता है। जीससे यहां के लोगों के पीने के पानी की सभी कठिनाइयाँ दूर हो गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व से इस गांव में दो अदद सोलर चालित बोरिंग भी लगाए गए हैं। लेकिन दोनों बोरिंग बहुत पहले ही खराब हो चुके हैं। जिसके कारण यहां के ग्रामीण पास में नेपाल से बह कर आ रही पंडई नदी का पानी पीने का एक किलोमीटर नेपाल से लाया हुआ पानी पीते थे। और बहुत बच्चे जब नेपाल से पानी लेने के लिए चले जाते थे तब उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। अब टैंकरों से पानी मिलने से बिखनाथ थोरी के ग्रामीणों के पीने के लिए पानी का समस्या का समाधान हो गया है। सभी ने बताया कि जो पानी अभी प्रेम नगर से लाकर ग्रामीणों के बीच वितरण किया जाता है वह बहुत ही उत्तम है।

जनता दरबार में डीएम ने सुनी 41 लोगों की फरियाद

जनता दरबार में अधिकांश मामले, दाखिल-खरीज, बासगीत पर्चा, भूमि नापी से संबंधित



मदरलैण्ड संवाददाता

अररिया। शुक्रवार को डीएम इनायत खान के कार्यालय कक्ष में को जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी के जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडों से कई फरियादी पहुंचे थे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने 41 फरियादियों की समस्याओं की सुनवाई की। उन्होंने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को इसके निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। जनता दरबार में अधिकांश मामले, दाखिल-खरीज, बासगीत पर्चा, भूमि नापी, आंगनवाड़ी सेविका चयन में अनियमितता, दुर्घटना परिवारिक लाभ, कोरोना से



मृत्यु का मुआवजा एवं जन वितरण प्रणाली से संबंधित थे। रानीगंज प्रखंड के ग्राम छतियौन निवासी शाहीन द्वारा सेविका सहायिका चयन को लेकर शिकायत की गई। पलासी प्रखंड के अली मोहम्मद द्वारा मनरेगा कार्य में बरती जा रही अनियमितता को

लेकर शिकायत किया गया। पलासी प्रखंड से ही मो0 हारीस, मो0 शरीफुद्दीन आदि द्वारा सामूहिक आवेदन देकर पकरी पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध ख्यादान नहीं दिए जाने को लेकर शिकायत की गई। इसी प्रकार खरैयाबस्ती निवासी शादिक हुसैन द्वारा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत उनके पिता के निधन के पश्चात अनुकंपा का लाभ नहीं मिलने की शिकायत जिला पदाधिकारी से की गई। मौके पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री विनोद कुमार, जिला जन संपर्क पदाधिकारी, दिलीप सरकार, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया एवं फारबिसगंज तथा संबंधित पदाधिकारिण मौजूद थे।

सुमिल कैमिकल इंडस्ट्रीज ने ट्रायोन जेडएफएस और ब्लैक बेल्ट कीटनाशक पेश किए



जीरकपुर। सुमिल कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड द्वारा आज होलर रेंडेशन जीरकपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रायोन जेडएफएस और ब्लैक बेल्ट नाम से दो नए 9 (3) कीटनाशक राजेंद्र अखानी, प्रेसीडेंट, सेल्स, हिरेश पटेल, वीपी मार्केटिंग, एनबी पटेल, नेशनल सेल्स मैनेजर, राधेश्याम, हेड क्रॉप प्रोटेक्शन और चिराग दारजी, मार्केटिंग सर्विसेज की उपस्थिति में लॉन्च किए गए।

उल्लेख किया कि एसएमएल समूह उन्नत फॉर्मूलेशन में एक टेक्नोलॉजी लीडर है, जो पांच दशकों से 85 से अधिक देशों की सेवा कर रहा है। इसके पास पर्यावरण हितैषी, उच्च गुणवत्ता और जैविक रूप से कुशल फॉर्मूलेशन वाली दुनिया की सबसे बड़ी अल्ट्रा-आधुनिक मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी है और बढ़ते ग्लोबल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी विकसित करने में विशेषज्ञता वाला एक समर्पित अत्याधुनिक आर



एंड डी सेंटर मौजूद है। ट्रायोन जेडएफएस घातक पोले तना छेदक से निपटने के लिए सुमिल कैमिकल इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित डब्ल्यूजी फॉर्मूलेशन के रूप में दुनिया का पहला कीटनाशक और पोषक तत्व कॉम्बो है। राधेश्याम, हेड क्रॉप प्रोटेक्शन ने कहा कि यह अपनी तरह का अनूठा उत्पाद है, क्योंकि कीटनाशक के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली अक्रिय सामग्री को 70 प्रतिशत स्लरफ

और 13 प्रतिशत जिंक ऑक्साइड से बदला जाता है, जो निष्क्रिय यौगिकों को पोषण प्रदान करता है। यह न केवल पोषकों को आवश्यक पोषण प्रदान करता है बल्कि मिट्टी की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसलिए इसे हल्के-हल्के संगम दुनिया में अव्वल टैग लाइन दी गई है। एक डब्ल्यूजी आधारित उत्पाद होने के कारण ट्रायोन जेडएफएस की एप्लीकेशन आसान है। धान में रोपाई के 15 से 20 दिनों के बाद और सिधे बोए गए धान में 25 से 30 दिनों के बाद मिट्टी या उर्वरक में समाप्त रूप से मिलाकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लगाने का सुझाव दिया जाता है। स्टेम बोअर के खिलाफ सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए यह टाइम स्लॉट सबसे प्रभावी है और चूँकि यह प्राथमिक जुताई पोषण के दृष्टिकोण से भी फसल का महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए ट्रायोन जेडएफएस खिव के पहले कीटनाशक और पोषक तत्व कॉम्बोनेशन उत्पाद के रूप में किसानों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है।

सेबी की फ्रंट रनिंग धोखाधड़ी पर कड़ी नजर, फंड हाउसेज और ब्रोकरेज फर्मों पर कसेगी शिकंजा

नई दिल्ली, एजेंसी। पूंजी बाजार की शीर्ष नियामक संस्था सेबी ने म्यूचुअल फंडों और ब्रोकरेज फर्मों के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले सभावित फ्रंट रनिंग को रोकने के लिए नया तरीका निकाला है। इसके लिए सेबी अपने डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहा है। हाल के दिनों में सेबी को फ्रंट रनिंग की कई शिकायतें मिली हैं। सेबी उन सबकी जांच कर रहा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फ्रंट रनिंग क्या बला। दरअसल, बड़े म्यूचुअल फंड हाउस के कर्मचारी किसी स्टॉक में पैसा डालने से पहले खुद उसमें पैसा डाल लेते हैं और जब बड़े फंड हाउस का पैसा लगता है तो शेयर ऊपर जाता है। जब शेयर ऊपर जाता है तो ये लोग अपना मुनाफा निकाल लेते हैं। यह एक तरह की धोखाधड़ी है। इसी कड़ी में ऐक्सिस म्यूचुअल

फंड के भी दो फंड मैनेजर्स पर फ्रंट रनिंग का आरोप लगा है। सेबी इसकी भी जांच कर रहा है। इसमें से एक फंड मैनेजर वीरेश जोशी को एक्सिस म्यूचुअल फंड ने बर्खास्त कर दिया है। एक्सिस एमएफ की ओर से यह जानकारी दी गई है, जोशी की बर्खास्तगी 18 मई, 2022 से प्रभावी हो गई है। दूसरे आरोपी फंड मैनेजर दीपक अग्रवाल हैं जो अभी निलंबित हैं। सूत्रों का कहना है कि फंड हाउसों द्वारा शेयरों की खरीद के दिन उन शेयरों में हुए उतार-चढ़ाव पर नजर रखने के लिए सेबी अपने डेटाबेस का उपयोग कर रहा है, ताकि फ्रंट रनिंग का पता चल सके। फंड मैनेजर्स और ट्रेडर्स द्वारा फ्रंट रनिंग किया जाना कोई नई बात नहीं है। पहले इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि फ्रंट रनिंग का पता लगाना जाए और फिर उसे साबित किया जाए।

पिछले कुछ महीनों से सेबी अपने डेटा ट्रोव पर इटो लिजेंस आर्टिफिशियल का इस्तेमाल कर रहा है ताकि फंडों द्वारा स्टॉक की खरीद के दिन उस स्टॉक में हुए बदलाव या उतार-चढ़ाव की पहचान की जा सके। इस तरीके के इस्तेमाल से सेबी अब पूरी तरह से इस बात से वाकिफ हो गया है कि म्यूचुअल फंडों और कभी-कभी ब्रोकरेज फर्मों के कर्मचारियों द्वारा फ्रंट रनिंग किया जा रहा है। सेबी के करीबी सूत्रों का कहना है कि अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद बाजार नियामक सरकार से इस संबंध में अधिकार देने के लिए संपर्क कर सकता है। फ्रंट रनिंग में फंड मैनेजर अपने डीमैट खातों के जरिये शेयरों को खरीदने या बेचने में शामिल हो सकता है।

संक्षिप्त समाचार

केंद्र सरकार ने कच्चे जूट की मूल्य सीमा हाटाई

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने 20 मई से कच्चे जूट पर 6,500 रुपए प्रति क्विंटल की मूल्य सीमा को हटाने का फैसला किया है। कपड़ा मंत्रालय ने कहा कि उम्मीद है कि इस मूल्य सीमा के हटने से किसानों, मिलों और जूट एमएएसएमई क्षेत्र को मदद मिलेगी, जिसमें लगभग 40 लाख जूट किसानों के अलावा सात लाख से अधिक लोग जूट के व्यापार पर निर्भर हैं। मंत्रालय ने बताया कि जूट आयुक्त कार्यालय औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से कच्चे जूट की कीमतों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है और यह पाया गया है कि वर्तमान कीमतें तय मूल्य सीमा के आसपास चल रही हैं। कीमतों में घटती प्रवृत्ति से जूट के सामान के निर्यात को भी फायदा होगा, जो मूल्य के संदर्भ में उद्योग के कारोबार का लगभग 30 प्रतिशत है।

भारत ने 18 मई तक 75 लाख टन चीनी निर्यात किया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने चालू विपणन वर्ष में 18 मई तक 75 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा चीनी सत्र 2021-22 में चीनी का निर्यात, चीनी सत्र 2017-18 के मुकाबले 15 गुना है। भारत से इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और अफ्रीकी देशों को चीनी निर्यात की जाती है। वर्ष 2020-21 में करीब 70 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था। बताया कि कहा गया कि चीनी निर्यात की सुविधा के लिए पिछले पांच वर्षों में चीनी मिलों को लगभग 14,456 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की लागत आई।

कनाडा ने हुआवे टेक्नोलॉजीस को 5जी नेटवर्क से प्रतिबंधित किया

टोरंटो, एजेंसी। कनाडा की सरकार ने चीनी की हुआवे टेक्नोलॉजीस को देश के अगली पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। 5जी नेटवर्क लोगों को तेज गति वाली इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अमेरिकी लंबे समय से टूटो सरकार पर हुआवे को 5जी नेटवर्क से अलग रखने पर जोर देता रहा है। उसका कहना है कि इससे बीजिंग के लिए कनाडाई लोगों की जासूसी करना और आसान हो जाएगा। कनाडा के जन सुरक्षा मंत्री मार्को मंडिसिनो ने बहुरूपितवार को सरकार के इस फैसले की पुष्टि की। हुआवे फोन तथा इंटरनेट कंपनियों के लिए नेटवर्क उपकरणों की सबसे बड़ी वैश्विक आपूर्तिकर्ता कंपनी है।

जिलिंगो के सीईओ अकिती बोस बर्खास्त

नई दिल्ली, एजेंसी। सिंगापुर के फैशन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जिलिंगो ने शुक्रवार को बताया कि गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट करवाने के बाद भारतीय मूल की सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अकिती बोस को बर्खास्त कर दिया गया है। कंपनी के खातों में कथित विसंगतियों की शिकायतों के बाद 31 मार्च को बोस को निलंबित किया गया था। जिलिंगो ने कहा कि एक स्वतंत्र फॉरेंसिक कंपनी ने गंभीर वित्तीय अनियमितताओं संबंधी शिकायतों की जांच की जिसके बाद कंपनी ने अकिती बोस को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। कंपनी को कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार है। हालांकि कंपनी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी कि बोस के खिलाफ आरोप क्या हैं और जांच में क्या निष्कर्ष निकले हैं। कंपनी ने कहा कि बोस ने उम्मीद नहीं की थी कि वह 31 मार्च को उन्हे निलंबित किया गया और जांच में यह साबित हो गया कि कंपनी ने उचित कार्रवाई की है।

इस साल गेहूं की पैदावार तीन फीसदी घटकर 10.64 करोड़ टन रहने का अनुमान

नई दिल्ली, एजेंसी। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस साल गेहूं की पैदावार में गिरावट आ सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए अनुमान के मुताबिक, भारत में गेहूं की पैदावार फसल वर्ष 2021-22 जुलाई से जून में इससे पिछले फसल वर्ष से 3 फीसदी गिरकर 10.64 करोड़ टन रहने वाली है। फसल वर्ष 2020-21 में गेहूं की पैदावार 10.95 करोड़ टन रही थी। यह सरकार के इस साल के लिए खुद के अनुमान 11.32 करोड़ टन से 4.61 फीसदी कम है। कृषि मंत्रालय फसल कटाई के अलग-अलग चरणों में 3 अनुमान जारी करता है। इसके बाद आखिर में फसल उत्पादन का अंतिम डेटा जारी किया जाता है। कृषि सचिव मनोज अहुजा ने कहा है कि गेहूं की पैदावार में गिरावट का एक बड़ा कारण यह है कि हीट वेव की वजह से हरियाणा और पंजाब में अच्छी फसल नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि गेहूं का उत्पादन इस साल गिरकर 10.5-10.6 करोड़ टन रह सकता है। मंत्रालय द्वारा जारी नए अनुमानों में गेहूं के अलावा कपास और मोटे अनाज की पैदावार में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि, अन्य अनाजों व नकदी फसलों की बात करें तो इनका उत्पादन पिछले साल से बेहतर रहने की उम्मीद है।

शेयर बाजार भारी तेजी के साथ बंद केएफसी के दीवाने जोर से चिल्ला रहे हैं हाउजैट



मुंबई, एजेंसी। मुम्बई शेयर बाजार शुक्रवार को भारी तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले अंक संकेतों के साथ ही भारी लिवाली (खरीददारी) से चरलू बाजार में यह उछाल आया है। संसेक्स में शामिल सभी कंपनियों के शेयरों में तेजी रही। डॉरिड्रोज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, नेस्ले, लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी के शेयर लाभ में रहे। दिन

चंडीगढ़ : यह साल का ऐसा समय है जब हम अपनी-अपनी चहेती क्रिकेट टीमों के नाम पर एक-दूसरे से शर्त लगा रहे होते हैं, अपनी-अपनी चहेती टीमों को लेकर एक-दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन केएफसी की चिकन बकेट ही ऐसी चीज है, जो हमें साथ लाती है। आप सोच भी नहीं सकते, पर अब जोर से अपनी टीम को चियर करना आपके अपने पसंदीदा केएफसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट जीतने में मदद कर सकता है? जी हां, अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा कीजिए तथा हिस्सा लीजिए केएफसी एप पर चल रहे अपनी तरह के पहले वॉइस एक्टिवेटेड मेगा ऑफर हाउजैट में। केएफसी एप को डाउनलोड कीजिए और होम स्क्रीन पर हाउजैट बैनर पर क्लिक करके जितनी जोर से हो सके, उतनी जोर से चिल्लाइए हाउजैट, क्योंकि जितना जोर से आप चिल्लाएंगे, उतना बड़ा डिस्काउंट



अपने ऑर्डर पर पाएंगे एप पर इस नए फीचर को लेकर केएफसी इंडिया के सीएमओ मोक्ष चोपड़ा ने कहा, हम सब जानते हैं कि क्रिकेट मैच का आनंद लेते समय केएफसी कंज्यूमर्स का फेवरेट साथी है। और अब इस साथ को हमने नई ऊंचाई दी है, या ऐसा कहिए कि नई आवाज दी है। क्यूएसआर कैटेगरी में अपनी तरफ की अनूठी पहल के तहत हमने अपने

एप पर वॉइस इनोवेटिव ऑफर लॉन्च किया है, जो क्रिकेट फैंस को जोर से हाउजैट चिल्लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जितनी जोर से वो चियर करेंगे, उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। टेक्नोलॉजी का यह अनूठा इस्तेमाल हमारे नए एप को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। तो फिर तैयार हो जाइए अपनी पसंदीदा टीम को चियर करने के लिए और हाउजैट कीजिए नए केएफसी एप पर अमेजिंग ऑफर्स को। आइसोबार के साथ साझेदारी में तैयार किया गया हाउजैट फीचर 29 मई तक केएफसी एप पर उपलब्ध रहेगा। जैसे आपकी टीम के स्कोर में कुछ अतिरिक्त रन जुड़ते हैं, बस उसी तरह आप भी अपने ऑर्डर में कुछ अतिरिक्त डिस्काउंट जोड़ लीजिए। इस पूरे क्रिकेट सीजन में ग्राहक 40% तक का डिस्काउंट जीत सकते हैं।

साल का सबसे लुभावना ट्रैक शिवोरेक्स का 'वो रात आपको एक खुशी से भरी दुनिया में ले जाएगा'

चंडीगढ़, 20 मई, 2022: जब संगीत की धुनों की बात आती है तो सोनी म्यूजिक को पता है कि चलन में क्या है और जनरेशन जेड एवं नेटजेंस के श्रोता किस ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस बार यह लेबल शिवम शर्मा उर्फ शिवोरेक्स के साथ अपने फैंस के लिए उनका वायरल हुआ पहला गीत हवा रातह लेकर आया है। लोफो बीट्स के साथ इस आरएंडबी लव सॉंग को शिवम ने खुद गाया व परफॉर्म किया है। इसके सुकूनभरे वोल और कंघोजिशन लाखों लोगों के दिल में उतर गए हैं। गीत के बोल रोहित विंता ने लिखे हैं।



वह उसकी एक आदत बनती जा रही है और वह उसके बिना खुद की कल्पना भी नहीं कर सकता और उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। हिमाचल प्रदेश के युवा इंजी कलाकार शिवोरेक्स द्वारा गाया गया यह गीत श्रोताओं को अपने मधुर स्वर्णों द्वारा मोहित कर देता है। सोशल

मीडिया पर भी श्रोता इस गीत को बहुत पसंद कर रहे हैं और हवा रात को इंस्टाग्राम पर 65 000 से ज्यादा रील हो चुकी हैं। इस गीत को मिली प्रतिक्रिया के बारे में शिवम ने कहा है 'वो रात के श्रोताओं से इतना प्यार व स्नेह पाकर धन्य और भावविहल हो गया हूँ। गायन के करियर को इससे अच्छी शुरुआत और कोई नहीं हो सकती थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह ट्रैक संगीतप्रियों के बीच इतना ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा। यह गाना अरुणख रील्स में देखा गया और चार्ट में सबसे ऊपर आ गया जिससे प्रदर्शित होता है कि श्रोताओं को यह गीत बहुत पसंद आया है और उनके मन में उतर गया है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं सोनी म्यूजिक के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे और मेरे गीत को बड़ी संख्या में श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए एक मंच दिया।

वीवो ने अपनी ब्रांड पर्स फिल्म लिवदजॉय को लांच किया

चंडीगढ़ : इनोवेटिव ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड, वीवो ने आज भारत में एक नई ब्रांड फिल्म लिवद जॉय को रिलीज किया। 12 मिनट का यह वीडियो एक टेक्नोलॉजी ब्रांड के रूप में वीवो के उद्देश्य - सुप्रीमर लेकिन सिम्प्लिफाइड टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिऐंस के माध्यम से खुशी की दुनिया निर्माण करने पर प्रकाश डालता है। इस डिजिटल फिल्म के साथ, वीवो कंस्यूमर्स को उनके जीवन में खुशी के क्षणों को पहचानने और इन क्षणों को संजोने में मदद करने की उम्मीद करता है। फिल्म का मूल संदेश यह है कि हमारे चारों ओर दुनिया में खुशी है - चाहे वह आत्म-अभिव्यक्ति के माध्यम से हो, हमारे प्रियजनों के साथ हमारा कनेक्शन हो या हमारे चारों ओर की ढेर सारी चीजों में हो, सभी में खुशियाँ मौजूद हैं अगर हम इसे सही नजरिए से देखें तो। डीवीसी लॉन्च पर, योगेंद्र श्रीरामुला, डायरेक्टर ब्रांड स्ट्रेटेजी, वीवो इंडिया ने कहा, हमारे ब्रांड फिलोसॉफी के साथ, अलाइड हम अपने सुप्रीमर और टेक्नोलॉजिकल रूप से एडवांस प्रोडक्ट के उपयोग के साथ अपने ग्राहकों के जीवन को आनंदमय बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को चैलेंज कर रहे हैं। आज तेज भागती दुनिया का सामना करते हुए, सामाजिक मान्यता, भौतिकवाद, और व्यक्तिवादी खोज का अनुसरण करते हुए, हम जब तब भूल जाया करते हैं कि हम अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में आनंद से घिरे हुए हैं। इस गैप को भरने के लिए, वीवो का लक्ष्य लोगों को एक-साथ लाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है ताकि उन्हें डेली मोमेंट्स में खुशियों को खोजने में मदद मिल सके।

सेबी ने फोर्टिस हेल्थकेयर सहित 32 इकाइयों पर जुर्माना लगाया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने धोखाधड़ी मामले में फोर्टिस हेल्थकेयर हॉलिंग्स समेत 32 इकाइयों पर 38.75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला दरअसल वर्ष 2018 का है, जब एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी कि बाजार में सूचीबद्ध एफएचएल के प्रवर्तकों ने कथित तौर पर कंपनी से बड़े पैमाने पर धन निकाला था। इसी रिपोर्ट के आधार पर बाजार नियामक ने धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यापार निषेध (पीएफ्यूटीपी) के प्रावधानों के संभावित उल्लंघनों को लेकर एक जांच शुरू की थी। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि एफएचएल के पूर्व प्रवर्तकों ने धोखाधड़ी के लिए एक व्यवस्थित योजना तैयार की थी। इस योजना के जरिए इधर-उधर किया गया था।

एचडीएफसी बैंक ने भारत में गहराई तक उतरने के लिए ग्रामीण बैंकिंग व्यवसाय की रूपरेखा बनाई



या आईसीडी के माध्यम से कई संस्थाओं में निवेश के नाम पर एक सूचीबद्ध कंपनी के संसाधन को इधर-उधर कर रहे थे। 18 मई को जारी आदेश के अनुसार, एफएचएल से 397 करोड़ रुपए का कोष आरएचसी होल्डिंग में डाला गया था। यह निवेश एफएचएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुभूति फोर्टिस हॉस्पिटल्स लिमिटेड के जरिए इधर-उधर किया गया था।

एचडीएफसी बैंक ने भारत में गहराई तक उतरने के लिए ग्रामीण बैंकिंग व्यवसाय की रूपरेखा बनाई

पठानकोट/होशियारपुर: आज एचडीएफसी बैंक ने घोषणा करके बताया कि इसने भारत में गहराई तक उतरने के लिए ग्रामीण बैंकिंग क्रियाकलाप की रूपरेखा तैयार की है। बैंकिंग उत्पादों को भीतर इलाकों में और ज्यादा हमारे तक ले जाने के लिए, ग्रामीण बैंकिंग इस दिशा में बैंक के मौजूदा अभियानों को संपादित करेगी और उसे अंतिम छोर तक लेकर जाएगी। एचडीएफसी बैंक में सीनियर एग्जिक्यूटिव वॉइस प्रेसिडेंट एवं नेशनल ग्रामीण बैंकिंग हेड, श्री अनिल भवनानी ने कहा, दृढाहम बैंक के विश्वस्तरीय उत्पाद व सेवाएं भारत के सबसे दूरदराज के हिस्सों तक ले जाने के लिए उन्हाहते हैं। दृढाहम उन्होंने कहा, दृढाहम एक चुनौती एवं एक अवसर, दोनों हैं, और मैं इस दिशा में काम करने के लिए

बहुत उत्साहित हूँ। बैंक की 50 प्रतिशत शाखाएं कई सालों से अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में हैं। इस बड़े हुए फोकस के साथ, हम इस वित्तवर्ष अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में और ज्यादा शाखाएं खोलेंगे। ये शाखाएं हमारे टैचवाइंट्स हैं, जिनके माध्यम से हम इन बाजारों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पादों का निर्माण करके ग्रामीण इलाकों की जरूरतों को समग्र रूप से पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दृढाहम बैंक के ह्यप्यूर - रेडीह प्रोजेक्ट के तहत रिटेल ब्रांच बैंकिंग द्वारा तैयार, ग्रामीण बैंकिंग व्यवसाय अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिनका एक बड़ा हिस्सा अभी भी इसके दायरे से बाहर है। बैंक के साथ 19 सालों से ज्यादा समय से काम कर रहे, श्री अनिल

मेट्रो और शहरी इलाकों में हैं। दूरदराज के इलाकों में बैंक शाखाओं की सेवाओं का विस्तार करने के लिए बैंक कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के विलेज लेवल एंट्रिप्राइस (वीएलई) के साथ भी काम करता है। ग्रामीण बैंकिंग व्यवसाय अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में उत्पाद व सेवाओं का संपूर्ण संग्रह प्रदान करेगा। इसके लिए बैंक निम्नलिखित दृष्टिकोण के साथ काम करेगा: 1. वितरण नेटवर्क - ग्रामीण इलाकों में अपने वितरण का विस्तार करने के लिए बैंक इस वित्तवर्ष अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में 1,064 से ज्यादा शाखाएं खोलेंगे। 2. सामरिक साझेदारी - उपभोक्ता

व्यवहार, उपभोक्ता संतुष्टि, सेवा के डिजाइन व सेवा की आपूर्ति के मामले में विकसित होते परिदृश्य को समझकर ग्रामीण प्रथमह की रणनीति का निर्माण करने के लिए बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल लेवल एंट्रिप्राइस (वीएलई) के साथ भी काम किया है। ग्रामीण बैंकिंग व्यवसाय अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में उत्पाद व सेवाओं का संपूर्ण संग्रह प्रदान करेगा। इसके लिए बैंक निम्नलिखित दृष्टिकोण के साथ काम करेगा: 1. वितरण नेटवर्क - ग्रामीण इलाकों में अपने वितरण का विस्तार करने के लिए बैंक इस वित्तवर्ष अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में 1,064 से ज्यादा शाखाएं खोलेंगे। 2. सामरिक साझेदारी - उपभोक्ता

मुम्बई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में जगह बनाने उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स, शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच

मुंबई, एंजेसी। दिल्ली कैपिटल्स टीम आईपीएल के 15 वें सत्र के अपने अंतिम लीग मैच में शनिवार को मुम्बई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में जगह बनाने उतरेगी उतरेगी। इस मैच में अगर टीम हारी तो उसकी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में कप्तान ऋषभ पंत की दिल्ली इस मैच में जीत के लिए पूरा जोर लगा देगी। वहीं दूसरी ओर कप्तान रोहित शर्मा की मुम्बई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गयी है। ऐसे में वह बिना किसी दबाव के उतरेगी पर उसका लक्ष्य अपने अंतिम जीत में जीत दर्ज कर मनोबल बढ़ाना रहेगा। इस सत्र के अब तक के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो दिल्ली की टीम इस मैच में जीत की प्रबल दावेदार नजर आती है। उसके पास अच्छी बल्लेबाज व गेंदबाज हैं। वहीं मुम्बई का दावा कमजोर नजर आता है क्योंकि उसके कप्तान रोहित सहित टीम के अन्य बल्लेबाज भी अब तक नाकाम रहे हैं, इसके अलावा टीम की गेंदबाजी भी कमजोर हुई है।

मुंबई इंडियंस के लिए यह मैच औपचारिकता भर है। ऐसे में वह अर्जुन तेंदुलकर सहित कुछ और युवा खिलाड़ियों को इस मैच में उतार सकती है। कप्तान रोहित ने भी संकेत दिया था कि वे अंतिम मैच में कुछ नये चेहरों को उतारेंगे। इस मैच पर रॉयल चैलेंजर्स बंगलूर (आरसीबी) की भी नजर रहेगी। आरसीबी की संभावनाएं इस मैच के परिणाम पर ही निर्भर करेगी। अगर मुम्बई जीतती है तो उसे अंतिम चार में जगह मिलेगी पर अगर दिल्ली कैपिटल्स जीतती है तो वह बाहर हो जाएगी। ऐसे में आरसीबी मुम्बई को जीतते देखा चाहेगी। दिल्ली के 16 अंक हैं और उसका (नेट रन रेट +0.255) है। ऐसे में उसे शीर्ष चार में जगह बनाने के लिये इस मैच में बस मुंबई इंडियंस को हराना होगा। इस प्रकार वह आरसीबी (-0.253) के नेट रन रेट से आगे हो जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स को 13 मैचों में से सात में जीत मिली और छह में हार का सामना करना पड़ा। बल्कि पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलूर पर मिली जीत से

ही उन्हें लगातार दो मैचों में पूरे अंक हासिल हुए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए इस सत्र में गेंदबाजी अधिक प्रभावी नहीं रही। तेज गेंदबाज खलील अहमद (16 विकेट) को छोड़ दें तो यह पूरे सत्र में उतार-चढ़ाव भरा रहा। शार्दूल ठाकुर ने 13 विकेट लिए पर उन्होंने काफी रन दे दिये।

सलामी बल्लेबाज के तौर पर इस मैच में पृथ्वी शां को अवसर मिलता है या नहीं यह देखा होगा। पिछले मैच में सरफराज खान ने अच्छी शुरुआत की थी, ऐसे में उन्हें ही उतारे जाने की संभावना ज्यादा है। मुम्बई इंडियंस की ओर से इस सत्र में दो बल्लेबाजों तिलक भाई और सूर्यकुमार यादव ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है पर सूर्यकुमार चोटिल होने के कारण सत्र के बीच से ही बाहर हो गये जिसके बाद से टीम की बल्लेबाजी और कमजोर हुई है। कप्तान रोहित और अनुभवी कीरोन पोलाड इस मैच में कैसा प्रदर्शन करते हैं यह देखा होगा।

दोनों ही टीमों इस प्रकार हैं:

मुंबई इंडियन्स: रोहित शर्मा (कप्तान), अनमोलप्रीत सिंह, राहुल बुद्धि, रमनदीप सिंह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, अर्जुन तेंदुलकर, बासिल थम्पी, ऋतिक शोकी, जसप्रीत बुमराह, जयदेव उनादकट, जोफ्रा आर्चर, मयंक मार्कंडे, मुरुगन अश्विन, रिले मेरेडिथ, टाइमल मिल्स, अरशद खान, डेनियल सैम्स, डेवल्ड ब्रेविस, फैबियन एलन, कीरोन पोलाड, संजय यादव, आर्यन जुयाल और ईशान किशन

दिल्ली कैपिटल्स: ऋषभ पंत (कप्तान), अश्विन हेम्बर, डेविड वॉर्नर, मनदीप सिंह, पृथ्वी शां, रोवमैन पावेल, एनरिक नोकिंथा, चेतन सकारिया, खलील अहमद, कुलदीप यादव, लुंगी एनीडी, मुस्ताफिजुर रहमान, शार्दूल ठाकुर, अक्षर पटेल, कमलेश नागरकोटी, ललित यादव, मिशेल मार्श, संचय दुबे, रिपल पटेल, सरफराज खान, विक्की ओस्तवाल, यश दुल, केएस भारत और टिम सीफर्ट।

भारतीय हॉकी टीम एशिया कप के लिए जकार्ता रवाना

बेंगलुरु, एंजेसी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 23 मई से शुरू हो रहे एशिया कप के लिए शुक्रवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता रवाना हुई। कप्तान बरिंद्र लाकड़ा की यह भारतीय टीम पुल ए में जापान, पाकिस्तान और मेजबान इंडोनेशिया का मुकाबला करेगी। भारतीय अपने अभियान की शुरुआत सोमवार से पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी।



कप्तान लाकड़ा ने कहा, ह्यहमारी टीम निश्चित रूप से अपना खिताब बरकरार रखने को लेकर उत्साहित है। एशिया कप काफी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और हमारे कुछ खिलाड़ी पहली बार इस टूर्नामेंट में उतरेंगे। टीम में काफी उत्साह बना हुआ है। उन्होंने कहा, ह्यभारतीय खेल प्रथिकरण (साइ) के बेंगलुरु केंद्र में हमारा शिबिर काफी कठिन था जिसका लाभ हमें इस टूर्नामेंट में मिलेगा। इस दौरान हर खिलाड़ी ने अपनी कमजोरियों का पता चलने के बाद उन्हें दूर किया। टीम ने हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है और कोच से भी उसे महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं।

उन्होंने कहा कि एशिया कप में हमारा ध्यान मैच पर ही रहेगा। इसमें पाक के खिलाफ मुकाबला भी शामिल है।

संक्षिप्त समाचार

मुम्बई इंडियंस का समर्थन करेंगे विराट

मुम्बई, एंजेसी। रॉयल चैलेंजर्स बंगलूर (आरसीबी) के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने कहा है कि वह दिल्ली कैपिटल्स और मुम्बई इंडियंस के बीच होने वाले मुकाबले में मुम्बई का समर्थन करेंगे। इस दौरान वह स्टेडियम में भी रह सकेंगे हैं। कोहली ने गुजरात के खिलाफ मैच में जीत के बाद कहा, ह्यदो दिनों से अपने पैरों को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुंबई का समर्थन कर रहा हूँ। मुंबई के लिए हमारे पास दो और समर्थक हैं, सिर्फ दो ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि 25 और समर्थक भी हैं। आप हमें स्टेडियम में भी देख सकते हैं। ह्य कोहली ने गुजरात के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाकर लय हासिल की है। विराट ने इस मैच में 8 चौके और दो छक्के लगाकर 73 रन बनाये। इस जीत के साथ ही बंगलूर की टीम भी प्लेऑफ कर से में बनी हुई है। बंगलूर के 14 मैच में 16 अंक हो गए हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।

निखत ने विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण जीतकर अपने को साबित किया

नई दिल्ली, एंजेसी। भारत की युवा महिला मुक्केबाज निखत जरीन ने 52 किलोग्राम वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। निखत ने खिलाड़ी मुकाबले में थाईलैंड की जितपोंग जुटामेंस को 5-0 से पराजित किया। इसी के साथ ही निखत विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पांचवीं भारतीय महिला मुक्केबाज बनी हैं। निखत अब 6 बार की विश्व चैम्पियन एमसी मैरीकोम जैसी खिलाड़ियों के कलम में शामिल हो गयी हैं पर इसके लिए इस युवा मुक्केबाज को लंबा रास्ता तय करना पड़ा। पहले कंधे की चोट के कारण निखत साल 2017 में मुक्केबाजी रिंग में नहीं उतर पाई थीं पर अब पांच साल के बाद उसे विश्व चैम्पियनशिप में सफलता मिली है। निखत के पिता ने कहा, विश्व चैम्पियनशिप में उसके इस स्वर्ण पदक से हर लड़की जिंदगी में बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। निखत ने जब 2000 के दशक में मुक्केबाजी शुरू की तो निजामाबाद या हैदराबाद में महिला मुक्केबाज किसी प्रतिस्पर्धा में बेहद थीं। इसके बाद भी उनके पिता ने निखत को मुक्केबाज बनने से रुकी नहीं रोका। मुक्केबाजी में लड़कियों को ट्रेनिंग या बाउट के दौरान शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनना पड़ता है इसको लेकर करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने आपत्ति भी जाहिर की थी पर निखत के माता-पिता ने इन बातों को खारिज कर दिया। इसी कारण आज वह यहां तक पहुंची है।

फ्रेंच ओपन में अल्कराज पर रहेंगी नजरें

पेरिस, एंजेसी। मैड्रिड ओपन विजेता स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज पर फ्रेंच ओपन टेनिस में सबकी नजरें रहेंगी। अल्कराज ने मैड्रिड ओपन में जिस प्रकार अपने ही देश के शीर्ष खिलाड़ी रफाल नडाल और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया था। उससे सभी हैरान रह गये थे। इसके बाद अल्कराज ने खिताबी मुकाबले में जर्मनी के अलवर्जेंडर जेबरेव को हराया था। इसके अलावा उसने इस साल चार खिताब जीते हैं जिसमें मियामी और मैड्रिड ओपन शामिल हैं। अब उसका लक्ष्य रोला गैरा पर पहला ग्रैंड स्लैम जीतना रहेगा। विश्व के इस छठे वरियता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी ने कहा है कि मेरा लक्ष्य फ्रेंच ओपन जीतना है। दूसरी ओर फ्रेंच ओपन में नडाल हमेशा हावी रहे हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा 13 बार खिताब जीता है। नडाल को फ्रेंच ओपन का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है पर वह पीठ की चोट से उबर रहे हैं। इस चोट के चलते वह कुछ टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाए थे। ऐसे में वह पर्याप्त अभ्यास नहीं कर पाये हैं। वहीं जोकोविच बेहतर फॉर्म में हैं। हाल ही में उन्होंने रोम मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। वह अब तक 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। जोकोविच भी फ्रेंच ओपन खिताब जीतकर 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने के नडाल के रिकार्ड की बराबरी करना चाहेंगे। जोकोविच ने गत वर्ष फ्रेंच ओपन फाइनल में यूनाइन के स्टीफानोस सिसिपास को हराकर यह खिताब जीता था।

विराट को निडर होकर खेलने की जरूरत : शास्त्री



मुंबई, एंजेसी। भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि विराट कोहली को निडर होकर खेलने की जरूरत है। शास्त्री के अनुसार अगर विराट पारी शुरू करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिये। मेरा यह भी मानना है विराट का समय सही नहीं चल रहा है। इस कारण किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है।

कोहली ने आईपीएल के इस सत्र में अबतक केवल 236 रन ही बनाए हैं, जिसमें केवल एक अर्धशतक है। वह तीन बार मैच की पहली ही गेंद पर आउट हुए हैं। इसके अलावा इस सत्र में वह जिस प्रकार आउट हुए हैं उससे लगता है कि भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। शास्त्री ने कहा कि कोहली को ये सोचना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं उन सभी कार्यों को कर रहा हूँ जो एक खिलाड़ी के लिए जरूरी है, उसके बाद भी रन नहीं बन रहे हैं पर यह हमेशा नहीं होगा। आने वाले समय में एक बार फिर रन बनाएंगे। इसलिए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। कोहली को इस बात का ध्यान देना चाहिये वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। जैसे ही यह विचार उनके मन में आयेगा वह लंबी पारी खेलने लग जाएंगे।



मैदान में मैग लैनिंग व एलीसी पैरी ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमण्डल दल के एक कार्यक्रम की घोषणा के समय उत्साहित होती हुई।

जीटी टीम के मैथ्यू वेड को ड्रेसिंग रूम में तोड़फोड़ करने पर बीसीसीआई ने लगाई कड़ी फटकार

नई दिल्ली, एंजेसी। आईपीएल 2022 में चल रही स्पर्धाओं में टीम गुजरात टाइटंस (जीटी) के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड को बीसीसीआई की ओर से फटकार लगाई गई है क्योंकि उन्होंने गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बंगलूर (आरसीबी) के खिलाफ आईपीएल 2022 के 67वें मैच में आईपीएल की आचार संहिता का उल्लंघन किया था। दोनों टीमों के बीच यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें बंगलूर ने गुजरात को 8 विकेट से पीटकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। वेड को आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 के तहत लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने

अपनी गलती स्वीकार कर ली है। वेड ने मुकाबले में 13 गेंदों पर दो चौके और एक छक्के की मदद से 16 रन बनाए। दरअसल, ये मैच में आरसीबी की ओर से ग्लेन मैक्सवेल छटा ओवर लेकर आए, जिनके ओवर को दूसरी गेंद पर मैथ्यू वेड ने स्वीप लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का मामूली सा किनारा लेकर पैड पर लगी और ऑन साइड की ओर चली गई। मैथ्यू वेड रन दौड़ पड़े, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने अपील कर दी और अंपायर ने उन्हें आउट करार दे दिया। इसके बाद मैथ्यू वेड ने तुरंत अपना बल्ला दिखाकर डीआरएस की मांग कर दी कि उनका बल्ला गेंद पर लगा है। थर्ड अंपायर ने फुटेज में पाया कि बैट और बॉल का संपर्क हुआ है, लेकिन अल्ट्राएज में देखा

तो उसमें कोई हरकत नहीं थी। ऐसे में अंपायर ने बाकी का काम करके उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार देने का फैसला किया। इसके बाद क्या था मैथ्यू वेड बड़क उठे। मैदान से बाहर जाते समय उनका गुस्सा सादों आसमान पर उठा। मैथ्यू वेड यहीं नहीं रुके, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाते समय सबसे पहले तो अपना हेल्मेट दे मारा और फिर अपने को कोच के मेज पर दे मारा। गुजरात की टीम के साथी खिलाड़ियों ने उनको समझाने की कोशिश की और उनको रोका। तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। बता दें कि रोहित शर्मा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब अल्ट्राएज में गेंद और बल्ले के संपर्क से पहले ही हरकत देखी गई थी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच में सौ फीसदी दर्शकों को मिलेगा प्रवेश

मुम्बई, एंजेसी। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। अब 9 जून से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली घरेलू सीरीज के लिए दर्शकों पर लगी सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गयी हैं। ऐसे में अब स्टेडियम की पूरी सौ फीसदी क्षमता के अनुसार ही दर्शकों को प्रवेश मिलेगा जबकि अब तक कोरोना संक्रमण के कारण भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने दर्शकों पर पाबंदियां लगाई थी और उन्हें सीमित तादाद में ही प्रवेश दिया जा रहा था। वहीं अब 100 फीसदी दर्शक मैदान में उतरकर मैच देख सकेंगे। कोरोना के कारण ही बीसीसीआई को दो साल तक आईपीएल देश से बाहर करना पड़ा। आईपीएल में भी अभी तक 100 फीसदी दर्शकों को मैदान में प्रवेश नहीं मिल रहा था पर बीसीसीआई ने अगले सप्ताह होने वाले आईपीएल प्लेऑफ और फाइनल में 100 फीसदी दर्शकों को मैदान में आकर मैच देखने की अनुमति दे दी है। दोनों ही देशों के बीच 9 से 19 जून के बीच टी20

सीरीज खेला जाएगा। पांच मैचों की इस सीरीज के लिए शिखर धवन या हार्दिक पंड्या में से किसी एक को भारतीय टीम का कप्तान बनाया जा सकता है क्योंकि भारत को इसी महीने इंग्लैंड दौर पर जाना है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली सहित सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। भारत-दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है : पहला टी20 मैच झू 9 जून, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली दूसरा टी20 मैच- 12 जून, बाराबती स्टेडियम, कटक तीसरा टी20 मैच- डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम चौथा टी20 मैच- सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट पांचवां टी20 मैच- एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु

आरसीबी के प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार , पंजाब और सनराइजर्स बाहर

मुंबई, एंजेसी। विराट कोहली को शानदार पारी से रॉयल चैलेंजर्स बंगलूर (आरसीबी) ने आईपीएल के 67वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। इस मैच में विराट ने सत्र का दूसरा अर्धशतक लगाने के साथ ही अपनी लय भी हासिल की। इस जीत से आरसीबी की टीम 16 अंक हासिल कर पांचवें नंबर पर पहुंच गई है और उसके उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बनी हुई हैं। वहीं गुजरात की टीम अभी भी 14 मैचों में 20 अंक लेकर शीर्ष पर बनी हुई जबकि लखनऊ की टीम दूसरे नंबर पर है। वहीं अन्य दो टीमों के लिए मुकाबला जारी है।



आरसीबी की जीत के साथ पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद भी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गयी हैं। दोनों ही टीमों के एक-एक मैच ही शेष है और उनके अब तक 12-12 अंक ही हुए हैं जबकि अन्य चार टीमों के 16-16 अंक हो गये हैं पर इनमें प्लेऑफ का फैसला अब नर रेट के आधार पर होगा।

आईपीएल 2022 फाइनल का समय बदला, 6.30 बजे से शुरू होकर 50 मिनट चलेगी क्लोजिंग सेरेमनी

नई दिल्ली, एंजेसी। 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले आईपीएल 2022 फाइनल के समय में बदलाव किया गया है। अब यह मैच 7.30 की जगह रात 8 बजे से शुरू होगा। टी20 लीग के समापन समारोह की वजह से बीसीसीआई ने यह बदलाव किया है। आईपीएल समापन समारोह 6.30 बजे से शुरू होगा और यह 50 मिनट तक चलेगी।



समापन समारोह में बॉलीवुड के कई स्टार हिस्सा होंगे। वहीं टॉस 7.30 बजे होगा। टी20 लीग में इस बार 10 टीमों उतर रही हैं। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोनों टीमों पहली बार टूर्नामेंट में उतर रही हैं। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसके अलावा बोर्ड अगले सीजन से 7.30 बजे शुरू होने वाले मैच पहले की तरह 8 बजे कराने की तैयारी कर रहा है। सन 2008 से 2017 तक रात के मैच 8 बजे ही शुरू होते थे। 2018 के बाद पहली बार क्लोजिंग सेरेमनी होने जा रही है। हालांकि

26 मार्च शुरू हुए टी20 लीग के 15वें सीजन का उद्घाटन कार्यक्रम नहीं हुआ था। बाद में अपेक्ष काउंसिल की बैठक में क्लोजिंग सेरेमनी पर फैसला हुआ। 26 मार्च से आईपीएल का मौजूदा सीजन शुरू हुआ। 10 टीमों के होने के कारण इस बार 60 की जगह कुल 74 मुकाबले खेले जाने हैं। लीग राउंड के 70 मैच महाराष्ट्र के 4 वेन्यू पर कराए जा रहे हैं। कोरोना के कारण बोर्ड की ओर से यह फैसला लिया गया था। लीग राउंड का अंतिम मैच 22 मई को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगा है। नॉकआउट राउंड के मुकाबले 24 मई से शुरू होंगे। क्वालिफायर-1 और एलिमिनेटर के मुकाबले क्रमशः 24 और 25 मई को कोलकाता के इंडन गार्ड्स पर होंगे। क्वालिफायर-2 और फाइनल मुकाबला 27 मई व 29 मई को अहमदाबाद में होने हैं। हालांकि टी20 लीग के इतिहास की 3 सबसे सफल टीमों पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। सीएसके, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं 2 नई टीमों ने कमाल का प्रदर्शन किया है।

डिक्कॉक की तारीफ कर फंसे क्रुणाल पंड्या, फैंस ने जताई हैरानी कहा मैच के बीच कैसे किया जा सकता है ट्वीट?

नई दिल्ली, एंजेसी। लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में पहुंच गई है। लखनऊ ने केकेआर को 2 रन से हराया। इस मुकाबले में लखनऊ ने निर्धारित ओवर में बिना विकेट गंवाए 210 रन बनाए थे। सलामी बल्लेबाज विवंदन डिक्कॉक ने कप्तान केएल राहुल के साथ अटूट साझेदारी की। डिक्कॉक ने 70 गेंदों पर नाबाद 140 रन की शानदार पारी खेली थी। उनकी धमाकेदार पारी की चर्चा हर जगह हो रही है, मगर डिक्कॉक की पारी की तारीफ करके उनके साथी खिलाड़ी क्रुणाल पंड्या ट्विटर से बीच बुरी तरह से फंस गए। चोट की वजह से क्रुणाल केकेआर के खिलाफ मुकाबले से बाहर हो गए थे। वह मैदान से बाहर रहकर अपनी लखनऊ टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे। डिक्कॉक ने जैसे ही अपना शतक पूरा किया। पंड्या ने उन्हें बधाई दी,

मगर उन्होंने यह बधाई ट्वीट करके दी। बस फिर क्या था वह ट्वोलर्स के निशाने पर आ गए। क्रुणाल पंड्या ने रात 9 बजकर 16 मिनट पर ट्वीट किया था, उस समय मुकाबला चल रहा था। ऐसे में मुकाबले के दौरान उनके ट्वीट करने पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। लोगों ने पूछा कि मुकाबले के दौरान वह फोन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक फैन ने कहा कि मुकाबले के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, जबकि एक खिलाड़ी टीम का हिस्सा है। क्या हाल में नियम बदले हैं? दरअसल स्टेडियम के आने के बाद खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ से मोबाइल फोन या अन्य कोई भी कम्प्यूनिशिन डिवाइस ले ली जाती है और मुकाबला खत्म होने के बाद ही उन्हें वापस दी जाती है। नियमानुसार मैच के दौरान खिलाड़ी और मैच अधिकारियों का संचार उपकरण अपने पास रखना प्रतिबंधित है।

आईसीसी के अनुसार किसी भी खिलाड़ी को इंटरनेट से भी जुड़े संचार उपकरण को अपने पास रखने या उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में मैच के दौरान डिक्कॉक को बधाई देने पर पंड्या बुरी तरह से ट्वोल होने लगे। हालांकि ज्यादातर इससे वाकिफ हैं कि कुछ खिलाड़ियों के टिवटर हैंडल को उनकी सोशल मीडिया टीम देखती हैं। ऐसे में इसकी संभावना काफी अधिक है कि क्रुणाल पंड्या के टिवटर हैंडल से उनकी टीम में किया हो। वहीं मैच के दौरान पंड्या डगआउट में भी नजर नहीं आए थे। ऐसे में इसकी भी संभावना है कि वह चोट की वजह से मैदान पर नहीं थे और अपने कमरे में आराम कर रहे होंगे। फैन ने क्रुणाल पंड्या को सलाह दी है कि वह अपने टिवटर हैंडल को कब तक मैच चल रहा हो तो कोई भी ट्वीट न करें। यह सही नहीं लगता।

मैक्सवेल रहे भाग्यशाली पहली गेंद पर थे आउट, अगली 17 गेंदों में जड़ दिए 40 रन

मुंबई, एंजेसी। आईपीएल-2022 का रोमांच इस बार न अंदाज में खिलाड़ियों की प्रतिभा दिखा रहा है। दरअसल, ग्लेन मैक्सवेल के लिए गुरुवार को एक मैच भाग्यशाली साबित हुआ। उन्होंने टी20 लीग के 67वें मैच में नाबाद 40 रन बनाए। इतना ही नहीं उन्होंने आरसीबी को जीत भी दिलाई। इसी के साथ टीम के प्लेऑफ की उम्मीद बची हुई है। यह आरसीबी की 14 मैचों में 8वीं जीत है। मैच में टॉस जीतकर पहले खेलते हुए गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट पर 168 रन बनाए। कप्तान हार्दिक पंड्या ने नाबाद 62 रन की पारी खेली। जवाब में आरसीबी ने लक्ष्य को 18.4 ओवर में 2 विकेट पर हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 54 गेंद पर 73 रन बनाए। यह उनका मौजूदा सीजन का दूसरा अर्धशतक है। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार


भी मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने अच्छी शुरुआत की। टीम को पहला झटका 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर लगा। कप्तान फाफ डुप्लेसी 44 रन बनाकर राशिद खान की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने उतरे। तब 33 गेंद पर 54 रन बनाते थे। वे राशिद की पहली गेंद पर बड़ा शॉट मारने गए। लेकिन गेंद लेग स्टंप से टकराकर विकेट के पीछे 4 रन के लिए चली गई। राशिद जश्न मनाते लगे, लेकिन बेल्लस नहीं गिरे। नियम के मुताबिक जब तक बेल्लस नहीं गिरे हैं, किसी भी बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जाता है। मौजूदा सीजन में दूसरी बार ऐसा हुआ। इसके बाद मैक्सवेल ने अगली 17 गेंद पर 40 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई।



पुरानी साड़ी को नए तरीके से पहनें

भारतीय महिलाओं के वार्डरोब में साड़ियां जरूर होती हैं। साड़ी में आपका लुक ट्रेडिशनल के साथ ही स्टाइलिश भी लगता है। साड़ी की खास बात ये है कि आप इसे किसी भी मौके पर आसानी से कैरी कर सकते हैं। ऑफिस से लेकर कैजुअल गैदरिंग और पूजा से लेकर पार्टी तक के लिए साड़ी उपयुक्त परिधान होती है। महिलाएं भले ही मॉडर्न और

स्टाइलिश कपड़े कैरी करती हों, लेकिन कभी न कभी साड़ी जरूर पहनना पसंद करती हैं। अगर आपके पास भी पुरानी साड़ी है और आप उन्हें नए लुक की चाह में नहीं पहनते तो कुछ आसान से ट्रिक्स को अपनाकर अपनी पुरानी साड़ी में नया और स्टाइलिश लुक पा सकती हैं। चलिए जानते हैं पुरानी साड़ी को नए तरीके से कैरी करने के ट्रिप्स और ट्रिक्स।



बना सकती हैं। स्टेटमेंट ज्वेलरी, ट्रेडी ज्वेलरी से खुद को स्टाइल करे।
हेयर स्टाइल
अपने हेयर स्टाइल में बदलाव करके किसी भी पुरानी साड़ी पर नया लुक लिया जा सकता है। अक्सर जुड़ा बनाती हैं, तो बालों को कर्ल करे या फिर स्टाइलिश तरीके से टाई करके लुक ले सकती हैं।



अपने घर पर बनाएं जिम, करें 'वर्कआउट'

कई लोगों के लिए सर्दियों में जिम जाना नामुमकिन सा काम होता है, ऐसे में बेहतर होगा घर पर ही वर्क आउट किया जाए। सर्दियों में वर्क आउट से बहुत फायदा मिलता है। आइए बताते हैं क्या फायदे हैं सर्दियों में वर्क आउट करने के, तो अगर जिम नहीं भी जा रहे हों तो घर में कम से कम 15 से

20 मिनट वर्कआउट जरूर करें। इससे बॉडी को ऊर्जा मिलेगी। डॉक्टर भी कहते हैं कि इस मौसम में वर्कआउट करना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। वर्कआउट की वजह से बॉडी का टेंपरेचर बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन के साथ ही जॉइंट मूवमेंट अच्छा होता है।

इम्यूनिटी में होता है इजाफा

लगातार एक्सरसाइज करते रहने से इम्यूनि सिस्टम में इजाफा होता है। यह आपकी बॉडी को इन्फ्लूएंजा से दूर रखने में मददगार होगा। यदि सर्दियों में वर्कआउट और भी जरूरी हो जाता है। सर्दियों में ही सर्दी, जुकाम, बुखार और एलर्जी जैसी दिक्कतें आती हैं। अगर आप इस मौसम में हेल्दी बने रहना चाहते हैं तो भले ही जिम न जाए, लेकिन घर में वर्कआउट करना न भूलें।

कभी भी कर सकते हैं

इंडोर वर्कआउट यानी घर पर वर्कआउट का एक बड़ा फायदा यह भी है कि आपके पास कोई समय सीमा नहीं है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कभी भी वर्कआउट कर सकते हैं। चाहे तो सुबह करे जब नींद खुले या फिर शाम को अपने घर की छत या कमरे में। न जिम जाने का टैशन और न ही सुबह जल्दी उठने की फिक्र।

नहीं बढ़ेगा वजन

सर्दियों में वर्कआउट करने का फायदा यह है कि इस दौरान आपका वजन कंट्रोल रहेगा। दरअसल, सर्दियों के दिनों में खुराक बढ़ जाती है और भूख भी बहुत लगती है। आइसक्रीम, चॉकलेट आदि भी खाने में बहुत आती हैं, ऐसे में वजन बढ़ता है। सर्दियों में किया गया वर्कआउट आपके वजन को कंट्रोल करके रखेगा। तो सर्दियों में वर्कआउट से घुप का मिलेगा फायदा मिलेगा, बॉडी को मिलेगी एनर्जिज गार्महंट मिलेगी, जो आपकी बॉडी को चमकाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी।

गंभीर समस्या है मोटापा

हृदय रोगों के अलावा इन जानलेवा बीमारियों का भी बन सकता है कारण

पिछले दो दशकों में मोटापा ग्रस्त रोगियों की वैश्विक संख्या में भारी उछाल देखने को मिला है। मोटापा या अधिक वजन को कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़कर देखा जाता है। आहार और जीवनशैली में गड़बड़ी को स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसका प्रमुख कारण मानते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि मोटापा, हृदय रोगों के खतरों को बढ़ा देता है, हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, इसका शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इतना ही नहीं इससे जनित कई स्वास्थ्य स्थितियां जानलेवा भी हो सकती हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ बीमारियां भी मोटापा या वजन बढ़ने का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा स्ट्रोक और कुछ एंटीडिप्रेसेंट जैसी दवाओं का सेवन करना भी वजन बढ़ने का कारण हो सकती हैं। वजन को नियंत्रित रखकर कई प्रकार की गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है। अधिक वजन के कारण होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानते हैं।

डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा
स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, स्ट्रोक, स्लीप एपनिया और मेटाबोलिक सिंड्रोम जैसी गंभीर समस्याओं के खतरों को बढ़ा देता है। मोटापे के कारण इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ सकता है, जो डायबिटीज की समस्या को बढ़ा देती है। इसके अलावा यह बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ावा दे सकती है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है।

इन बीमारियों का भी बढ़ जाता है जोखिम
स्वस्थ वजन वाले लोगों की तुलना में मोटापे से ग्रस्त लोगों में कई अन्य गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इस बारे में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होती है।
● हाई या बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना।
● पित्ताशय के रोग।
● ऑस्टियोआर्थराइटिस
● स्लीप एपनिया और सांस लेने में तकलीफ।
● कई प्रकार के कैंसर का खतरा।
● मानसिक बीमारी जैसे अवसाद, चिंता, और आत्म-हानिकार विकार।
● शरीर में दर्द और काम करने में कठिनाई

हम लोग कद्दू की सब्जी तो खाते हैं, लेकिन उसके बीजों को फेंक देते हैं। बेशुमार औषधीय गुणों से भरपूर कद्दू की सब्जी जितनी सेहत के लिए उपयोगी है, उतने ही उसके बीज भी सेहत के लिए फायदेमंद हैं। कद्दू के बीज दिल तक की बीमारियों का इलाज करने की क्षमता रखते हैं। दिल के मरीजों के लिए कद्दू की सब्जी के साथ ही उसके बीज भी बेहद उपयोगी हैं। कद्दू के बीज का इस्तेमाल उसका तेल निकाल कर किया जाए तो सेहत को बेपनाह फायदे होते हैं। कद्दू के बीज कई बीमारियों का उपचार करते हैं, इसमें मिनेरल्स, विटामिन, हाई फाइबर मौजूद होते हैं, जो सेहत के लिए उपयोगी हैं। कद्दू के बीज विटामिन K और विटामिन A से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर ये बीज फ्री रेडिकल से बचाव करते हैं, साथ ही शरीर को बीमारी से बचाते हैं। पंपकिन सीड ऑयल में जिंक सबसे ज्यादा होता है। शरीर में जिंक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि कद्दू के तेल का उपयोग सेहत के लिए किस तरह फायदेमंद है।
डिप्रेसन का इलाज करते हैं:
कद्दू के बीज का तेल और कद्दू के बीजों का सेवन करने से डिप्रेसन का इलाज होता है।

फायदेमंद कद्दू का बीज


कद्दू के बीज और उसका तेल इस्तेमाल करने से मूड को ठीक करने में मदद मिलती है।
दिल की सेहत का ध्यान रखना है ये तेल:
सैचुरेटेड फैट दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। कद्दू के बीजों से निकाला गया तेल अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो दिल को सेहतमंद रखता है। यह तेल दिल के लिए 'गुड फैट' प्रदान करता है। चूड़ों पर किए गए एक अध्ययन में यह सामने आई है कि कद्दू के बीज का तेल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में असरदार है।
यूरिनरी ट्रैक पर करते हैं असर:
कद्दू के बीज का तेल यूरिनरी ट्रैक पर बेहद सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। शरीर में जिंक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि कद्दू के तेल का उपयोग सेहत के लिए किस तरह फायदेमंद है।
डिप्रेसन का इलाज करते हैं:
कद्दू के बीज का तेल और कद्दू के बीजों का सेवन करने से डिप्रेसन का इलाज होता है।



किसी अच्छे तेल की तलाश में हैं, तो कद्दू के तेल का इस्तेमाल कीजिए।
बालों के लिए बेहद उपयोगी है:
कद्दू के बीज से तैयार किया गया तेल बालों की ग्रोथ बढ़ाने में बेहद असरदार है। एक अध्ययन के मुताबिक जिन पुरुषों ने 24 हफ्तों तक हर दिन 400 मिलीग्राम कद्दू के तेल का इस्तेमाल किया उनके बालों का विकास 40 फीसदी तक अधिक रहा।

कोरोनाकाल में बच्चों में बढ़ी स्क्रीन की लत

कोरोनाकाल में बच्चों में स्क्रीन की लत में इजाफा दर्ज किया गया है। माता-पिता को घर की चारदीवारी में कैद बच्चों को मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी की स्क्रीन थमाने में कोई गुरेज न होना इसकी मुख्य वजह है। 'साइकोलॉजि ऑफ पॉपुलर मीडिया जर्नल' में प्रकाशित एक अमेरिकी अध्ययन तो कुछ यही बयान करता है।




ने दो हजार से अधिक अभिभावकों से कोरोनाकाल में बच्चों में स्क्रीन के इस्तेमाल में आए बदलावों को दर्शाने वाले सवाल पूछे। इस दौरान 83.7 फीसदी माता-पिता ने महामारी में बच्चों के स्क्रीन पर गुजारे जाने वाले समय में वृद्धि होने की बात मानी। 21.2 प्रतिशत ने तो यहां तक कहा कि बच्चों की स्क्रीन की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें नया उपकरण खरीदना पड़ा। 25.5 फीसदी लैपटॉप तो 17.1 प्रतिशत क्रोमबुक खरीदने को मजबूर हुए। शोधकर्ता नैसी जेनिंस के मुताबिक अध्ययन में शामिल 19.5 फीसदी अभिभावकों ने कोरोनाकाल में बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की बात मानी। 25 फीसदी ने उन्हें टिकटॉक, 23 फीसदी ने फेसबुक मैसेंजर और 17 फीसदी ने इंस्टाग्राम के इस्तेमाल की इजाजत दी। जेनिंस की मानें तो कोरोनाकाल में बच्चों में स्क्रीन के इस्तेमाल की प्रवृत्ति पहले जैसी ही दिखी। लड़कों ने गेम खेलने को लड़कियों ने वीडियो देखने में ज्यादा दिलचस्पी ली। अध्ययन में स्क्रीन का इस्तेमाल नियंत्रित करने और वयस्क सामग्री को फिल्टर करने के लिए विभिन्न ऐप की मदद लेने पर जोर दिया गया है।

सर्दियों में बढ़ जाता है हार्ट फेलियर का खतरा, बचाव के उपाय

कई अध्ययनों से पता चलता है कि सर्दी के मौसम में अस्पताल में भर्ती होने और हृदय गति रुकने के रोगियों को मृत्यु दर अधिक होती है। ऐसा प्रमुख रूप से इंसुलिन होता है, क्योंकि तापमान में तेजी से गिरावट होने से कई तरह के शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जिससे रोग और बिगड़ जाता है। ट्रेटमेंट शोड्यूल, लाइफस्टाइल में बदलाव और हृदय रोग विशेषज्ञ के साथ नियमित जांच के साथ, शुरुआत में समय पर इलाज से हार्ट फेलियर को प्रबंधित किया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में, छाती में संक्रमण, हृदय गति में वृद्धि और रक्तचाप जैसी स्थितियों में वृद्धि होती है, जो हृदय गति को खराब कर सकती है। कम तापमान रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण कर सकता है और रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित कर सकता है, जिससे हृदय पर अधिक दबाव पड़ सकता है। इसलिए दिल के रोगियों का अगर समय रहते इलाज हो जाए, तो काफी फायदा मिल सकता है, खासतौर पर सर्दियों में। आइए सर्दियों में हार्ट फेलियर से जुड़े कुछ जोखिम कारकों के बारे में जानते हैं:

हाई ब्लड प्रेशर: ठंड का मौसम रक्तचाप के स्तर में उतार-चढ़ाव और हृदय गति में वृद्धि का कारण बन सकता है। नतीजतन यह दिल की विफलता के रोगियों में अस्पताल में भर्ती होने का कारण बन सकता है।
वायु प्रदूषण: सर्दियों के दौरान, स्मॉग और प्रदूषक जमीन के करीब जमा हो जाते हैं, जिससे छाती में संक्रमण और सांस लेने में तकलीफ होने की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट फेलियर के रोगियों को आमतौर पर

सांस की तकलीफ का अनुभव होता है और प्रदूषक उनके लक्षणों को खराब कर सकते हैं, जिससे गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है।
पर्सोने की कमी: कम तापमान से पर्सोना कम होता है। नतीजतन शरीर अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं हो सकता है और यह फेफड़ों में तरल पदार्थ का निर्माण कर सकता है, जिससे हार्ट फेलियर के रोगियों में



हृदय क्रिया बिगड़ सकती है।
सर्दियों में ऐसे रखें दिल को सुरक्षित
● शीतकालीन प्रभाव के बारे में जागरूकता से रोगियों और उनके परिवार को हार्ट फेलियर के लक्षणों पर अधिक ध्यान देने और उचित दवा और जीवन शैली में बदलाव के साथ स्थिति का प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हार्ट फेलियर के रोगियों और पहले से मौजूद दिल की स्थिति वाले लोगों को सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए और निम्नलिखित व्यवस्था को शामिल करना चाहिए:

दान देने की प्रवृत्ति ही देवत्व

जीवन में गति और लय को बनाए रखने के लिए देने की भावना को जागृत करना सबसे ज्यादा जरूरी काम है। लेना स्वार्थ है देना परमार्थ। देना देवत्व है लेना असुरत्व। लेना दुख की वृद्धि है और देना सुख का विस्तार। मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन पानी के किसी बुलबुले की भांति अस्थायी है। परमात्मा ने हमें यह जीवन प्रदान किया है। वह कब कब इसे वापस ले लेगा, लॉजिस्टिक कहना मुश्किल है। अपने समय पर इसी में है कि दिखाएँ और ब्लड इस जीवन को प्रेशर का ध्यान परमात्मा के रखें। हाथों में

◆ अपने प्रदान किया है। वह कब इसे वापस ले लेगा, लॉजिस्टिक कहना मुश्किल है। अपने समय पर इसी में है कि दिखाएँ और ब्लड इस जीवन को प्रेशर का ध्यान परमात्मा के रखें। हाथों में

सौंपकर उसके निर्देश में ही जीवन गुजर-बसर करे। परमात्मा के सिवाय इस सृष्टि में सब नश्वर है। नश्वर से प्रेम करना ही मानवीय दुख का मूल कारण है। मनुष्य इस तन को सजाने-संवारने में ही जीव का बहुमूल्य



समय नष्ट कर देता है। परमात्मा से जरा भी प्रेम नहीं करता है। यह अज्ञानता भी मनुष्य के दुख का एक कारण है। ईश्वर सत्य, सनातन, अजन्मा, अविनाशी और सुखदाता है। उससे प्रेम सुखदायी है, परंतु मनुष्य अपने सुख की खातिर रात-दिन धन संग्रह करता है। भौतिक संपदा के उपाजनों को ही जीवन का असली मकसद समझता है। मनुष्य की एक कामना पूर्ण नहीं होती, तब तक दूसरी इच्छा उसके समक्ष खड़ी हो जाती है। इनकी पूर्ति में

वह जीवन भर लगा रहता है। जो सुख-शांति देने में है वह संग्रह करने में नहीं है। मनुष्य को संपन्नता ईश्वर ने दुखियों की सहायता करने के लिए ही प्रदान की है। संग्रह दुख, परेशानी की जड़ है। एक करोड़पति सुखी नहीं होता, लेकिन एक संत भगवान का भजन करके, संग्रह के बजाय वितरण करके खुश रहता है। भौतिकता के संग्रह में नहीं, त्याग में असली सुख है। सुखी होने का एक ही मार्ग है कि आपके पास जो है उसे

आप जरूरतमंदों में बांटने की नीति सीखें। ईश सृष्टि में सर्वत्र देने की प्रक्रिया है। सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, नदी, झरना सभी देते रहते हैं। जीवन में गति और लय को बनाए रखने के लिए देने की भावना को जागृत करना सबसे ज्यादा जरूरी काम है। लेना स्वार्थ है देना परमार्थ। देना देवत्व है लेना असुरत्व। लेना दुख की वृद्धि है और देना सुख का विस्तार। संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग और ईश्वर से संबंध जोड़ना ही जीवन का संरक्षण तथा सुख-शांति का प्रमुख आधार है।

आज की रसिपी

बथुआ का पराठा



क्या आपने कभी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद बथुआ से बने पराठे खाए हैं? जी हां बथुआ के पराठे खून को साफ करने के साथ कब्ज को दूर करने, दांतों की समस्या में राहत देने वाले और पावन शांति को मजबूत करने वाले होते हैं, तो आइए जानते हैं कैसे बनाए जाते हैं ये टेस्टी सेहतमंद पराठे।

- बथुआ के पत्ते - 4 कप
- आलू - 1
- आटा - 3 कप
- जीरा पाउडर - 1/2 टी स्पून
- अजवाइन - 1/2 टी स्पून
- हींग - 1 चुटकी
- हरी मिर्च कटी - 2
- तेल
- नमक - स्वादानुसार
- पनीर

विधि
● बथुआ का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले बथुआ के पत्ते अच्छी तरह से धोकर काट लें। अब एक कड़ाही में धीमी आंच पर पानी गर्म करने के लिए रख दें। इसमें बथुआ के पत्ते और आलू डालकर उबालने के लिए रख दें। कड़ाही को ऊपर से ढक्कन पत्ते के नर्म होने तक ढकए, पत्ते पक जाएं तो गैस बंद कर दें। अब एक गहरे तले वाले बर्तन में आटा छानकर इसमें जीरा पाउडर, अजवाइन, एक चुटकी हींग और स्वादानुसार नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं।
● इसके बाद बथुआ के उबाले हुए पत्तों को छानकर पानी निखार लें और उसे आटे के साथ मिलाएं कर दें। इसके बाद उबले आलू को मेश कर इस मिश्रण में डालकर अच्छी तरह से मिला दें। फिर कटी हरी मिर्च को डालकर सभी को अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस आटे को अच्छी तरह से गूंधकर इसे एक कपड़े से ढक्कन दस मिनट के लिए अलग रख दें।
● घ्यान रखें कि बथुआ के पत्ते और आलू में पहले से पानी होने की वजह से आपको आटा गूंधने में ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी। अब इस आटे से लोड्यों तैयार करके गोल या तिकोना आकार का पराठा बेल लें।
● अब एक नॉनस्टिक पैन लें और उसे गैस पर गर्म करने के लिए रख दें। जब तवा ठीक से गर्म हो जाए तो उसमें पराठा डालकर सेंके। एक तरफ से पराठा जब सिक जाए तो उस पर तेल लगाकर पलट दें। अब दूसरी तरफ से तेल लगाकर पराठे को तब तक सेंके जब तक कि वह गोल्डन ब्राउन न हो जाए। इसी तरह सभी लोड्यों के पराठे बना लें। आपका बथुआ का हेल्दी और टेस्टी पराठा तैयार हो चुका है। इसे वटनी, अचार या दही के साथ सर्व करें।